



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1298]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2005/अग्राहायण 22, 1927

No. 1298]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2005/AGRAHAYANA 22, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1753(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1209 (अ) तारीख 29 अगस्त, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्रप्रदेश राज्य के कुरनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 203.000 कि.मी. से 293.000 कि.मी. (हैदराबाद-बंगलौर सेक्शन) तक के भूखंड का निर्माण करने (चौड़ा करने) के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और, उक्त अधिसूचना का सार तारीख 09 अक्टूबर, 2005 को “दि न्यू इण्डियन एक्सप्रेस” और तारीख 08 अक्टूबर, 2005 को “ईनाडु” में प्रकाशित किया गया था ;

और, भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों से कोई आक्षेप प्राप्त हुए थे जिनका सक्षम प्राधिकारी द्वारा निपटारा कर दिया गया है ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारों की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आंध्रप्रदेश राज्य के कुरनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 203.000 कि.मी. से 293.000 कि.मी. (हैदराबाद-बंगलौर सेक्शन) तक के भूखंड पर अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि।

जिला: कुरनूल

क्रम संख्या	मंडल	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या/उपमंडल संख्या	वर्गीकरण	भूमि का प्रकार	अर्जित क्षेत्रफल (एकड़)	भूस्वामी अन्य हितबद्ध व्यक्ति/का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृष्णागिरि	(1) अमाकाथाडू	230/1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.15	कोइलाकोन्डा लक्ष्मी देवी पत्नी (स्व.) मदना
			230/2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.14	कोइलाकोन्डा किस्टाना (पीसाना) पुत्र चिन्ना हनुमानथु
			230/3बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.06	तलारी शेशान्ना पुत्र चिन्ना गिदैया तलारा येल्लापा पुत्र चिन्ना गिदैया
			230/4बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.05	कोइलाकोन्डा नागलक्ष्मा पत्नी (स्व.) केसान्ना
			231/1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.06	कोइलाकोन्डा गोपाल पुत्र पेड्डा किस्टाना (उर्फ वैदीकाल्लना)
			231/2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.07	बोया एगिरामुडु पुत्र वेंकटटना
			231/3बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.11	बोडेपति श्रीनिवासालु पुत्र येतैया
			232/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.60	बोडेपति हनुमान्ना पुत्र येतैया बोडेपति श्रीनिवासालु पुत्र येतैया बोडेपति दस्तागिरी पुत्र येतैया
			232/3	शुष्क	सरकारी भूमि	0.02	बोडेपति श्रीनिवासालु पुत्र येतैया
			239/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.31	बोडेपति हनुमान्ना पुत्र येतैया सायदन्नागिरी वेंकटा नागी रेड्डी पुत्र नरसिम्हा रेड्डी
			240/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.04	जोनलगाड्डा बालाजी पुत्र जे. विश्वनाथम (धोने)
			243/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.80	वकाडारी श्रीनिवासालु पुत्र बी सुबैया
			244/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.64	वकाडारी श्रीनिवासालु पुत्र बी सुबैया
			245/1	शुष्क	सरकारी भूमि	1.02	कोइलाकोन्डा नायडू पुत्र के. गोरण्टला कोइलाकोन्डा बलपति पुत्र के. गोरण्टला कोइलाकोन्डा नागेश पुत्र के. गोरण्टला
			246/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.62	राजा सुजाता पत्नी राजा विजय कुमार
			247/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.27	राजा सुजाता पत्नी राजा विजय कुमार
			247/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.51	राजा सुजाता पत्नी राजा विजय कुमार
			249/1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.25	जे बालाजी पुत्र विश्वनाथम जे. प्रसाद पुत्र पद्मनाभैया शेड्डी मानुकिडी लक्ष्मण पुत्र सनकन्ना

1	2	3	4	5	6	7	8
			249/2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.09	मानुकिडी रामनजालेयुल पुत्र सुनकन्ना
							मानुकिडी वेंकटा रामुडु पुत्र सुनकन्ना
			258ए/1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.15	अम्माकाटाडु सड़क
							बोया रंगा स्वामी पुत्र पेड़डा जोलान्ना
			258ए/2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.12	बोया पापरायुडु पुत्र धिन्ना जोलान्ना
							बोया थिरुप्पालु पुत्र बुद्धा वेंकटना
			258ए/3बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.13	बोया पापरायुडु पुत्र धिन्ना जोलान्ना
							कर्णती अनुराधा पत्नी के.श्रीनिवासालु (धोने)
			258ए/4बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.03	कर्णती अनुराधा पत्नी के.श्रीनिवासालु (धोने)
			258बी/1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.17	कर्णती अनुराधा पत्नी के.श्रीनिवासालु (धोने)
			258बी/2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.18	राजा विजय कुमार पुत्र आर. सुब्रमण्यम
			258बी/3बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.19	राजा विजय कुमार पुत्र आर. सुब्रमण्यम
			259/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.20	मणिकिडी वेंकटेश्वरालु पुत्र सुनकन्ना
							मणिकिडी लक्ष्मण पुत्र सुनकन्ना
							मणिकिडी सुनकन्ना पुत्र सुनकन्ना
							अम्माकाटाडु मार्ग
			261/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.50	सज्जा सुजाता पत्नी राजा विजय कुमार
			262/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	2.07	राजा सुजाता पत्नी राजा विजय कुमार
							गंद्यल्ली मार्ग
							के. रामकृष्णा रेड्डी पुत्र माला रेड्डी
			262/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.56	लोदी अब्दुल वहाब खान पुत्र लोदी अब्दुल रहमान खान
			263/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.73	लोदी अब्दुल वहाब खान पुत्र लोदी अब्दुल रहमान खान
			265बी/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.37	बोया स्वर्णम्मा पत्नी विदम्बरुडु
			282/2	शुष्क	निजी भूमि	0.63	नासन्नागरी नारायणा रेड्डी पुत्र धिन्ना रेड्डी
			284/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.92	जी बोया रामुडु पुत्र गिदैया
			284/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.42	सुनकन्ना नायडू पुत्र सुनकन्ना
			285/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.23	सुनकन्ना नायडू पुत्र सुनकन्ना
			285/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.67	गोकुलपाडु, मदन्ना पुत्र गिदैया
			287/2	शुष्क	निजी भूमि	0.44	एन. चन्द्रा शेखर रेड्डी पुत्र वेंकटेश्वर रेड्डी
			297बी/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.60	राजा सुब्रमण्यम पुत्र धिन्ना सुब्बारायडू मार्फत बच्चू वेंकट सुबैया
			299/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	1.17	बच्चू जय सेलन गुप्ता पुत्र बी.वी. सुबैया
			299/1सी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.02	दूरसंचार कक्ष
			299/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	1.29	मेडी वेंकटा रामुडु पुत्र नारायणा (धोने)
			300ए/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.37	पी.नागी रेड्डी पुत्र धिन्ना कोराव रेड्डी
			300ए/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.44	पी.नागी रेड्डी पुत्र धिन्ना कोराव रेड्डी
			300ए/3ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.25	के. नासयणा स्वामी पुत्र श्रीमन्नारायण

1	2	3	4	5	6	7	8
			300बी/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.20	के. बाला नर्मदा पुत्र श्रीमन नारायण
			300बी/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.47	कैटापल्ली रामा सुब्बाम्मा पत्नी कैटापल्ली नेकन सुब्बा
			301ए/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.27	डी. चन्द्रशेखर पुत्र डी. रमैया
			301ए/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.32	डी. चन्द्रशेखर पुत्र डी. रमैया आर. भोगेश्वर रेड्डी पुत्र हनुमता रेड्डी
			301बी/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.24	आर. भोगेश्वर रेड्डी पुत्र हनुमता रेड्डी
			301बी/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.24	बच्चू ज्योतसना देवी पत्नी बी. जयसीतन गुप्ता
			301बी/3ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.08	बच्चू ज्योतसना देवी पत्नी बी. जयसीतन गुप्ता
			302/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.18	बच्चू ज्योतसना देवी पत्नी बी. जयसीतन गुप्ता
			302/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.31	बच्चू ज्योतसना देवी पत्नी बी. जयसीतन गुप्ता
			302/3ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.44	वैका वैकटेश्वरी पुत्र पेड्डा वैकटैया वैका किस्टाना पुत्र पेड्डा वैकटैया
			304/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.34	कर्नटा श्रीनिवासायु पुत्र के. नागा नारायण
			305/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.60	बृदिदा लक्ष्मी देवी पत्नी अनुमण्डु चिप्पागिरी सुब्रमण्यम
			310/2	शुष्क	निजी भूमि	0.51	के. रामचंद्रु पुत्र के. सुनकन्ना
			311ए/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.06	नल्लागाटला लक्ष्मी देवी पत्नी एन. वैकटेश्वरालु (घोने)
			311ए/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.28	मकाम अंजानेयुलु पुत्र एम. श्रीनिवासायु के. रामचंद्रु पुत्र के. सुनकन्ना
			311बी/2	शुष्क	निजी भूमि	0.22	मकाम शशिकला पत्नी एम. वैकटेश्वरालु मकाम वैकटेश्वरालु पुत्र एम. अनंता सुब्रमण्यम नल्लागाटला लक्ष्मी देवी पत्नी एन. वैकटेश्वरालु
2	कुरनूल	(1) पंचसिंगला	145/1	शुष्क	निजी भूमि	0.10	ए. राधा
			146/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.15	सामबैया
			263/3ए	शुष्क	निजी भूमि	0.69	एम. प्रसन्ना कुमार श्रीनिवासायु वजराला नारायण
			264/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.10	धिष्णाम्मा, फातिमाबी, प्रभाकर
			264/3ए	शुष्क	निजी भूमि	0.74	नागम्मा, फातिमा बी
			281/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.14	टी. ईश्वरय्या
			281/3ए	शुष्क	निजी भूमि	1.29	सुधाकर रेड्डी आईबीपी ऑटो (आईबीपी) पेट्रोल बंक जगनाथम (बी.पी. बंक) एम.जी. ब्रदर्स पेट्रोल बंक रसूल खान वैकटा रेड्डी मंगाम्मा

1	2	3	4	5	6	7	8
			124/2	शुष्क	निजी भूमि	0.18	ईश्वर स्वामी इनाम
			125/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.07	वागुणोरामबाकु
			126/ए2	शुष्क	निजी भूमि	0.42	ईश्वर स्वामी इनाम
			126/बी2	शुष्क	निजी भूमि	0.53	ईश्वर स्वामी इनाम
			131/2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.54	ऑटो मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर
			133/2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.92	ऑटो मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर
			137/1ए2	शुष्क	निजी भूमि	0.43	कटामंची रामलिंगा रेड्डी स्कूल
			137/1बी2	शुष्क	निजी भूमि	0.40	एस.बी. शंकरैया, गणेश घेनाइट्स
			138/2	शुष्क	निजी भूमि	0.30	एस.बी. शंकरैया, गणेश घेनाइट्स
			139/2	शुष्क	निजी भूमि	0.73	सत्य प्रपाद रेड्डी
							जी कृष्णा रेड्डी
			140/2	शुष्क	निजी भूमि	0.71	येलाप्पा
							जनाईन रेड्डी
							रंगा रेड्डी
							राजेश्वर रेड्डी
			153/2	शुष्क	निजी भूमि	0.70	ए. वेंकटेश्वरालु (त्रिवेणी मिनरल वाटर)
							सुब्बारायडू
							पुटुर वेंकटेश्वरालु
			154/2	शुष्क	निजी भूमि	0.48	वेंकटटना जब्बार, रहमान, श्रीनिवासा राव
			155/2	शुष्क	निजी भूमि	0.20	गधाम भूषण
			156/ए2	शुष्क	निजी भूमि	0.36	ए. वेंकटेश्वरालु डा. सत्यानारायण
							पुलैया (रविन्द्र स्कूल)
							रामुडु, पामन्ना
			157/2	शुष्क	निजी भूमि	0.46	महेश्वरा रेड्डी, जाकिर हुसैन
			158/ए2	शुष्क	निजी भूमि	0.11	वेंकटेश्वरा रेड्डी घेनाइट्स
			158/बी2	शुष्क	निजी भूमि	0.11	रमना रेड्डी घेनाइट्स
							कुरुवा चिन्ना येलाप्पा
			159/2	शुष्क	निजी भूमि	0.17	युरुकुन्डा ग्रानिट फैक्ट्री, नादीपेना
							कलावती, वरासिधि घेनाइट
							कुरुवा चिन्ना रामुडु, कुरुवा कृष्णु, शंकर
			160/2	शुष्क	निजी भूमि	0.15	ईश्वर स्वामी इनाम
			162/1ए	शुष्क	निजी भूमि	1.01	ईश्वर स्वामी इनाम
			165/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.51	चिन्ना येलाप्पा कृष्णा रेड्डी
			166/1	शुष्क	निजी भूमि	0.51	गोला, अचाम्मा एवं अन्य
			188/1ए	शुष्क	निजी भूमि	1.33	एम. शंकर, जी सीतालक्ष्मी, बी.के. अचाम्मा, शिक्षक चेन्नाप्पा
			189/ए1ए	शुष्क	निजी भूमि	1.26	करुणम सुब्बा राव, लक्ष्मी नायसाम्मा, राधव राव, बलराम राव, परमेश राव, श्याम राव, रविनाथ राव

1	2	3	4	5	6	7	8
			190/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.37	खाजा मोहिदीन
			191/ए1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.63	नबी साहेब, चन्द्रवधम्मा, चचितिका शेषा रेड्डी, रंगा रेड्डी भास्कर
			192/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.18	मारेन्ना, बुद्धा गिदेया
			193/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.14	सरकारी भूमि
			205/1	शुष्क	निजी भूमि	0.32	चकल्ली येलप्पा
			206/1	शुष्क	निजी भूमि	0.17	कृष्णा रेड्डी
			211/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.34	रामचन्द्र रेड्डी एवं अन्य
			212/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.40	फैजुर सुल्ताना सुब्बारायडू बोया शिवारामुडू
			281/ए	शुष्क	निजी भूमि	0.28	नागाराजु
			280/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.57	सीतारामी रेड्डी पॉल्ट्री फार्म एवं अन्य दुदेकुला खाजा
			284/1ए1	शुष्क	निजी भूमि	0.03	नारायण रेड्डी
			284/1बी1		निजी भूमि	0.08	चेन्ना रेड्डी
			284/1सी1	लाल मिट्टी	निजी भूमि	0.31	पी श्रीनिवास रेड्डी एवं अन्य मैसूरा रेड्डी क्रांति ट्रांसपोर्ट (सी.वेंकटेश्वर राव) नागाराजु
			286/ए1	शुष्क	निजी भूमि	0.01	धाना रेड्डी
			287/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.04	रामकृष्ण रेड्डी
			293/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.12	कृष्ण रेड्डी
			294/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.06	पर्वतानेनी वेंकट कोटेश्वरा राव (नवाता ट्रांसपोर्ट)
			295/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.03	पर्वतानेनी वेंकट कोटेश्वरा राव (नवाता ट्रांसपोर्ट)
			296/1	शुष्क	निजी भूमि	0.58	पर्वतानेनी वेंकट कोटेश्वरा राव (नवाता ट्रांसपोर्ट) नागम्मा लता सत्यायर्स अन्य
			305/1	शुष्क	निजी भूमि	0.20	मू-खण्ड
			306/1	शुष्क	निजी भूमि	0.12	मू-खण्ड
			307/1ए1	शुष्क	निजी भूमि	0.27	श्री समुलु
3	वेलदुर्गी	(1) अल्लुगुडू	290/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.23	बी. लक्ष्मम्मा राव श्री वेंकटटना
			290/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.65	थिकैया रामुडु पुत्र थिकैया मासुम साहेब पुत्र दीवान साहेब
			289/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.81	ए.रामु पुत्र वेंकटटना सरसज्जम्मा पत्नी लक्ष्मम्मा राव

1	2	3	4	5	6	7	8
							गज्जी गोविंद पुत्र बुगान्ना
			293/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.12	बागु पोरमबोके
			251/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.16	बागु पोरमबोके
			256/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.01	ए. डबल्यू.
			236/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.14	बागु पोरमबोके
			279/3बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.12	ए. डबल्यू.
	(2)सुदेपल्ली		15/2	शुष्क	निजी भूमि	1.15	पी. राजा गोपाल पुत्र मदन्या
			16/ए/3बी	शुष्क	निजी भूमि	0.31	पी. वेंकट रामाडु पुत्र मदन्या
			16/बी/3बी	शुष्क	निजी भूमि	0.27	पुला शंकुलम्मा पत्नी रामुडु
			17/ए2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.11	पुला शंकुलम्मा पत्नी रामुडु
			17/ए3बी	शुष्क	निजी भूमि	0.09	विजयारी बज्जल
			17/बी2	शुष्क	निजी भूमि	0.44	दस्तागिरि पुत्र पक्कीरा
			18/2	शुष्क	निजी भूमि	0.41	बी. अन्नम्मा पत्नी नगन्ना
			19/2	शुष्क	निजी भूमि	0.34	बी. अन्नम्मा पत्नी नगन्ना
			20/ए2	शुष्क	निजी भूमि	0.5	महबूब बी पत्नी एस.ए. रहमान
			20/बी2	शुष्क	निजी भूमि	0.29	पिल्लीकांडला मोहम्मद
			52/2	शुष्क	वफा बोर्ड	1.29	पिल्लीकांडला मोहम्मद
			53/2	शुष्क	निजी भूमि	1.22	मजीद इनाम
			54/बी2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.01	एन. जनार्दन पुत्र कृष्णामचारुतु
			55/बी1ए2	शुष्क	निजी भूमि	0.42	ए. डबल्यू.
			55/बी1बी2	शुष्क	निजी भूमि	0.31	एन. पद्मावती पत्नी जनार्दन
			55/बी1बी3	शुष्क	निजी भूमि	0.01	गम्मानेति लक्ष्मम्मा पुत्र हनुमान्ना
			55/बी2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.25	गम्मानेति लक्ष्मम्मा पुत्र हनुमान्ना
			69/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.66	गम्मानेति लक्ष्मम्मा पुत्र हनुमान्ना
			69/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.28	मेकल्ला माधव कृष्ण पुत्र शुकाना
			69/3बी	शुष्क	निजी भूमि	0.16	राम लक्ष्मम्मा पत्नी लक्ष्मम्मा
			67/2	शुष्क	वफा बोर्ड	1.08	येल्ला रामुडु पुत्र येतैया
			66/2	शुष्क	निजी भूमि	0.34	कोइलाकोडा बोया गोपाल
			65/2	शुष्क	निजी भूमि	0.37	मजीद इनाम
			126/1	शुष्क	निजी भूमि	1.46	रामनजानेयुतु पुत्र श्री रामुतु
			123/1	शुष्क	निजी भूमि	2.26	कोइलाकोडा किस्टाना पुत्र गोरेटला
							एम. रामनजानेयुतु पुत्र श्री रामुतु
							वडे बाजार पुत्र येल्लपा
							इदुर बाशा पुत्र बडीमैया
							बी. नागम्मा पत्नी नागन्ना
							एम. कृष्ण मूर्ति पुत्र वेंकट रामुडु

1	2	3	4	5	6	7	8
							एम रमैया पुत्रनागन्ना
							एम मादैया पुत्र चौ येलाप्या
			121/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.88	शैकावली पुत्र बावेया
			129/2ए/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.44	बासु साहेब
			120/ए/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.21	बोया मदन्ना पुत्र थिम्वाना
			120/ए/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.19	बोया मदन्ना पुत्र थिम्वाना
			120/बी/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.57	वीरा चरी पुत्र नगेया
			120/बी/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.55	पिजारी अलेमा पत्नी मोलै
			119/1ए	शुष्क	निजी भूमि	1.01	मादागा स्वार्थम्मा
			118/1	शुष्क	निजी भूमि	0.85	कुरुवा सुफाना पुत्र बोजाना
			108/1	शुष्क	मस्जिद इनाम	4.14	मजीद इनाम
			97/बी1	शुष्क	सरकारी भूमि	1.80	ए डबल्यू
			95/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.48	ए डबल्यू
			82/ए1	शुष्क	निजी भूमि	1.12	गंपानेथी पीडी येतैया पुत्र वैंकटना गंपानेथी चौ येतैया पुत्र वैंकटना वाडे येलाप्पा पुत्र बाजारू बोया तलारी परासु रामुड्डु
			82/बी1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.03	ए डबल्यू
			78/1	शुष्क	मस्जिद इनाम	1.54	मजीद इनाम
			79/1	शुष्क	निजी भूमि	1.69	बोया रामक्का पत्नी वैंकटना बोया रामुड्डु पुत्र मदन्ना बोया रंगन्ना पुत्र मदन्ना कोइला कोंडकिस्टाना पुत्र हनुमंतु गम्मानेथी रामनजानेयुल्लु
			71/1	शुष्क	निजी भूमि	1.30	बजारुगेरी रामुड्डु पुत्र बाजारू
			268/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.13	सरकारी बंड पोम्मबोकै
			269/1	शुष्क	निजी भूमि	1.00	कटकटी बाजाराम्मा पत्नी बाजार
			271/ए1	शुष्क	निजी भूमि	0.11	गंपानेथी हनुमंतु उर्फ रोजेन्ना
		(3) बोम्मीरेड्डी पल्ली	246/2	शुष्क	निजी भूमि	0.56	चक्रपाणिश्वर रेड्डी पुत्र गिद्दा रेड्डी
			247/2	शुष्क	निजी भूमि	1.25	चक्रपाणिश्वर रेड्डी पुत्र गिद्दा रेड्डी
			248/3बी	शुष्क	निजी भूमि	1.22	महेश पुत्र कुरुवा पाला चौ भादितेती
			249/2	शुष्क	निजी भूमि	0.45	एन जगन माहेः रेड्डी पुत्रयेला रेड्डी
			252/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.01	रविन्द्र पुत्र नायडू
			253/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.50	अनंतम्मा पत्नी रामी रेड्डी जय रामुड्डु पुत्र नासयणा

1	2	3	4	5	6	7	8
			312/1	शुष्क	निजी भूमि	0.19	नायडू पुत्र सुवेरा
							रमेश पुत्र हनुमानशैया
			318/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.69	गिदैया पुत्र कृष्णुडु
							एम. गोपाल पुत्र कृष्णुडु
							नागम्मा पुत्री थकल्ली हनुमांतु
							पवर्तम्मा पत्नी रामी रेड्डी
			320/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.27	पवर्तम्मा पत्नी रामी रेड्डी
			321/1	शुष्क	निजी भूमि	0.53	के. कन्नैया
							राम कृष्ण रेड्डी
			322/1	शुष्क	निजी भूमि	0.73	मैडिलिटी (उर्फ) मधु पुत्र करुवा पाला चौ. मैडिलिटी
			323/1	शुष्क	निजी भूमि	0.63	बी. कोटेश्वरा रेड्डी पुत्र गिद्ध रेड्डी
			324/1	शुष्क	निजी भूमि	0.29	बी. कोटेश्वरा रेड्डी पुत्र गिद्ध रेड्डी
			255/2*	शुष्क	सरकारी भूमि	0.06	रास्ता पोरमबोके
			278/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.54	ए. डबल्यू.
			280/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.50	ए. डबल्यू.
			309/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.11	वागु पोरमबोके
			313/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.03	रास्ता पोरमबोके
		(4) वेलदुर्बी	28/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.47	बी. मदना शेखर पुत्र कृष्ण मूर्ति
			28/3बी	शुष्क	निजी भूमि	0.29	के. रामा मूपल रेड्डी पुत्र वेकट रेड्डी
			29/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.12	वागु
			30/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.19	बी. मल्लिकार्जुन पुत्र चौ. रामुडु
			30/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.01	पीडी. राजु
			31/2	शुष्क	निजी भूमि	0.30	बी. नारायणा पुत्र मैडिलिटी
							वाडला मादिया
							जी. वेकट रमण पुत्र केशलू
							राम चन्द्र राव पुत्र चौ. रमैया
							बी. गिदैया पुत्र हनुमांतु
							बी. पेडान्ना पुत्र चौ. रमैया
							रामुडु पुत्र किस्टना
							बी. रविन्द्रनाथ पुत्र मैडिलिटी
							राममूपल रेड्डी पुत्र वेकट रेड्डी
							एम. रमैया पुत्र नादिमी नागन्ना
							पाला राजु पुत्र किस्टना
							करेम्मा पत्नी सोमान्ना
							शुकल्लमा पत्नी रामन्ना
							पोला हनुमांतु पुत्र चौ. रंगन्ना

1	2	3	4	5	6	7	8
							बोया रामा चंद्रु पुत्र चौ. पुत्ताना
							बोया पुत्ताना पुत्र येरा हनुमांतु
							बोया अजयनमा पत्नी मैडिलिटी
							बोया अजयनमा पत्नी मैडिलिटी
			34/2ए2	शुष्क	निजी भूमि	0.12	बोया गोपी पुत्र कृष्ण भूमि
			34/4बी2	शुष्क	निजी भूमि	0.13	एम. कृष्ण भूमि पुत्र रामना
			35/1बी	शुष्क	धर्मदाय	0.03	राजेश्वरी देवता
			37/10बी	शुष्क	निजी भूमि	0.38	वेल्सम लक्ष्मीया
			37/11ए2	शुष्क	निजी भूमि	0.32	बोया शुकात्म्या
			38/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.16	ए. डबल्यू.
			39/2	शुष्क	निजी भूमि	0.23	के. रामा भूपल रेड्डी पुत्र वेंकट रेड्डी
			40/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.72	एम. रामुडु पुत्रनागन्ना
			40/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.74	मुरली कृष्ण नायडु पुत्र वेंकट स्थनम नायडु
			42/2	शुष्क	निजी भूमि	0.50	केतिका बडेम्मा पत्नी गोकर्
			41/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.41	चकल्ली सुकाना
			41/3बी	शुष्क	निजी भूमि	0.68	एम.बी. सोमा राजू
							रामनजानयुतु
			103/8बी	शुष्क	निजी भूमि	0.48	के. उस्मान बारा पुत्र मासूम
			103/11बी	शुष्क	निजी भूमि	0.76	के. खजा हुसैन पुत्र मासूम
			104/3बी	शुष्क	निजी भूमि	1.90	लक्ष्मी नरसैया
			104/4बी	शुष्क	निजी भूमि	0.43	बी. वेंकटनरसी नायडु पुत्र रामगोपाल नायडु
			104/5बी	शुष्क	निजी भूमि	0.55	बी. वेंकटनरसी नायडु पुत्र रामगोपाल नायडु
			114/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.14	चोरमोके
			43/2	शुष्क	धर्मदाय	0.86	राजेश्वरी देवता
			102/3बी	शुष्क	निजी भूमि	1.72	मंगाली भाईना पुत्र मैडिलिटी
							मंगाली थिकैकी
			379/1	शुष्क	धर्मदाय	0.67	रामास्वामी देवता
			706/1बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.24	नरसिम्मा रेड्डी
			706/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.20	नरसिम्मा रेड्डी
			360/1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.06	वांगु
			361/1बी	शुष्क	धर्मदाय	0.93	रामास्वामी देवता
			362/ए1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.26	गोला अंजनयुतु
			362/ए2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.21	के. मदन मोहन पुत्र पाला मदया
			362/ए3बी	शुष्क	निजी भूमि	0.23	एन. जमीला पत्नी बादुशा
			362/ए4बी	शुष्क	निजी भूमि	0.36	वेल्समा पत्नी पक्कीराप्पा
			362/ए6बी	शुष्क	निजी भूमि	0.44	कोटला हर्षवर्धन रेड्डी

1	2	3	4	5	6	7	8
			362/बी2	शुष्क	निजी भूमि	1.30	टी. रमेश पुत्र शिवैया टी. नारायण शेट्टी टी. वेकटेश्वरालु ई. शैषैया टी. हनुमंता रायडू
			683/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.24	के. प्रताप रेड्डी पुत्र वीरा राघव रेड्डी
			687/1	शुष्क	निजी भूमि	0.55	कृष्णावेनम्मा
			692/1ए	शुष्क	निजी भूमि	1.02	चौ. अंजानेयुलु, माला येलाय्मा, दसारी पीडी. केसन्नाकोला शरीफमैया, वादला रामुडु जटेन
			693/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.78	बदलुनिशा
			696/1	शुष्क	निजी भूमि	0.45	माला चौ. मादैया चकल्ली सोमान्ना चकल्ली नादिपी मादैया चकल्ली थिरुपै चकल्ली कृष्णा
			697/1	शुष्क	निजी भूमि	0.62	मुल्ला गफूरमैया पुत्र इब्राहिम
			700/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.65	टी. शिवा रेड्डी पुत्र चिन्ना रेड्डी गंगाधर रेड्डी वीरा रेड्डी वेल्लम रामा सेशु
			701/1ए	शुष्क	निजी भूमि	1.03	वेल्लम वेकट रमण पुत्र नारायण बी. गिदैया बी. मदन्ना पुत्र शेषन्ना बी. लक्ष्मैया
			707/1बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.02	नारायणा रेड्डी पुत्र तिरुपति रेड्डी
			707/2बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.04	ईश्वर रेड्डी पुत्र हनुमंत रेड्डी
			707/3बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.07	शशि रेड्डी पुत्र वेकट रेड्डी
			707/4बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.03	रामभूपल रेड्डी
			709/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.10	पोरमबोके
			710/1	शुष्क	निजी	0.46	नारायणा रेड्डी ईश्वर रेड्डी वेकट रामी रेड्डी
			711/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.33	ए. डबल्यू
							वादला नारम्मा पिंजरी बाजार पुत्र हसन पुलाम्मा पत्नी मैडिलिटी

1	2	3	4	5	6	7	8
			712/1	शुष्क	निजी भूमि	0.80	वेंकट स्वामी पुत्र येल्लप्पा पिंजरी बबैया पुत्र करीम रामा लिंगैया पुत्र पीडी शेषन्ना बी. अंजानेयुलु पुत्र थिम्माप्पा वेंकट रामुडु पुत्र संजन्ना
4	घोने	(1) उदुमुलापाडू	178/2	शुष्क	सरकारी भूमि	1.11	नयाकांति जसुवा पुत्र क्रिस्टाफर जयम्मा पत्नी जेकर पपैयागिरी नारायणा पुत्र पपैया
			185/2	शुष्क	निजी भूमि	0.25	उप्परी मैडिलिटी स्वामी पुत्र थिन्ना पेदान्ना
			189/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.09	बी.बी. रत्नाकर रेड्डी पुत्र नारायणा रेड्डी
			189/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.12	बोया हनुमंभु पुत्र गोपेन्ना
			187/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.01	बी. वी. रत्नाकर रेड्डी पुत्र नारायण रेड्डी
			188/2	शुष्क	निजी भूमि	0.02	बी. बी. रत्नाकर रेड्डी पुत्र नारायण रेड्डी
			218/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.20	इदिगा आबुलाम्मा पत्नी भूषण गौड बोगुला बोया सुनकन्ना पुत्र लिंगन्ना बंगी येला रामुडु पुत्र रामन्ना कुमारी नारायणा पुत्र रंगैया कुमारी रंगम्मा पत्नी स्व. अंजानेयुलु बंगी जयसामुडु पुत्र रामन्ना वेंकटापुरम गंगम्मा पत्नी स्व. वेंकटरामुडु जंगम मलिकारजुनैया पुत्र बलैया सुनकन्ना पुत्र येल्लाप्पा जयम्मा पत्नी येलाप्पागारी मादैया इदिगा नागेशम्मा पत्नी स्व. येला गौड इदिगा रामचंद्रु पुत्र दस्तागिरी
							ददियाला वेंकटा लक्ष्मम्मा पत्नी नारायणा मिडेपल्ली थिन्ना पेड्डान्ना पुत्र चितला पेड्डन बोया मादैया पुत्र जादलना पी. लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. अंजानेयुलु येल्लापुरगारी मादैया पुत्र रामन्ना येलापुरगारी पेड्डा गोरेण्टला पुत्र रामन्ना दुदेकुला मामू साहेब पुत्र मादर साहेब बंगी रमेश पुत्र रामन्ना बंगी येलासामुडु पुत्र रामन्ना बंगी रामनजानेयुलु पुत्र रामन्ना पोथुगन्टी मादैया पुत्र स्व. गोरेण्टला

1	2	3	4	5	6	7	8
			221/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.39	गोशुगन्दी रंगमा पत्नी स्व. रामन्ना कुराकुला कृष्णा मूर्ति गोड पुत्र ईश्वरैया तलारी येरामला पुत्र थिमन्ना मिडेपल्ली बलामा पत्नी स्व. पेदा पेहन्ना चिन्ना रामुडु पुत्र नागन्ना येत्ताप्पागरी चिन्ना मदन्ना पुत्र रमन्ना वाडे लक्ष्मण पुत्र अजानाप्पा बोया बंदैया पुत्र दुब्बाना बोया बंदैया पुत्र ईश्वरैया बोया श्रीनिवासालु पुत्र ईश्वरैया बोया तिरुपालु पुत्र ईश्वरैया बोया थिरुमालेसु पुत्र ईश्वरैया सत्यमैया पुत्र रामनैया
			222/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.99	मुडुला नाशयणाम्मा पत्नी जी. गंगन्ना इदिगा कबैया पुत्र चंदरैया उप्परी थिरुपलामा पुत्र ओबुलेसु कुरुवा शुकुलाम्मा पत्नी गंगन्ना इदिगा वेकटसुबैया गोड पुत्र भूषणा पुजारी नाम्मी रंगैया पुत्र थिमैया बोया अन्वन्ना पुत्र चिन्ना पक्कीरा जे. कृष्ण मूर्ति पुत्र मादैया अंजानैया स्वामी मंदिर टेलर पिजारी येरान्ना पुत्र आत्मान साहेब सय्यैद कासिम पुत्र बाशा पिजारी हुत्तैनाम्मा पत्नी स्व. गोकरी लाविसेला चंद्र शेखर रेड्डी पुत्र रेमी रेड्डी जी. कोडला राय पुत्र सत्यानारायण राय बोया हनुमान्तु पुत्र गोपेना पीरलाचाविदी गोंव प्रवेश द्वार तल्लारी संजीयुडु पुत्र अनुमान्तु मंगैया गोड पुत्र नागेशम गोड बालापानुरु नारायण रेड्डी पुत्र वेकट रेड्डी कोयाकोडा चिन्ना मैडिलिटी र करेन्ना पुत्र लक्ष्मण कोयाकोन्डा सुधाकर पुत्र दुबन्ना उप्परी लक्ष्मण पुत्र पेड्डाना उप्परी तिरुपतैया पुत्र पेड्डाना राम नायडू पुत्र चिन्ना पक्कीरा कृष्णा पुत्र पेड्डा पक्कीरा चिन्ना लक्ष्मीनारायण पुत्र मैडिलिटी पेड्डा लक्ष्मीनारायण पुत्र मैडिलिटी पेरामाता वेकटेश्वरालु पुत्र मैडिलिटी माला केसन्ना पुत्र रंगन्ना कुना श्रीकांत पुत्र सत्यानारायण माला नारायण पुत्र रंगन्ना

1	2	3	4	5	6	7	8
							माला साताम्मा पत्नी पेहेया माला नागार्जु पुत्र पेड्डान्ना माला रांकर पुत्र पेड्डान्ना कृष्ण मूर्ति पुत्र स्व. पक्कीरा धारा लक्ष्मीनारायणा पुत्र स्व. रंगैया सुबैया पुत्र रामसुबैया मंगाली वेंकटेश्वरातु पुत्र स्व. मंगान्ना कोयाकोन्डा अंजानाम्मा पत्नी स्व. रामुडु माला मुन्नी स्वामी पुत्र नारायणा बालसाकौडन्ना पुत्र चिन्ना नामन्ना देवमाला पुत्र चिन्ना नागाना साम्बसाधिक भवन भारेम्मा मंदिर अय्याना पुत्र वस्सागिरी मैडिलिटी पुत्र चिन्ना अय्याना एम. कृष्णतु पुत्र स्व. रामुडु बोया रामनाजानेयुतु पुत्र चिन्ना पक्कीरा एम. पुलीकोन्डा अय्याना पुत्र अक्काणा रामुडु पुत्र अक्काणा भारेम्मा पत्नी अक्काणा अय्याना पुत्र पेडा अय्याना
			225/बी2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.22	मेडिगा पक्कीरा पुत्र पेड्डा अय्याना एम. दस्तगीरम्मा पत्नी रामनाजानेयुतु देवराजु पुत्र स्व. लक्ष्मण रामनाजानेयुतु पुत्र लक्ष्मण अन्नामा पत्नी सामेलु पेड्डा हनुमांतु पुत्र कोलारी येरामाला पुत्र स्व. कोलारी चिन्ना हनुमांतु पुत्र कोलारी उप्परी वेंकटरामुडु पुत्र नारायणा यू. नागार्जु पुत्र नारायणा
			225/बी3बी	शुष्क	निजी भूमि	0.20	सालम्मा पत्नी स्व. वेंकटेश्वरातु यू. शेखर पुत्र नारायणा पेड्डा पुत्र नारायणा एमपीयूपी स्कूल लक्ष्मीकांत रेड्डी पुत्र वेंकट रेड्डी
			238/2	शुष्क	निजी भूमि	0.37	तलारी हनुमांतु पुत्र गोपाना रामनाजानेयुतु पुत्र चिन्ना पक्कीरा अच्चन्ना पुत्र बोया चिन्ना पक्कीरा चिन्ना अच्चन्नागिरी कृष्ण मूर्ति पुत्र पेड्डा पक्कीरा मैडिलटी स्वामी पुत्र कोयला कोन्डा दुब्बाना कोयाकोन्डा पेड्डा मैडिलिटी र जदलन्ना पुत्र पेड्डा मैडिलिटी

1	2	3	4	5	6	7	8
							गोविंदलाल माला नारायण एवं हुसैन पुत्र रंगना
			239/2	शुष्क	निजी भूमि	0.37	शेगु अंजानेयुलु नारायण शेदटी बाघु सुवैयापुत्र रमेया रजनी कुमारी पत्नी पतालम सुब्बाराव
			243/2	शुष्क	निजी भूमि	0.21	रजनी कुमारी पत्नी पतालम सुब्बाराव पातालम चिन्ना सुब्बा राव पुत्र वेंकटेश्वरालु
			244/2	शुष्क	निजी भूमि	1.00	उप्पारी नागेन्द्र पुत्र सुनकन्ना यू. मैडिलिटी स्वामी पुत्र सुनकन्ना यू. रामानाजानुयुलु पुत्र सुनकन्ना जोनलागदा विश्वनाथम पुत्र पद्मनाभैया मकाम गिरिजामल पत्नी कृष्णा अंजानायुलु मकाम अंजानेयुलु
			245/2	शुष्क	निजी भूमि	0.73	जे.वी. चतपति पुत्र स्व. जयंती कृष्ण मूर्ति सत्यनारायण पुत्र स्व. जयंती कृष्ण मूर्ति
			246/2	शुष्क	निजी भूमि	0.96	एल. हसन खान पुत्र रेड्डी माबू खान
			247/2	शुष्क	निजी भूमि	0.02	एल. हसन खान पुत्र रेड्डी माबू खान
			264/2	शुष्क	निजी भूमि	0.32	एल. हसन खान पुत्र रेड्डी माबू खान
			265/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.88	डी. पंडुरंग रेड्डी पुत्र पुला रेड्डी वेंकटरामी रेड्डी पुत्र जे.बी. सुब्बा रेड्डी जमाल साहब पुत्र चिन्ना जमाल साहब लावण्य पत्नी चन्द्र शेखर कल्ला राजा रेड्डी पुत्र माधव रेड्डी गोकुळा हनुमंता राव पुत्र रंगैया ए.सी. सुब्बामा पत्नी ए.सी. वेंकटेश ए.सी. वेंकटेश पुत्र अंबाती पुल्लन्ना गंगैया गौड पुत्र नागेशम गौड शुंकारा वेंकटा सुवैया श्रीनिवासालु पुत्र मादैया ज्ञान ज्योति पत्नी पार्थ सारदी डी. कृष्णा रेड्डी पुत्र ओबुला रेड्डी बी. लक्ष्मी देवी पत्नी जय रामुडु अला शैलजा पत्नी मुरली माहेन रेड्डी बाबू जोशामा देवी पत्नी जय शैलाना गायकवाड हनुमंता राव पुत्र रंगैया
			267/2	शुष्क	निजी भूमि	0.72	गुण्डा ललितम्मा पत्नी सीतारमैया
			268/2	शुष्क	निजी भूमि	0.49	गुण्डा ललितम्मा पत्नी सीतारमैया

1	2	3	4	5	6	7	8
			269/बी1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.09	राजा विजय कुमार पुत्र सुब्रमण्यम
			269/बी2ए2	शुष्क	निजी भूमि	0.13	बी. कोटेश्वरा रेड्डी पुत्र संजीव रेड्डी
			269/बी2बी2	शुष्क	निजी भूमि	0.04	बी. कोटेश्वरा रेड्डी पुत्र संजीव रेड्डी
			270/1ए2	शुष्क	धर्मदाय	0.39	
			350/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.77	गंगैया गौड पुत्र नागेशम गौड तलारी मैडिलिटी पुत्र थिमैया के. श्रीनिवासुलु पुत्र सुबारैया
			350/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.25	कोपुराप्प रत्नामैया पुत्र सुबारायडू
			349/1	शुष्क	निजी भूमि	0.32	मेदुपल्ली रामकृष्णैया
			343/ई1/ए1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.46	गुरुवाला शेषन्ना पुत्र चेन्नाप्पा
			325/1	शुष्क	निजी भूमि	0.18	कोपुराप्प वेंकटेश्वरालु पुत्र सुबारायडू
			324/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.31	कन्निरस्तान
			323/1	शुष्क	धर्मदाय	0.44	ईश्वर स्वामी मंदिर
			322/1बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.10	वेंकटेश्वरालु पुत्र सुबारायडू
			322/2बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.04	मिडेपल्ली बलमा पत्नी पेदन्ना
			322/3बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.05	रामनायडू पुत्र शेषन्ना
			322/6बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.05	पेदन्ना @ नकाना पुत्र सोट्टा पेदन्ना
			322/7बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.04	रामनाजानेयुलु पुत्र स्व. बिंभी रामन्ना
			322/8बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.04	बोया बिंभी पद्मावधमा पत्नी बंगी पुलैया
			322/9बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.05	पपैयागिरी बोया पुत्र थिमाक्का पत्नी स्व. पेदन्ना
			322/10बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.05	पपैयागिरी बोया पुत्र थिमाक्का पत्नी स्व. पेदन्ना
			322/11बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.05	पपैयागिरी बोया नारायण पुत्र स्व. पपैया
			322/12बी	शुष्क	निजी भूमि	0.07	देदिवाल बोया वेंकटा लक्ष्माम्मा
			322/13बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.12	तलारी बोया पेदा मैडिलिटी पुत्र स्व. थिम्माना
			320/2बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.10	तलारी पेदा मैडिलिटी पुत्र स्व. थिम्माना
			313/ए1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.20	पुजारी नाम्मी रंगैया पुत्र थिमैया बोया हनुमांतु पुत्र गोपेना
			313/ए3ए	शुष्क	निजी भूमि	0.02	बोया हनुमांतु पुत्र गोपेना
			313/ए7ए	शुष्क	निजी भूमि	0.04	बोया हनुमांतु पुत्र गोपेना
							वाडे थिरुपालु पुत्र नागन्ना जी. रमेश पुत्र मादैया बोया येल्लापागरी मादैया पुत्र मदन्ना मदासु इदिगा इश्वरैया पुत्र वीरैया गौड इदिगा सुबैयापुत्र ईश्वरैया पपैयागरी येल्लारामुलु पुत्र नारायणा बोया थिमाक्का पुत्र पेदन्ना

1	2	3	4	5	6	7	8
							पवर्तम्मा बल्ली पकीरैया
			293/1बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.45	सुब्रमण्यम पुत्र वेंकटरमणैया अनन्त श्रीनिवासु पुत्र वेंकटरमणैया कल्लेयनपुत्र स्व
			293/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.05	कायल प्रसाद रेड्डी पुत्र हनुमता रेड्डी
			293/3ए	शुष्क	निजी भूमि	0.38	चिन्मणि प्रसाद पुत्र सुब्रमण्यम पटात्म सुब्रमण्यम पुत्र वेंकटरमणैया मुन्नालुरु रवि कुमार पत्नी वेंकटरमणैया तवा सुजाता पत्नी वेंकटरमणैया रचुरी आशा ज्योति पत्नी नात राजु राजा श्रीनिवासु पुत्र वेंकटरमणैया
			292/1ए1	शुष्क	निजी भूमि	0.01	जी. गुरुपदेया पुत्र सूर्यनाथयण शेटी
			291/ए2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.28	सरकार
			291/ए1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.01	सरकार
			291/ए2सी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.04	सरकार
			290/1	शुष्क	निजी भूमि	0.32	राजा शेषपाणि शेटी पुत्र वेंकटरमणैया सुब्रमण्यम पुत्र वेंकटरमणैया चिन्ना सुब्रमण्यम पुत्र वेंकटरमणैया वेंकट सुबाना पुत्र वेंकटरमणैया श्रीनिवासु पुत्र वेंकटरमणैया श्रीनिवासी एवं सत्यनाथयण राय पुत्र कोडला राय शिव. शिवराज पुत्र पयैया सुब्रमण्यम पुत्र हनुमता रेड्डी सत्यनाथयण हनुमता राय पुत्र रंगैया एन.बी.एस. लक्ष्मीपुत्र और लक्ष्मी प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनरसिम्हलु
			275/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.10	राजा शेषपाणि शेटी पुत्र वेंकटरमणैया अनन्त श्रीनिवासु पुत्र वेंकटरमणैया श्री. वेंकट पुत्र वेंकटरमणैया
			275/2ए1	शुष्क	निजी भूमि	0.06	श्री. अजयनाथ बल्ली वेंकटरमणैया श्री. जयलक्ष्मी पुत्र पेदम्मा वडे गिरम्मा पत्नी येला अजानेयुलु श्री. नाथ राय पुत्र स्व. माला अजानेयुलु
			275/2बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.05	वत्ताप्रेया स्थानी मंदिर
			275/1सी	शुष्क	निजी भूमि	0.17	राजा शेषपाणि शेटी पुत्र वेंकटरमणैया श्री. वी. कृष्ण मूर्ति पुत्र स्व. वेंकट शेटी कोटरेके कृष्ण मूर्ति रेड्डी और माई पुत्र वेंकट शेटी

1	2	3	4	5	6	7	8
			274/1	शुष्क	निजी भूमि	0.47	<p>पी. शंकराया पुत्र नरैया</p> <p>1. धर्मकागरी येल्सा नागैया पुत्र यत्तैया</p> <p>2. धर्मकागरी कृष्णायेनाम्मा पत्नी येल्सानरैया</p> <p>1. येरुकल्ला धेदेवा पत्नीरुगेना</p> <p>2. कल्लामगिरी श्रीनिवासुल पुत्र कलामगिरी</p> <p>वाचू सुयैया पुत्र वेक्टरमैया</p> <p>शंकरप्पा पुत्र पपैया</p> <p>1. ई. मादैया पुत्र अजानैया</p> <p>2. माधवी पत्नी मादैया</p> <p>शंकराया पुत्र पपैया</p> <p>तिरुपाथम्मा पत्नी जय चन्द्र बाबू</p> <p>1. वेक्टरामुडु पुत्र वेक्टरेश्वरालु</p> <p>2. श्रीरामुलु पुत्र वेक्टरेश्वरालु</p> <p>गायकवाड हनुमंता शव पुत्र रंगैया</p> <p>रेडिस शिक्षा समिति, कोटला भवन</p> <p>जयरामी रेड्डी पुत्र बटुला रंगामुनी रेड्डी</p>
			273/1	शुष्क	निजी भूमि	0.35	<p>भसीरा बेगम पत्नी असान खान</p> <p>पी. मौलाती पुत्र मोहिदीन साब</p> <p>के. राम कृष्ण पुत्र बोया रामचन्द्रुडु</p> <p>बी. कुलायप्पा पुत्र अनंमंता रेड्डी</p> <p>येरुकल्ली टी. श्रीरामुलु पुत्र रामुडु</p> <p>बी. मादैया पुत्र अनंतैया</p> <p>के. रामा कृष्ण पुत्र बोया रामचन्द्रुडु</p> <p>बी. वेक्टरामुडु पुत्र नागन्ना</p> <p>बी. कुलायप्पा पुत्र अनुमंता रेड्डी</p> <p>बी. रामनजानेयुलु पुत्र श्रीरामुलु</p> <p>बी. शेख शाह यल्ली पुत्र बी. रामनाजानेयुलु</p> <p>डी. वेक्टरेश पुत्र कुलायप्पा</p> <p>मादैया पुत्र सुब्बाना</p> <p>2. के. वेक्टरेश्वरालु पुत्र सुब्बाना</p> <p>पी. मौलाती पुत्र मोहिदीन साब</p> <p>डी. वेक्टरेश और विजय कुमार कुलायप्पा</p>
		(2) केवराबदा	745/2	शुष्क	निजी भूमि	0.48	जी. श्रीनिवासुलु पुत्र रामा कृष्णैया
			743/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.26	श्रीगुप्पा नागेश्वरम्मा पत्नी कृष्ण मूर्ति
			738/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.44	रत्नम अन्डालु पत्नी विजय कुमार
			737/2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.22	रत्नम बेबी भारती पत्नी रत्नम बाबु जयराम कृष्ण प्रसाद
			737/1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.10	रत्नम अन्डालु पत्नी विजय कुमार
			734/2बी2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.10	मारी रत्नम अन्डालु पत्नी विजय कुमार
			734/2बी1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.01	बस शेल्टर-01
			713/1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.36	सरकारी भू-खण्ड
							वेल्सम चेन्नमा पुत्री स्व. नारायणा रेड्डी

1	2	3	4	5	6	7	8
			713/2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.65	बेल्तम राधव रेड्डी पुत्र बी. घेन्ना रेड्डी
			712/2	शुष्क	धर्मदाय	0.38	धर्मदाय
			709/2	शुष्क	धर्मदाय	0.35	धर्मदाय
			705/2	शुष्क	निजी भूमि	0.84	मदिगा बटिना मल्लिकार्जुन पुत्र स्व. थिमैया बटिना बलाना पुत्र थिम्माना बटिना नागार्जुन पुत्र स्व. थिम्माना तेलुगु नसानी नदीपी सुनकन्ना पुत्र पेदा सुनकन्ना
			704/2	शुष्क	निजी भूमि	0.51	नसानी नदीपी सुनकन्ना पुत्र पेदा सुनकन्ना के. सिद्धामा पत्नी कोठारमा सुबैया एस. नदीपी सुनकन्ना पुत्र थिपैया
			703/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.60	रामुलाम्मा पत्नी स्व. गिदैया यकल्ला चिन्ना सुनकन्ना पुत्र थिमैया
			701/2	शुष्क	निजी भूमि	0.50	श्रीनिवासुतु पुत्र एस. नदीपी सुनकन्ना
			700/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.20	पेंगोंडा नदीपी सुनकन्ना पुत्र बुद्धाना
			237/2	शुष्क	निजी भूमि	0.17	रा.रा.-7 के लिए पहले से ही अर्जित
			236/2	शुष्क	निजी भूमि	0.77	रा.रा.-7 के लिए पहले से ही अर्जित
			235/बी	शुष्क	निजी भूमि	0.41	रा.रा.-7 के लिए पहले से ही अर्जित
			231/बी/2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.42	सरकारी भू-खण्ड
			235/ए	शुष्क	निजी भूमि	0.54	रा.रा.-7 के लिए पहले से ही अर्जित
			232/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.08	रा.रा.-7 के लिए पहले से ही अर्जित
			233/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.23	जी. सरोजम्मा पत्नी गोडाप्पा गरी सत्यनारायण रेड्डी
			209/2	शुष्क	निजी भूमि	0.16	जी. सरोजम्मा पत्नी गोडाप्पा गरी सत्यनारायण रेड्डी
			208/1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.17	राजा सुब्रमण्यम पुत्र राजा वेंकटरमणैया
			207/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.41	येरापति सुशीलाम्मा पत्नी वेंकटेश्वर रेड्डी
			206/1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.26	सरकारी भू-खण्ड
			206/2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.12	टामोटम पवर्तम्मा पत्नी स्व. नारायण गौड
			196/2	शुष्क	निजी भूमि	1.11	हसन खान पुत्र रेड्डी माबुखान महेश्वर रेड्डी पुत्र सत्यनारायण रेड्डी
			185/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.04	आर.ई सरला देवी पत्नी आर.ई रवि कुमार आर.ई. ईश्वरम्मा पत्नी राम मूर्ति आर.ई रागमा पत्नी लक्ष्मम्मा स्वामी
			185/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.22	आर.ई सरला देवी पत्नी आर.ई रवि कुमार आर.ई. ईश्वरम्मा पत्नी राम मूर्ति आर.ई रागम्मा पत्नी लक्ष्मम्मा स्वामी
			107/1	शुष्क	निजी भूमि	1.28	सूर्यनारायण गौड पुत्र लक्ष्मण पद्मावती पत्नी स्व. चलपति

1	2	3	4	5	6	7	8
			108/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.44	मल्लेश्वरा रेडडी पुत्र कोन्डा रेडडी
			108/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.93	मुला वैकटरमण गौड पुत्र पेदा पुल्लन्ना
							वैकटेश्वरालु पुत्र चलपति
			109/1	शुष्क	निजी भूमि	1.20	मल्लेश्वर रेडडी पुत्र स्व. कोन्डा रेडडी
							मुला वैकटरमण गौड पुत्र पेदा पुल्लन्ना
			112/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.93	सरकारी भू-खण्ड
			114/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.42	सरकारी भू-खण्ड
			115/1ए1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.58	एन. चन्द्र शेखर रेडडी पुत्र वैकट रेडडी
							एन. चन्द्र शेखर रेडडी पुत्र वैकट रेडडी
			115/1बी1	शुष्क	सरकारी भूमि	1.38	इदिगा चंद्रमा
							वेल्म चेन्ना रेडडी पुत्र नागी रेडडी
			115/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.10	वेल्म चेन्ना रेडडी पुत्र नागी रेडडी
			118/1	शुष्क	धर्मदाय	1.00	साई अजानेया स्वामी मण्यम
			119/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.62	वागु पोरगबोके
			120/1	शुष्क	निजी भूमि	0.14	कणिगिरी कृष्ण मूर्ति पुत्र स्व. नेस नागप्पा
			126/1ए	शुष्क	निजी भूमि	1.42	मुला श्रीनिवासुलु पुत्र पेदा पुल्लन्ना
			128/1	शुष्क	निजी भूमि	0.85	आर. मुडा वैकटलक्ष्मी पत्नी सत्यनारायण शेट
			129/1	शुष्क	निजी भूमि	0.31	केहचंचला नरसिम्हाडु पुत्र पेदा थिमैया
			130/1	शुष्क	निजी भूमि	0.67	केहचंचला नरसिम्हाडु पुत्र पेदा थिमैया
			131/1	शुष्क	निजी भूमि	0.67	केहचंचला नरसिम्हाडु पुत्र पेदा थिमैया
			134/1	शुष्क	निजी भूमि	0.88	रा.रा.-7 के लिए पहले से ही अर्जित
			154/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.96	रा.रा.-7 के लिए पहले से ही अर्जित
			155/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.01	सरकारी भू-खण्ड
			157/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.09	खुरीद बेगम पत्नी स्व. गिया बानु
			161/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.79	रा.रा.-7 के लिए पहले से ही अर्जित
			162/1	शुष्क	निजी भूमि	0.74	टमाटम पवर्तम्मा पत्नी स्व. नारायण गौड
			164/1	शुष्क	निजी भूमि	0.08	शुंगाराप्पु बोस पुत्र वैकटरमणैया
			166/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.59	शुंगाराप्पु बोस पुत्र वैकटरमणैया
			169/2ए	शुष्क	निजी भूमि	1.20	बलीजा सरोजाम्मा पत्नी बी. रंगन्नायकुलु
							बलीजा नागार्जु पुत्र पेडैया
			170/2ए1	शुष्क	निजी भूमि	1.10	डी. सलीन्द्र मादेया पुत्र वैकटरम्मा
							अला वैकटरमण पुत्र नारायणा स्वामी
							अला नागार्जु पुत्र लक्ष्मैया
			172/1	शुष्क	निजी भूमि	0.89	चकल्सी रामुडु
							गोसानीपती बरान्ना पुत्र
			179/1	शुष्क	निजी भूमि	1.21	नागमूषण रेडडी पुत्र पेदन्नारायणा रेडडी
							शिशि रेडडी पुत्र थम्बी रेडडी

1	2	3	4	5	6	7	8
							कल्याणी पत्नी मल्लिकार्जुन रेड्डी
			180	शुष्क	सरकारी भूमि	0.71	शिशि रेड्डी पुत्र धन्वी रेड्डी
			181/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.12	सरकारी भू-खण्ड
			183/1	शुष्क	सरकारी भूमि	1.22	सरकारी भू-खण्ड
		(3) कोथाकोटा	316/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.43	कोली सुजाता
			317/2	शुष्क	निजी भूमि	0.50	कोली नागेश गुप्ता पुत्र शशीया शेटी
			318/2	शुष्क	निजी भूमि	0.45	बी. अनू प्रकाश पुत्र नरसिम्हालु
			319/2	शुष्क	निजी भूमि	0.42	बी. राजेश्वर रेड्डी पुत्र ताल रेड्डी
			322/2	शुष्क	निजी भूमि	0.48	शुष्कपत्नी पत्नी चंद्रन
			324/2	शुष्क	निजी भूमि	0.03	बी. विष्णु रेड्डी पुत्र मेडिलिटी रेड्डी
			324/2	शुष्क	निजी भूमि	0.03	बी. विष्णु रेड्डी पुत्र मेडिलिटी रेड्डी
			370/2	शुष्क	निजी भूमि	0.10	बी. सुब्रह्मन्मा पत्नी बी. रमण रेड्डी
			371/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.31	सरकारी भू-खण्ड
			384/2	शुष्क	निजी भूमि	0.54	बी. विष्णु रेड्डी पुत्र रंगा रेड्डी
			363/2	शुष्क	निजी भूमि	0.75	डी. सुकूर पुत्र नबी साहेब
			362/2	शुष्क	निजी भूमि	0.10	व्यापार केशवुलु पुत्र केशन्ना
			360/2	शुष्क	निजी भूमि	0.79	एम. नारायण पुत्र रमणैया
			359/2	शुष्क	धर्मदाय	0.36	पुष्पागिरी स्वामी मण्यम
			356/4बी	शुष्क	निजी भूमि	0.90	वाई. संजन्ना पुत्र करेन्ना
			355/2ए2	शुष्क	निजी भूमि	0.82	एस. विनैया पुत्र येलाप्पा
			355/2बी2	शुष्क	निजी भूमि	0.39	एस. वेंकटेश्वरालु पुत्र विष्णुना
			355/1ए2	शुष्क	निजी भूमि	0.34	चकल्ली विन्ना संजीवरायडू पुत्र पेदा विनैया
			355/1बी2	शुष्क	निजी भूमि	0.42	चकल्ली रामुडु पुत्र पेदा विनैया
			120/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.35	चकल्ली पेदा संजीवरायडू पुत्र पेदा विनैया
			120/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.41	चकल्ली पेदा संजीवरायडू पुत्र पेदा विनैया
			119/2	शुष्क	निजी भूमि	0.59	राजेन्द्र गौड पुत्र नारायण गौड
			117/2	शुष्क	निजी भूमि	1.15	मेट्टपल्ली सुनकन्ना पुत्र ओडुलसु
			115/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.37	बोया वेंकटरामुडु पुत्र लक्ष्मण
			115/2बी	शुष्क	निजी भूमि	1.01	नारायण गौड पुत्र रमैया
			113/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.07	रंगरत्नम गौड पुत्र हनुमाप्पा
			374/1	शुष्क	निजी भूमि	0.64	नारायण गौड पुत्र रमैया
			373/1	शुष्क	निजी भूमि	0.09	सिंगनापल्ली येलाप्पा पुत्र येलाप्पा
				शुष्क	निजी भूमि		वेकाम्मा पत्नी स्व. केशवरंगा रेड्डी

1	2	3	4	5	6	7	8
			376/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.54	कमालम्मा पत्नी स्व. वेणु गोपाल
			377/1	शुष्क	निजी भूमि	0.43	डी शुकूर पुत्र नबी साहेब
			404/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.40	डी. हुसैन साहेब पुत्र नबी साहेब
			404/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.07	हरिजन नागेंद्रु पुत्र रामुडु
			404/2सी	शुष्क	निजी भूमि	0.06	हरिजन स्वामी चन्द्रु पुत्र रामुडु
			405/1	शुष्क	निजी भूमि	0.73	हरिजन नागेंद्रु पुत्र रामुडु
							हरिजन रंगना पुत्र मारेना
			407/1	शुष्क	निजी भूमि	0.73	डुडेकुला सिदैया पुत्र स्व. नबी साहेब
							कासिम साहेब पुत्र स्व. नबी साहेब
			408/1	शुष्क	निजी भूमि	0.89	डी. श्रीधर गौड वेंकटरमण
							राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नारायण गौड
			422/1	शुष्क	निजी भूमि	0.85	मेतुपल्ली पेद्दा वेंकटप्पा पुत्र ओबुलेसु
							मेतुपल्ली श्रीनिवासु पुत्र सुनकन्ना
			423/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.39	सरकारी भू-खण्ड
			423/3	शुष्क	सरकारी भूमि	0.03	सरकारी भू-खण्ड
			424/1	शुष्क	निजी भूमि	1.73	मेतुपल्ली कौंडेया पुत्र सुनकन्ना
							मेतुपल्ली सुनकन्ना पुत्र ओबुलेसु
							मेतुपल्ली वेंकटरामुडु पुत्र ओबुलेसु
							बोया लक्ष्मम्मा पुत्र नल्लान्ना
							बोया हनुमान पुत्र नल्लान्ना
							बोया वेंकटन्ना पुत्र नल्लान्ना
			431/1	शुष्क	निजी भूमि	0.03	गोला चेंबु नारायणा पुत्र पेद्दा हनुमानु
			425/2	शुष्क	निजी भूमि	0.35	बसीरेड्डीगिरि गुरुपडा रेड्डी पुत्र वेंकट रेड्डी
							रामकृष्ण रेड्डी पुत्र थिम्मा रेड्डी
			425/1ए1	शुष्क	निजी भूमि	0.01	गुरुमोहन रेड्डी पुत्र थिम्मा रेड्डी
			425/1बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.07	गुरुपद रेड्डी पुत्र थिम्मा रेड्डी
			425/1सी1	शुष्क	निजी भूमि	0.17	गोला नारायण पुत्र रमैया
			426/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.35	गोला रामनाजानेयुलु पुत्र कादिरप्पा
			426/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.27	थिम्मा रेड्डी पुत्र मैडिलिटी रेड्डी
			426/3ए	शुष्क	निजी भूमि	0.06	केशवुलु पुत्र कादिरप्पा
			428/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.01	इदिग्गा गिदैया पुत्र नारायणा
			427/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.46	गोला केशवुलु पुत्र कादिरप्पा
			427/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.04	जी. केशवुलु पुत्र कादिरप्पा
		(4) जगदूर्थी	25/ए1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	1.00	माला कम्मागिरि पुत्र एम. कंबैया
							मदिगा नागाना पुत्र जम्बाना
			25/ए2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.43	मदिगा मारेना पुत्र चिन्ना दसैन

1	2	3	4	5	6	7	8
			25/ए3	शुष्क	सरकारी भूमि	0.07	चिन्ना मदना पुत्र जम्बाना
			25/बी1सी1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.05	चिन्ना मदना पुत्र जम्बाना
			25/बी2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.22	मदिगा चिन्ना मदना पुत्र जम्बाना
							मदिगा चिन्ना येल्तप्पा पुत्र जम्बाना
			33/1	शुष्क	निजी भूमि	1.46	मदिगा नागन्ना पुत्र जम्बाना
							ई. चिन्ना येला गौड पुत्र वेंकटेशम
			34/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.32	शब्बीर अली खान पुत्र हुसैन खान
			35/बी1ए1	शुष्क	निजी भूमि	1.09	कल्ला प्रताप रेड्डी पुत्र हनुमान्तु रेड्डी
							के.बी. प्रकाश राव पुत्र वेंकट शेट्टी
			35/ए1	शुष्क	निजी भूमि	0.02	बोया नागार्जु पुत्र हनुमन्ना
			38/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	1.11	हरिजन श्रीनिवासुलु पुत्र एच.पेदा रामुडु
							हरिजन लक्ष्मन्ना पुत्र पेदा रामुडु
			38/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	1.37	रेड्डीबोइनी वीरुप्पन्ना पत्नी बुग्गा रामा स्वामी
			39/बी1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.38	माला चिन्ना वेंकटना पुत्र सालुवादी नरसिम्हालु
			40/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.05	माला सालुवादी वेंकटरमण पुत्र पेदा वेंकटरमण
			40/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.42	माला सालुवादी वेंकटरमण पुत्र पेदा वेंकटरमण
			40/3ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.61	माला सालुवादी केशवालु पुत्र केसन्ना
			41/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.41	येरुकल्ला अबुला मैडिलिटी पुत्र मैडिलिटी
			41/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.67	डॉ. राजशेखर
			42/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.72	दालदै वरलक्ष्मी पत्नी कुलैया
			42/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.78	तलारी रामा नायडु पुत्र मादैया
							तलारी रंगन्नायकुलु पुत्र मादैया
							तलारी रंगन्ना पुत्र मादैया
			43/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.34	उप्परी रामनाजानयुलु पुत्र सुनकन्ना
			122/1	शुष्क	सरकारी भूमि	1.81	उप्परी मैडिलिटी स्वामी पुत्र सुनकन्ना
							उप्परी नार्गेडु पुत्र सुनकन्ना
							उप्परी रामनाजानयुलु पुत्र सुनकन्ना
			123/सी1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.45	तलारी नादिपी मैडिलिटी पुत्र थिम्पाना
			123/सी2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.26	जोन्नागदा बालाजी पुत्र विश्वनादम
			123/बी1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.18	जोन्नागदा बालाजी पुत्र विश्वनादम
			123/बी/2बी1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.36	बंगी जयसमुडु पुत्र रामना
							बंगी रमेश पुत्र रामना
			123/बी/3बी1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.26	पिंजारी हुसैन पुत्र पी. माल्की साहब
							बी. रमेश पुत्र रामना
			123/ए/1बी1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.11	पिंजारी मोला ती पुत्र माकी साह

1	2	3	4	5	6	7	8
			123/ए/2बी1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.33	पिजारी मोलाली पुत्र माकी साव
			124/बी/1बी1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.17	गव्वाला शेषना पुत्र चेन्नया केटिका शिवा कुमार
			124/बी/2बी1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.02	चितला कृष्ण मूर्ति पुत्र चितला शेट्टी
			125/बी1ए2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.03	चितला कृष्ण मूर्ति पुत्र चितला शेट्टी
			125/बी1बी2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.38	चिप्पागिरी प्रसाद पुत्र सुब्रमण्यम
			131/सी1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.14	गंगैया गौड पुत्र नागेशम गौड
			131/सी3बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.02	बंगी शेखर पुत्र पड्डन्ना
			132/ए12	शुष्क	सरकारी भूमि	0.01	बंगी पद्मवधम्मा पत्नी पुलैया
			132/बी1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.16	कल्ली नागन्ना पुत्र शेषना
			132/बी2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.19	बालाडोडी नारायणा रेड्डी बंगी पद्मवधम्मा पत्नी पुलैया
			133/बी2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.39	वेंकटाचलम पुत्र वेंकटप्पा
			133/बी4बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.33	एम. मुरली कृष्ण पुत्र वेंकटरमैया
			157/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.15	कम्माथम वेंकटम्मा पत्नी सुनकन्ना
			158/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.01	डी. कुलैया पुत्र हनुमता रेड्डी
			158/3बी	शुष्क	निजी भूमि	0.42	डी. कुलैया पुत्र हनुमता रेड्डी कमाथम सुनकन्ना पुत्र के. कमैया कम्माथम लक्ष्मैया पुत्र के. कमैया कम्माथम वेंकटम्मा पत्नी सुनकन्ना
			159/ए2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.43	दत्तात्रेय कुलैया पुत्र डी. हनुमता रेड्डी
			159/बी1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.14	वडे नागन्ना पुत्र पुल्लन्ना
			159/बी2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.12	वडे नागन्ना पुत्र पुल्लन्ना
			160/1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.20	मदिगा चिन्ना पेदेया पुत्र एम. सायदन्ना
			160/2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.22	मदिगा चिन्ना पेदेया पुत्र एम. सायदन्ना
			160/3बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.23	माला सालवादी मैडिलिटी पुत्र केसन्ना
			161/2	शुष्क	निजी भूमि	0.86	कोनाकाति रामना रेड्डी पुत्र रंगा रेड्डी रिलायंस इंफो कम्युनिकेशन कं.प्रा.उ.प.ड.
			147/सी2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.07	माले वेंकटरमन्नामा पत्नी योविन्दु
			163/3बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.32	मकान बस स्टैंड, होटल, झोपडी
			164/3	शुष्क	निजी भूमि	0.08	असम वल्ली टाटा दरगाह सड़क
			165/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.29	अला साई शिवा कुमार पुत्र शिवा नागी रेड्डी
			165/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.13	शिवनारायणा राजु पुत्र रामराजु
			165/3बी	शुष्क	निजी भूमि	0.07	हरिजन लक्ष्माम्मा पत्नी रंगन्ना
			165/4बी	शुष्क	निजी भूमि	0.12	मकामा बद्रीनारायण पुत्र सत्यनारायण

1	2	3	4	5	6	7	8
			441/2	शुष्क	निजी भूमि	1.79	पी. शेखर राव पुत्र लालू राव पी. जनाकीर बाई पत्नी शेखर राव एस. सूर्य कलाबाई पत्नी महेश्वरा राव इंदिया कलावधाम पत्नी बल राम गौड
			370/2	शुष्क	निजी भूमि	0.64	एस. सूर्य कलाबाई पत्नी महेश्वरा राव इंदिया कलावधाम पत्नी बल राम गौड
			442/1	शुष्क	निजी भूमि	0.10	संगाला रमणैया पुत्र रंगैया बाती पदमनामैया
			366/1	शुष्क	निजी भूमि	0.11	संगाला रमणैया पुत्र रंगैया बाती पदमनामैया
			369/1 बी	शुष्क	निजी भूमि	3.06	नल्ला गुला प्रभाकर पुत्र पेदा रामी रेड्डी नल्ला गुला शिव शंकर पुत्र पेदा रामी रेड्डी
			369/2 बी	शुष्क	निजी भूमि	0.29	एन. मदन मोहन रामचन्द्र प्रसाद पुत्र वेंकट नागी रेड्डी
			369/3 बी	शुष्क	निजी भूमि	0.32	एन. वेंकट रामी रेड्डी पुत्र रामा लिंगा रेड्डी
			369/4 बी	शुष्क	निजी भूमि	0.31	पाला नारायणाम्मा पत्नी पाला चिन्ना मलैया
			384/1 बी	शुष्क	निजी भूमि	1.30	वादला रंगा स्वामी पुत्र नागप्पा वादला रंगन्ना पुत्र नागप्पा सड़क
			384/2 बी	शुष्क	निजी भूमि	1.34	वादला पेदा सुनकन्ना पुत्र चिन्नाना वादला शुंकाचरी पुत्र चिन्नाना
			385/1	शुष्क	निजी भूमि	0.70	सी. रत्नामैया शेटी पुत्र ओवैया
			386/बी2	शुष्क	निजी भूमि	0.56	सी. रत्नामैया शेटी पुत्र ओवैया
			386/ए2	शुष्क	सरकारी भूमि	1.27	चौद बी पत्नी जफर सैयद माबुनी पत्नी मिन्नल्ला रंगा वल्ली पत्नी मैडिलिटी वडे लक्ष्मी देवी पत्नी जय रामुडु लक्ष्मी देवी पत्नी रामचंद्रुडु रामेश्वरम्मा पत्नी कुंटाना शंकराम्मा पत्नी शंकरैया शेख रसूल पुत्र नबीसा कुर्वा संजाम्मा पत्नी पेदा हनुमांतु अनुमाक्का पत्नी अनुमांतु सावित्री पत्नी संजीवुडु
			388/बी2 बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.83	हरिजन मधु पुत्र नागन्ना हरिजन नगामा पत्नी संजन्ना गोला इरम्मा पत्नी बी. रमणा

1	2	3	4	5	6	7	8
			388/ए2	शुष्क	निजी भूमि	2.79	शेषपाणि पुत्र धिमैया रंगा स्वामी पुत्र धिमैया सी. रत्नामैया पुत्र ओढैया सलीभाबी पत्नी दस्तागिरी
			129/2	शुष्क	निजी भूमि	2.18	अलाम कोन्डा शेख नबी साहेब पुत्र कासिम सईद
			324/बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.02	इदिगा रामनाजानुयुलु पुत्र अनुमाना
			323/1	शुष्क	निजी भूमि	0.51	कुर्वा हनुमानु पुत्र पेश सुनकन्ना हरिजन चिन्ना नागन्ना पुत्र मदनना चिन्ना सुनकन्ना पुत्र पेश मदनना पेश गोवंतला पुत्र बोडेना
			322/1ए	शुष्क	धर्मदाय	0.30	सी. रत्नामैया पुत्र ओढैया सी. मादैया पुत्र ओढैया
			320/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.60	मार्शल गोड पुत्र सोमा शेखर गौड कृष्णा वेनाम्मा पत्नी कुला स्वामी सत्य नारायण पुत्र श्रीनिवासुलु सेट्टी बी. रामकृष्ण पुत्र गिदन्ना मदनना गौड पुत्र वेंकट स्वामी नागा मुनेद्र गौड पुत्र अन्यालु ई. वेंकटेश्वरालु पुत्र चिन्ना वेंकटैया इदिगा संजीव रयानी पुत्र शेखर गौड गोल्ता गोदन्ना पुत्र रामन्ना महबूब पीरा बाशा सत्य नारायण पुत्र वेंकट श्रीनिवासुलु अमीर बाशा
			319/1	शुष्क	निजी भूमि	0.41	एम. जय राम नायडु पुत्र चिन्ना नायडु
			316/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.26	एम. जय राम नायडु पुत्र चिन्ना नायडु
			316/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.69	कुरुवा अनुमानु पुत्र संजन्ना
			314/1	शुष्क	निजी भूमि	1.05	कुरुवा रामनाजानुयुलु पुत्र के. चिन्ना पुलैया
			313/1	शुष्क	निजी भूमि	0.27	बंगी अंजानाम्मा पत्नी संजाप्पा
			308/2ए1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.78	बी. सत्ताए बंगी अंजानाम्मा पत्नी संजाप्पा
			307/1	शुष्क	वफक बोर्ड	0.29	कुरुवा पुलैया पुत्र संजन्ना
			298/1	शुष्क	वफक बोर्ड	0.30	कुरुवा पुलैया पुत्र संजन्ना
			297/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.10	कुरुवा पुलैया पुत्र संजन्ना
			296/1	शुष्क	निजी भूमि	1.52	ईश्वराम्मा पुत्र ईराप्पा

1	2	3	4	5	6	7	8
			267/ए1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.05	चिन्ना अब्दुल पुत्र पेदा नबी साहेब
			267/ए2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.89	चिन्ना अब्दुल पुत्र पेदा नबी साहेब कासिम हुसैन पुत्र रंदावा मुकुट सोहेब
			266/1	शुष्क	निजी भूमि	0.96	रिलायंस
			265/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.11	रिलायंस पेट्रोल बंक
			251/ए2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.67	हरिजन रामुडु पुत्र एम. सुनकन्ना
			250/1बी2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.25	शुंकुलैया पुत्र मरेना
			250/2बी2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.14	शुंकुलैया पुत्र मरेना
			252/2ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.59	कुंटा पोरम बोकु
			254/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.02	चकल्ली नागन्ना पुत्र गुराप्पा
			258/1बी1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.39	सी. ईरन्ना पुत्र गुराप्पा
			258/2ए1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.62	मेदिगा पेदा गोरण्डला पुत्र वेदन्ना
			127/2	शुष्क	निजी भूमि	0.96	शशि शेदटी पुत्र थिमैया
			132/2	शुष्क	निजी भूमि	0.01	बंगी अंजानम्मा पत्नी संजाप्पा
			131/2	शुष्क	धर्मदाय	1.09	बंगी अंजानम्मा पत्नी संजाप्पा
			140/ए2	शुष्क	निजी भूमि	0.10	बंगी अंजानम्मा पत्नी संजाप्पा
			140/बी2	शुष्क	निजी भूमि	0.94	आर. विजय कुमार पुत्र सुब्रमण्यम
			141/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.40	आर. विजय कुमार पुत्र सुब्रमण्यम
			141/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.46	एन. मल्लिकार्जुन नगालिगम रेड्डी आर. विजय कुमार पुत्र सुब्रमण्यम सड़क
			146/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.15	आर. विजय कुमार पुत्र सुब्रमण्यम
			146/4बी	शुष्क	निजी भूमि	0.10	आर. विजय कुमार पुत्र सुब्रमण्यम
			148/2	शुष्क	निजी भूमि	0.91	बी. संजप्पा पुत्र अंजनेय
			149/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.27	बी. संजप्पा पुत्र अंजनेय
			154/बी/2बी2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.46	तलारी शुंकुलम्मा पत्नी पेदा रंगन्ना बंगी अंजानम्मा पत्नी संजप्पा
			154/बी/1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.23	रवि किरण प्रसाद पुत्र सूर्य नारायण
			154/बी/2ए2/सी2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.22	पल्ली राज
			293/2	शुष्क	निजी भूमि	0.21	चिन्ना मेडिलिटी पुत्र मेदा सुनकन्ना
			294/2	शुष्क	निजी भूमि	0.62	चन्द्र पल्ली नागेश्वरराव पुत्र कुलायप्पा
			292/बी2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.07	चन्द्र पल्ली नागेश्वरराव पुत्र कुलायप्पा
			292/ए1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.08	चन्द्र पल्ली नागेश्वरराव पुत्र कुलायप्पा
			292/ए2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.11	चन्द्र पल्ली नागेश्वरराव पुत्र कुलायप्पा
			269/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.89	शेख पेदा मासूम पुत्र काले साहेब

1	2	3	4	5	6	7	8
			272/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.90	बडे चिन्नाना पुत्र पेदा सुनकन्ना
							नूर बाशा पुत्र रेडी माबु खान
			273/2	शुष्क	निजी भूमि	0.18	नूर बाशा पुत्र रेडी माबु खान
			274/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.47	मेतु समनाजानी पुत्र चिन्ना शंकुलेया मेतु लक्ष्मीनारायण पुत्र चिन्ना शंकुलेया
			256/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.66	सरकारी भूमि
5	कल्लुर	(1) लक्ष्मीपुरम	680/1	जीडी	निजी भूमि	0.27	मास्कर रेड्डी (ग्रेनाइट फैक्ट्री) अकिशित जैन पुत्र लक्ष्ममा जैन
			682/1	जीडी	निजी भूमि	0.27	एम. लक्ष्ममा पत्नी एम. गोपाल एवं अन्य
			732/2	आईडी	निजी भूमि	0.15	लक्ष्मी रेड्डी (गुंगनद्रा सीड्स)
			733/2	जीपी	सरकारी	0.01	पोरमबोके
			739/2	जीडी	निजी भूमि	0.06	लक्ष्मी रेड्डी (समनाजानी पुत्र चिन्ना शंकुलेया) एवं अन्य
			742/2	जीडी	निजी भूमि	0.36	1) भदिगा रेड्डी तामुसु पुत्र जीडी रेड्डी 2) आई रेड्डी राज शंखर रेड्डी (एनडीके)
			742/1	जीडी	निजी भूमि	0.97	1) मास्करेता शिक्षा समिति एवं अन्य
			744/1	जीडी	निजी भूमि	1.04	मजबूल हुसैन पुत्र गुलाम हुसैन एवं अन्य
			756/1ए	सड़क	सरकारी	0.05	पोरमबोके
			770/1	आईडी	निजी भूमि	0.76	पोथुलापाडु रामा कृष्ण रेड्डी पुत्र सोमाना पोथुलापाडु भूपल रेड्डी एवं सोमाना पोथुलापाडु रामा कृष्ण रेड्डी पुत्र सोमाना
			771/1	आईडी	निजी भूमि	0.18	पोथुलापाडु रामा कृष्ण रेड्डी पुत्र सोमाना पोथुलापाडु भूपल रेड्डी एवं सोमाना पोथुलापाडु राधा कृष्ण रेड्डी पुत्र सोमाना
			772/1	आईडी	निजी भूमि	1.24	1) डी. नागेन्द्रमा पत्नी डी. वेंकट राव 2) डी. वेंकट राव पुत्र अपैया 3) डी. रमेश पुत्र वेंकट राव 4) डी. रामैया पत्नी रमेश
			774/1ए	आईडी	निजी भूमि	2.60	टी. आर्यम्मा पत्नी स्व. तेंगावेलु एवं अन्य
			775/1	जीडी	निजी भूमि	0.98	एम. नरसिंह पुत्र राम कृष्ण एवं अन्य
			776/1ए	जीडी	निजी भूमि	1.45	डी. जसैना जहीर पत्नी जहीर अहमद खान सूरी
			777/1ए	जीपी	सरकारी	0.13	वंका पोरमबोके
		(2) दुपडु	44/2	जीपी	सरकारी	0.01	रास्ता पोरमबोके
			53/2	जीपी	सरकारी	0.03	रास्ता पोरमबोके
			57/2	जीडी	निजी भूमि	0.25	जी. सुकन्या पत्नी वेंकटरमण
			58/1बी	जीडी	निजी भूमि	0.06	जी. सुकन्या पत्नी वेंकटरमण
			58/2बी	जीडी	निजी भूमि	0.61	जी. सुकन्या पत्नी वेंकटरमण एम. सुद अहमद खान पुत्र एम.जी.ए. खान

1	2	3	4	5	6	7	8
			60/2	आईडी	धर्मदाय	0.42	सहायक आयुक्त धर्मदाय, कुरुनूल
			61/2	जीडी	निजी भूमि	0.80	जी. रामपुला रेड्डी पुत्र वेंकट रेड्डी एवं अन्य
			63/2	जीडी	निजी भूमि	0.54	एन. पुला रेड्डी पुत्र प्रताप रेड्डी एवं अन्य
			64/2	जीडी	निजी भूमि	0.20	अनुमोलु वेंकटेश्वरालु
			65/2	जीपी	सरकारी	0.01	रास्ता पोरमबोके
			66/2	जीडी	निजी भूमि	0.17	परमेश्वरैया पुत्र मलैया शेदटी एवं अन्य
			69/2	आईडी	वफ्फ बोर्ड	0.24	वफ्फ बोर्ड
			70/ए2	जीडी	निजी भूमि	0.17	पेदा शुंकी रेड्डी
			70/बी2	जीडी	निजी भूमि	0.15	1) वेमुला वेंकट स्वामी पुत्र चिन्ना शशन्ना 2) ए. लक्ष्मी रेड्डी पुत्र ए. पी. वीरा रेड्डी
			72/1ए1	जीपी	सरकारी	0.11	पोरमबोके
			72/1बी1ए	जीडी	निजी भूमि	0.35	डॉ. स्वरूपा रानी पत्नी डॉ. शंकर शर्मा
			72/1बी2ए	जीडी	निजी भूमि	0.40	एन. रामादेवी पत्नी डॉ. ब्रह्मा रेड्डी
			73/2	आईडी	वफ्फ बोर्ड	0.67	वफ्फ बोर्ड
			74/1ए	जीडी	निजी भूमि	0.29	डॉ. राम चन्द्र राव
			74/2ए	जीपी	सरकारी	0.05	पोरमबोके
			74/3ए	जीडी	निजी भूमि	0.59	डॉ. राम चन्द्र राव
			94/1	जीडी	निजी भूमि	1.65	1) सिद्धारेड्डी पुरुषोत्तम रेड्डी पुत्र एस. बी. कृष्ण रेड्डी एवं अन्य
			95/1ए	जीडी	निजी भूमि	1.28	श्री. सुब्बा लक्ष्मी पत्नी नागी रेड्डी एवं अन्य
			96/1	आईडी	धर्मदाय भूमि	0.78	धर्मदाय भूमि
			111/1	जीपी	सरकारी	0.09	पोरमबोके
			112/1ए	जीडी	निजी भूमि	1.30	कृष्ण गौड पुत्र शशिकिरण गौड एवं अन्य
			113/1ए	जीडी	निजी भूमि	0.78	कुरुवा चिन्ना नारायण (पेड्डाटेकुर)
		(3) पेदा टेकुर	39/1	जीडी	निजी भूमि	0.29	जी. ज्योति पत्नी एम. वीरामद्रेया
			40/1	जीडी	निजी भूमि	1.17	जी. आनंद रेड्डी पुत्र जी. के. रेड्डी एवं अन्य
			41/1	जीपी	सरकारी	0.05	सडक पोरमबोके
			42/1	जीडी	निजी भूमि	1.38	श्री येदुल्ला चन्द्र रेड्डी पुत्र शशि रेड्डी एवं अन्य
			49/1	जीडी	निजी भूमि	0.32	ए. महेश्वर रेड्डी पुत्र सुब्बा रेड्डी
			48/1	जीडी	निजी भूमि	0.78	ए. महेश्वर रेड्डी पुत्र सुब्बा रेड्डी एवं अन्य
			183/1	जीडी	निजी भूमि	0.34	नीला रेड्डी पुत्र सुब्बा रेड्डी
			185	जीडी	निजी भूमि	1.54	बोया व्यातावडा वेंकट स्वामी पुत्र शेषण
			179/ए1ए	जीडी	निजी भूमि	0.47	तेलुगु शिवायमुडु पुत्र नारायण एवं अन्य
			179/ए2ए	जीडी	निजी भूमि	0.43	बी. राम चन्द्र रेड्डी पुत्र बी. पुला रेड्डी
			179/बी1ए	जीडी	निजी भूमि	0.38	बी. राम चन्द्र रेड्डी पुत्र बी. पुला रेड्डी
			179/बी2ए	जीडी	निजी भूमि	0.43	बी. राम चन्द्र रेड्डी पुत्र बी. पुला रेड्डी
			178/ए1	जीडी	निजी भूमि	0.63	अत्थला चिन्ना नारायण रेड्डी पुत्र पेदा नागी रेड्डी एवं अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8
			37/2	जीडी	निजी भूमि	0.15	1. मालेश्वर रेड्डी पुत्र नागी रेड्डी
							2. धिम्मा रेड्डी पुत्र सुब्बा रेड्डी
			36/2	जीडी	निजी भूमि	0.08	संजीव रेड्डी पुत्र येला रेड्डी
			34/2	जीडी	निजी भूमि	0.08	जी. आनंद रेड्डी पुत्र जी. के. रेड्डी
			33/2	जीडी	निजी भूमि	0.92	जी आनंद रेड्डी पुत्र जी. के. रेड्डी एवं अन्य
			32/2	जीडी	निजी भूमि	0.08	1. मोहिद्दीन साहब पुत्र मासूम साहब
							2. पिटाला मैडिलिटी पुत्र वैकटना
			28/2	जीपी	सरकारी	0.04	सड़क
			44/1बी	जीपी	निजी भूमि	0.36	1. के. नागन्ना पुत्र येरामला
							2. डॉ. स्वरूपा रानी पत्नी शंकर शर्मा
			44/2बी	जीडी	निजी भूमि	0.23	1. जी शंकर पुत्र सुकन्या
							2. दानेश्वरी पत्नी पेद्द पेडैया
			45/2बी	जीडी	निजी भूमि	0.15	डॉ. स्वरूपा रानी पत्नी डॉ. शंकर शर्मा
			46/2	जीडी	निजी भूमि	1.26	महेश्वर रेड्डी पुत्र सुब्बा रेड्डी एवं अन्य
			190/2	जीडी	निजी भूमि	0.23	मोहम्मद मुसाखान एवं अन्य
			189/2	जीडी	निजी भूमि	0.65	गारुलु सुब्बा रेड्डी
							तुंगमद्गा नागी रेड्डी
			187/2	जीडी	निजी भूमि	0.23	बी. राम चन्द्र रेड्डी पुत्र शशि रेड्डी एवं अन्य
			197/2	जीडी	निजी भूमि	0.55	बी. राम चन्द्र रेड्डी पुत्र बी. पुला रेड्डी एवं अन्य
			199/2	जीडी	निजी भूमि	0.26	मोहम्मद युसुफ पुत्र महबूब बाशा
			201/2	जीपी	सरकारी भूमि	0.01	पोरमबोके
			202/2	जीडी	सरकारी भूमि	0.01	ए. डबल्यू. भूमि
		(4) बस्तीपाडू	336/2	एसआईडी	निजी भूमि	8.99	कुक्कल्ला किस्टाना पुत्र चिन्ना रमण एवं अन्य
			337/2	आईडी	निजी भूमि	3.45	सिस्टर स्टैसिलस शिक्षा समिति, कुरुनूल
			322/2	आईडी	निजी भूमि	0.43	जी. नागी रेड्डी पुत्र रामी रेड्डी
			339/1	जीडी	निजी भूमि	0.23	बोया बाजारु पुत्र मोरेना
			341/1बी	आईडी	निजी भूमि	1.35	के. अच्चन्ना पुत्र बुद्ध गिदैया
			343/2	आईडी	निजी भूमि	4.07	पेद्द शेषन एवं अन्य
			399/2	आईडी	निजी भूमि	0.88	बी. शैलेजा पत्नी नटराज
			396/2	जीडी	निजी भूमि	1.97	बी. शैलेजा पत्नी नटराज
			397/2	जीडी	निजी भूमि	1.05	कुरुवा शेषन पुत्र नागन्ना
			394/2	जीडी	निजी भूमि	2.74	बी. नटराज पुत्र तुलसैया
			403/3	जीपी	सरकारी भूमि	0.9	रास्ता
			404/2	आईडी	निजी भूमि	0.13	हरिजन पेद्द नागन्ना पुत्र मैडिलिटी
			391/1	जीडी	निजी भूमि	0.02	चिन्ना नागन्ना पुत्र मैडिलिटी
			390/2	जीडी	निजी भूमि	3.55	सामुलैया पुत्र मरेना एवं अन्य
			377/2	जीडी	निजी भूमि	1.35	अंजानेयुलु पुत्र लक्ष्मा

1	2	3	4	5	6	7	8
			378/2	जीडी	निजी भूमि	0.02	रातामा पत्नी सुनकन्ना
			375/2	जीडी	निजी भूमि	2.60	लक्ष्मी रेड्डी पुत्र कृष्ण रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी
			405/2	जीडी	निजी भूमि	0.02	माधव स्वामी पुत्र सुनकन्ना
			380/2बी	---	निजी भूमि	0.37	लक्ष्मी रेड्डी पुत्र कृष्ण रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी
		(5) चिन्नाटेकर	68/2	जीपी	सरकारी भूमि	0.18	वागु पोरमबोके
			73/2	जीडी	निजी भूमि	0.53	एस.एम. इस्माइल पुत्र महबूब साहब
			72/2	जीडी	सरकारी भूमि	0.95	एस.एम. इस्माइल पुत्र महबूब साहब ए.डबल्यू. भूमि
			71/2	जीडी	सरकारी भूमि	0.88	खाली भूमि
			75/2	जीपी	सरकारी भूमि	0.41	कब्रिस्तान
			76/2	जीपी	सरकारी भूमि	0.06	कब्रिस्तान
			77/2	जीडी	निजी भूमि	0.83	एस. मोहम्मद युसुफ पुत्र इस्माइल एवं अन्य मकान स्थल, प्लॉट्स, मकान, होटल इत्यादि
			56/2	जीडी	निजी भूमि	0.11	हरिनन मिठा हनुमांतु एवं अन्य
			78	जीडी	निजी भूमि	0.27	येरा अय्याना पुत्र सुनकन्ना एवं अन्य होटल मुबारक इत्यादि
			55/2	जीडी	निजी भूमि	0.21	येला रेड्डी पुत्र पम्पा रेड्डी
			79	जीडी	निजी भूमि	0.27	येला रेड्डी पुत्र पम्पा रेड्डी
			54/2	जीडी	निजी भूमि	0.09	येला रेड्डी पुत्र पम्पा रेड्डी
			53	जीडी	निजी भूमि	0.01	येला रेड्डी पुत्र पम्पा रेड्डी
			80	जीडी	निजी भूमि	0.04	येला रेड्डी पुत्र पम्पा रेड्डी
			81	जीडी	निजी भूमि	0.12	येला रेड्डी पुत्र पम्पा रेड्डी
			82	जीडी	निजी भूमि	0.02	1. मल्लेश्वर रेड्डी पुत्र शिव रेड्डी 2. वेकटेश्वर रेड्डी पुत्र थिप्पा रेड्डी
			49/2	जीडी	निजी भूमि	0.25	एन. भाग्यमा पत्नी सुब्बा रायडू एवं अन्य (मकान, मकान स्थल इत्यादि)
			52/2	जीडी	निजी भूमि	0.13	येला रेड्डी पुत्र पम्पा रेड्डी एवं अन्य
			48/2	जीडी	सरकारी भूमि	0.17	पोरमबोके
			47/2	जीडी	निजी भूमि	0.41	धनुजा पुत्र चिन्ना अजानेयुतु एवं अन्य मकान स्थल प्लॉट्स, झोपडी, बिल्डिंग इत्यादि
			45/2	जीपी	सरकारी भूमि	0.24	पोरमबोके
			44/2	जीपी	सरकारी भूमि	0.04	रास्ता
			290/2	जीडी	निजी भूमि	0.26	प्रताप रेड्डी, जनार्दन रेड्डी
			291/2	जीडी	निजी भूमि	0.02	लक्ष्मी देवी पत्नी नरसिम्हालु
			292/2	जीडी	निजी भूमि	0.35	1) लक्ष्मीदेवी पत्नी नरसिम्हालु 2) टी. वेकटेश्वरालु पुत्र नारायण
			318/2	आईडी	निजी भूमि	0.56	टी. जयसामुद्रु पुत्र नारायण
			332/2	आईडी	निजी भूमि	0.20	टी. जयसामुद्रु पुत्र नारायण
			333/2	जीडी	निजी भूमि	0.22	तंगावेलु
			334/2	आईडी	निजी भूमि	0.60	1) टी. वेकटेश्वरालु पुत्र नारायण 2) एम. सैलेजा देवी पत्नी डॉ. एस. नागेश

1	2	3	4	5	6	7	8
			335/2	जीडी	निजी भूमि	1.36	1) एम. शैलजा देवी पत्नी डा. एस. नारायण 2) बी. नटराज पुत्र तुलसीदास
			349/2	आईडी	वफा बोर्ड	3.52	वफा बोर्ड भूमि
			343/2	आईडी	वफा बोर्ड	0.19	वफा बोर्ड भूमि
			110/1ए	जीपी	सरकारी भूमि	0.32	सरकारी भूमि
			109/1ए	जीडी	निजी भूमि	0.24	निजी भूमि
			109/2ए	जीपी	सरकारी भूमि	0.10	सरकारी भूमि
			109/3ए	जीडी	निजी भूमि	0.25	1) अब्दुल रहमान पुत्र मोसा साहब 2) रहीम शाह पुत्र मोसा साहब
			108/ए1	जीडी	निजी भूमि	0.16	1) अब्दुल रहीम पुत्र मोसा साहब 2) रहीम शाह पुत्र मोसा साहब
			101/1ए	जीडी	निजी भूमि	0.27	के. भास्कर पुत्र स्व. सुकाना
			101/1सी	जीडी	निजी भूमि	0.45	रमेश वर्मा पुत्र वैकुण्ठ
			101/2ए	जीडी	सरकारी भूमि	0.22	बुलिस क्वार्टर्स
			102/1ए	जीडी	निजी भूमि	0.34	दत्तागिरी पुत्र शशी साहब
			100/1	जीडी	निजी भूमि	0.66	बी. सी. राजेश्वरन्दा पत्नी श्री. सीतारामा
			99/1	एसआईडी	निजी भूमि	0.60	वेंकटरमन्दा पत्नी अंजनेयुत एवं अन्य (मकान स्थल एवं मकान)
			91/1	एसडी	निजी भूमि	0.87	पदनाथतमा पत्नी प्रकाशम एवं अन्य कान, मकान स्थल इत्यादि
			92/1	जीडी	सरकारी भूमि	0.04	समथोटा पोरमबोके
			90/1	जीडी	सरकारी भूमि	1.40	समथोटा पोरमबोके
			85/1	एसआईडी	निजी भूमि	0.25	जी. ज्योति पत्नी एम. वीरमदेया
			288	एसआईडी	निजी भूमि	0.03	अंजानाप्पा पुत्र गोवसाप्पा
			287/1ए	एसआईडी	निजी भूमि	0.28	1) जी. ज्योति पत्नी एम. वीरमदेया एवं अन्य
			289/1	जीडी	सरकारी भूमि	0.15	सरकारी भूमि
			288/1	जीडी	सरकारी भूमि	0.37	सरकारी भूमि
			315/1	जीडी	निजी भूमि	0.48	1) अंजनेयुत पुत्र 2) अंजनेयुत पुत्र मोहन 3) अंजनेयुत पुत्र मोहन पुत्र के पी. अंजनेयुत
			316/1	आईडी	निजी भूमि	0.60	अंजनेयुत पुत्र मोहन
			314/1	आईडी	निजी भूमि	0.44	अंजनेयुत पुत्र मोहन रेड्डी, कुरनूल एवं अन्य
			313/1	जीडी	निजी भूमि	0.48	अंजनेयुत पुत्र मोहन
			312/1	आईडी	निजी भूमि	1.78	1) अंजनेयुत पुत्र मोहन अंजनेयुत 2) अंजनेयुत पुत्र मोहन
			311/1	जीडी	निजी भूमि	1.07	अंजनेयुत पुत्र वेत्ता नारायण एवं अन्य
		(अंजनेयुत)	136/2 सी2		निजी भूमि	1.22	अंजनेयुत पुत्र वेत्ता नारायण
			136/2 सी2		निजी भूमि	1.48	1) वडे विन्ना 2) वडे पेदा अय्याना 3) वडे पिन्ना अय्याना 4) वडे वेंकटरमन्दा

1	2	3	4	5	6	7	8
			138/2		निजी भूमि	1.25	पिजारी गेदाम्मा
			139/1ए2बी2		निजी भूमि	0.01	वडे थिमालु
			158/1ए		निजी भूमि	0.20	पिजारी गिदाम्मा पत्नी मोलाली
			158/2ए		निजी भूमि	0.54	पिजारी पेदेया पुत्र बदरेया
			158/3ए		निजी भूमि	0.16	पिजारी अलेम्मा पत्नी पीरेया
			158/4ए		निजी भूमि	0.20	पिजारी मादेया पुत्र येराना
			156/2बी2बी		निजी भूमि	2.48	वेकट लक्ष्मम्मा पत्नी मैडिलिटी
			157/2बी		निजी भूमि	0.22	वेकट लक्ष्मम्मा पत्नी मैडिलिटी
			163/4बी		निजी भूमि	2.02	पोलुकल मदाम्मा पत्नी पपाना
			161/1		सरकारी भूमि	0.19	गंदु पोरमबोके
			162/1बी		निजी भूमि	1.18	कालुबन्डी मासूम पुत्र हुसैन साहेब
			162/2बी		निजी भूमि	1.00	वडे चिन्ना सुनकन्ना पुत्र गुरप्पा
			162/3बी		निजी भूमि	0.63	बोया तलारी पपाना पुत्र बुद्धना
			162/4बी		निजी भूमि	0.56	तलारी मदाम्मा पत्नी पपाना
6	पीपुल्ली	(1) वैगलमपल्ली	157/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.14	1. बोयापति, गंगाधरम 2. शेशा पानी
			157/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.04	1. बोयापति, गंगाधरम 2. शेशा पानी
			156/2	शुष्क	निजी भूमि	0.36	1. बोयापति, गंगाधरम 2. शेशा पानी
			155/2	शुष्क	निजी भूमि	0.44	1. अला हनुमैया
			152/2	शुष्क	निजी भूमि	0.05	1. गुडडी संजन्ना
			151/2	शुष्क	निजी भूमि	0.34	अंजानेया स्वामी मनायम
			150/2	शुष्क	निजी भूमि	0.32	1. शेषपाणि
			165/2	शुष्क	निजी भूमि	0.03	कोरिवी, रामनाजानेयुलु
			164/1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.15	वागु
			163/2	शुष्क	निजी भूमि	0.63	के. जय प्रकाश बाबू
			162/2	शुष्क	सरकारी भूमि	0.35	यू.ए. डबल्यू
			161/2	शुष्क	निजी भूमि	0.79	प्रसाद
			160/2	शुष्क	निजी भूमि	0.34	प्रसाद
			214/2	शुष्क	निजी भूमि	0.30	एस.के.टी फैंक्ट्री
			215/2	शुष्क	निजी भूमि	0.10	एस.के.टी फैंक्ट्री
			216/2	शुष्क	निजी भूमि	0.33	एस.के.टी फैंक्ट्री
			217/2	शुष्क	निजी भूमि	0.71	एस.के.टी फैंक्ट्री
			246/1ए	शुष्क	निजी भूमि	1.27	तेलुगु सुब्बामा
			246/3ए	शुष्क	निजी भूमि	0.09	मेतु रमैया
			247/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.31	मेतु गंगाना
			247/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.72	नूकल्ला, रवि कृष्ण पुत्र एन.आर. प्रभाकर
			248/1	शुष्क	निजी भूमि	0.43	मेतु मदेया

1	2	3	4	5	6	7	8
			250/1	शुक्क	निजी भूमि	1.30	श्री. रामलील्लूदीन पुत्र बीरन साहेब
							प्रसाद
			253/1	शुक्क	निजी भूमि	0.89	प्रसाद
			252/2ए	शुक्क	निजी भूमि	0.09	प्रसाद
			265/1ए	शुक्क	निजी भूमि	0.10	के. जय प्रकाश बाबू पुत्र शैल आचार्य
			265/2ए	शुक्क	सरकारी	0.11	वका
			266/1	शुक्क	सरकारी	0.75	कोरिबी. संजना (बाग)
			267/1	शुक्क	निजी भूमि	1.90	1. गंगाधर 2. शैलबाग
			276/1	शुक्क	निजी भूमि	0.84	मेतुपल्ली, ओडुलेसु पुत्र बाजाना
			279/1	शुक्क	निजी भूमि	0.81	बाजाना, सजु पत्नी गंगी रेड्डी
			281/1	शुक्क	सरकारी	0.14	यू.ए. डबल्यू
			282/1	शुक्क	सरकारी	0.37	बाग
			596/1ए	शुक्क	निजी भूमि	0.21	मालेश पुत्र मालाप्पा
			596/2ए	शुक्क	निजी भूमि	0.63	मालेश पुत्र मालाप्पा
			596/8ए	शुक्क	निजी भूमि	0.02	मालेश पुत्र मालाप्पा
			596/9	शुक्क	निजी भूमि	0.20	मालेश पुत्र मालाप्पा
			596/10ए	शुक्क	निजी भूमि	0.31	मालेश पुत्र मालाप्पा
			596/12ए	शुक्क	निजी भूमि	0.01	मालेश पुत्र मालाप्पा
			596/13ए	शुक्क	निजी भूमि	0.02	मालेश पुत्र मालाप्पा
			596/14ए	शुक्क	निजी भूमि	0.06	मालेश पुत्र मालाप्पा
			597/1	शुक्क	निजी भूमि	0.65	अला लक्ष्मी
			598/1	शुक्क	निजी भूमि	1.28	कोटा टोका टिप्पा रेड्डी
			59/2	शुक्क	निजी भूमि	2.27	डी. बशीर साब पुत्र मब साब
			61/2	शुक्क	सरकारी भूमि	0.08	सड़क
			236/1ए2	शुक्क	निजी भूमि	3.86	एल. बडे बेबीपत्नी नाने साब
			236/1बी1	शुक्क	सरकारी भूमि	0.03	सड़क
			234/2	शुक्क	सरकारी भूमि	0.27	यू.ए. डबल्यू
			233/1बी1	शुक्क	निजी भूमि	0.54	टोपेला, सुनकन्ना
			230/5बी	शुक्क	निजी भूमि	0.78	टोपेला, सुनकन्ना
			232/1	शुक्क	निजी भूमि	0.94	गोला सिद्धा रमैया, टोपेला बालन्ना
			231/1बी	शुक्क	निजी भूमि	0.57	गोला सिद्धारमैया पुत्र के. गोला पुलैया
			245/4ए	शुक्क	निजी भूमि	0.20	पट्टा भूमि
		(2) इनुगुमारी	688/1ए	शुक्क	निजी भूमि	0.42	नेसे कृष्ण मूर्ति
			688/2ए	शुक्क	निजी भूमि	0.72	के. जयना
			675/1	शुक्क	धर्मदाय	0.18	धर्मदाय भूमि
			674/1ए	शुक्क	निजी भूमि	1.06	टी. वेंकट रामुडु, टी. रामुडु

1	2	3	4	5	6	7	8
			674/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.4	टी. वेंकट रामुडु टी. रामुडु
			673/1	शुष्क	निजी भूमि	0.29	टी. वेंकट रामुडु टी. रामुडु
			672/1	शुष्क	निजी भूमि	0.44	टी. वेंकट रामुडु टी. रामुडु
			671/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.52	पी. केशना
			629/1ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.79	सरकार
			629/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.59	पी. केशना
			621/1	शुष्क	सरकारी भूमि	1.05	सरकार
			690/2	शुष्क	निजी भूमि	0.51	पीडी. टिम्मा रेड्डी
			694	शुष्क	निजी भूमि	0.26	
			693/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.44	कृष्ण मूर्ति
			693/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.14	कृष्ण मूर्ति
			695/2	शुष्क	निजी भूमि	1.02	नेसे नागप्पा
			696/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.45	नेसे वेंकट रामुडु
			708/2	शुष्क	निजी भूमि	0.29	एच. लक्ष्मी देवी पत्नी वेंकटेश टी. रामनजानेयुलु
			709/2	शुष्क	निजी भूमि	1.6	गरिकापट्टी, रामकृष्ण
			799/1ए2	शुष्क	निजी भूमि	2.42	ए. हनुमका
			799/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.16	ए. सुनकन्ना
			798/2	शुष्क	निजी भूमि	1.44	सुनकन्ना एच. बालाना
			840/1	शुष्क	धर्मदाय	1.46	धर्मदाय भूमि
			835/1	शुष्क	निजी भूमि	0.89	ए. सुनकन्ना
			821/1	शुष्क	निजी भूमि	0.47	डी. बाशा डी. कुलायप्पा
			820/1	शुष्क	निजी भूमि	0.20	ए. हनुमका
			606/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.65	ए. हनुमका
			712/2	शुष्क	निजी भूमि	2.77	कंगीमाला, नारायणा पुत्र बलैया
			713/2	शुष्क	धर्मदाय	1.2	पीरला देवता
			746/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.21	तुराका, मोताली
			746/2बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.44	वागु
			746/3ए	शुष्क	सरकारी भूमि	0.44	वागु
			746/4बी	शुष्क	निजी भूमि	0.23	समा पुलैया पुत्र मदन्नाप्पा
			747/1बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.01	वागु
			747/2बी	शुष्क	निजी भूमि	1.37	रामा पुलैया पुत्र मदन्नाप्पा
			748/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.06	रामा पुलैया पुत्र मदन्नाप्पा
			748/1सी	शुष्क	निजी भूमि	0.02	रामा पुलैया पुत्र मदन्नाप्पा
			752/5बी	शुष्क	सरकारी भूमि	0.80	वागु

1	2	3	4	5	6	7	8
			754/1ए	शुक्क	सरकारी भूमि	0.08	वागु
			754/2ए	शुक्क	निजी भूमि	0.03	पीडी. मोलाली पुत्र पकीरणा
			753	शुक्क	निजी भूमि	0.14	अरीजला सुनकन्ना पुत्र वेंकटेश
			755/1	शुक्क	निजी भूमि	2.15	चिन्तामबरी पुत्र सुनकन्ना
							मोपुरी, सुभारायडू पुत्र सुनकन्ना
			756/1बी	शुक्क	निजी भूमि	0.33	श्री रामलु
			756/2बी	शुक्क	निजी भूमि	0.16	मज्जा वेंकट सुबैया सिद्धारमैया, चिन्तामबरीया
			757/2	शुक्क	निजी भूमि	0.41	जी. विदेया पुत्र रमेया
			758/2	शुक्क	निजी भूमि	0.28	मज्जा सुनकन्ना पुत्र वेंकटपा
			759/2	शुक्क	निजी भूमि	0.49	मज्जा सुनकन्ना पुत्र वेंकटपा
							मज्जा सुनकन्ना
			760/2	शुक्क	धर्मदाय	0.11	धर्मदाय भूमि
			761/2	शुक्क	निजी भूमि	0.01	गिद्याम वेंकटपल्ली पत्नी मज्जा
			803/1बी	शुक्क	निजी भूमि	3.91	एम. वेंकट स्वामी
							ए. कृष्ण भूमि
							सुनकन्ना
							के. नारायण स्वामी
			799/1ए2	शुक्क	निजी भूमि	1.84	हनुमावका पत्नी वेंकटेश
			799/2बी	शुक्क	निजी भूमि	0.16	ए. सुकाना
	(3) फीपुल्ली		39/1बी	शुक्क	सरकारी भूमि	1.07	रापुरी, वेंकट रमेया (बेरु)
			38/1बी	शुक्क	धर्मदाय	1.14	सुब्रण्य स्वामी मण्यम
			38/2बी	शुक्क	धर्मदाय	2.84	सुब्रण्य स्वामी मण्यम
			37/1बी2बी	शुक्क	निजी भूमि	0.04	सेख मुंताज बी पत्नी अल्लाबक्का
			37/2बी2	शुक्क	धर्मदाय	0.48	सुब्रण्य स्वामी मण्यम
			28/2ए	शुक्क	धर्मदाय	0.34	सुब्रण्य स्वामी मण्यम
			27/2	शुक्क	धर्मदाय	4.65	सुब्रण्य स्वामी मण्यम
			26/2	शुक्क	निजी भूमि	2.55	बोरेडी, जगन्नाथ रेड्डी
							श्री रामलु रेड्डी
			46/1बी	शुक्क	सरकारी भूमि	3.05	जी. मूवनेस्वर रेड्डी
							सरकार
			46/2बी	शुक्क	सरकारी भूमि	1.14	जी. गिद्या, सरकार
			49/2	शुक्क	निजी भूमि	0.69	कोपुल्ला शांतम्मा
			61/1ए	शुक्क	निजी भूमि	0.50	गुदरु बाला रंगैया पत्नी वेंकना
			57/2	शुक्क	निजी भूमि	4.67	गुनेटी, बलाना पुत्र नारायण
							वका. सुराना पुत्र पीडी. नारायणा
			58/1	शुक्क	निजी भूमि	0.07	गुदरु नागरल्लमा

1	2	3	4	5	6	7	8
			59/1	शुष्क	निजी भूमि	0.92	गुदरू नागरलमा
			106/2	शुष्क	निजी भूमि	1.98	लिगम वेकट सुबैया
			104/2सी2	शुष्क	निजी भूमि	2.00	अतामुरी चेनेया
			103/1	शुष्क	सरकारी भूमि	0.68	जे. सी. सालाप्पा पुत्र कुलैया
			102/1	शुष्क	निजी भूमि	0.76	पामिदी कुलैयाप्पा
			111/3बी	शुष्क	निजी भूमि	2.31	गुजाबोइना वेकट रामुडु पुत्र चो. पेदन्ना गुजाबोइना वेकटप्पा पुत्र पीडी. पेदन्ना
			291/1बी2	शुष्क	निजी भूमि	0.27	जाकुला लिगमा पत्नी पुल्लन्ना
			291/1सी2	शुष्क	निजी भूमि	0.32	जाकुला लिगमा पत्नी पुल्लन्ना
			291/1डी2	शुष्क	निजी भूमि	0.32	जाकुला लिगमा पत्नी पुल्लन्ना
			291/1ई	शुष्क	निजी भूमि	0.40	जाकुला लिगमा पत्नी पुल्लन्ना
			291/1ए2	शुष्क	निजी भूमि	0.07	जाकुला लिगमा पत्नी पुल्लन्ना
			291/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.26	जी. चौ. पेदन्ना
			291/4सी	शुष्क	निजी भूमि	1.79	जाकुला नागन्ना पुत्र रंगन्ना
			291/4बी	शुष्क	निजी भूमि	0.03	जे. नागन्ना
			292/2	शुष्क	निजी भूमि	1.54	एस. चन्द्र शेखर बाबू पुत्र वेकट चालम
			302/1बी	शुष्क	निजी भूमि	2.30	लक्ष्मी देवम्मा पत्नी प्रभाकर
			302/2ए	शुष्क	निजी भूमि	1.07	प्रभाकर पुत्र रामा चंदैया
			305/ए2	शुष्क	निजी भूमि	0.56	पा. ल. कौडन्ना
			305/बी2	शुष्क	निजी भूमि	0.53	वाका कौडन्ना
			305/सी2	शुष्क	निजी भूमि	0.05	वाका कौडन्ना
			304/1	शुष्क	निजी भूमि	1.39	कादिकी कौडन्ना
			307/1बी	शुष्क	निजी भूमि	2.66	कुमारी अस्वथाम्मा
			307/2ए1	शुष्क	निजी भूमि	0.03	कुरागायला चौ. हनुमांतु
			307/2बी2	शुष्क	निजी भूमि	0.75	राचुरी शैबैया
			307/2सी1	शुष्क	निजी भूमि	0.60	कुरागायला चौ. हनुमांतु
			308/1बी	शुष्क	निजी भूमि	1.53	के. हनुमांतु
			932/2बी	शुष्क	निजी भूमि	4.92	वीरानाजानेयुलु पुत्र लक्ष्मण
			931/1ए1	शुष्क	निजी भूमि	1.15	वीरानाजानेयुलु पुत्र लक्ष्मण
			931/1ए3	शुष्क	निजी भूमि	0.04	वीरानाजानेयुलु
			931/1बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.05	पी. वी. लक्ष्मम्मा
			931/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.81	पी. वी. लक्ष्मम्मा
			918/4ए	शुष्क	निजी भूमि	0.18	वेलिगिरी श्री रामुलु अंजानेयुलु, श्रीनिवासुलु
			918/4सी	शुष्क	निजी भूमि	1.10	वेलिगिरी श्री रामुलु अंजानेयुलु, श्रीनिवासुलु
			917/1सी	शुष्क	निजी भूमि	1.37	गोला राम मोहन पुत्र अनाथैया, सुब्बा लक्ष्मम्मा
			917/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.41	गोला, वीरनारायण

1	2	3	4	5	6	7	8
			915/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.88	चकल्ली नागप्पा स्वामी रंगाडु वाई. श्रीनिवासुलु
			912/1बी2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.47	वेंकट रामुडु
			912/1बी3बी	शुष्क	निजी भूमि	0.64	वेंकट रामुडु
			912/2बी	शुष्क	निजी भूमि	0.06	वेंकट रामुडु
			911/1	शुष्क	निजी भूमि	0.12	हराती, राघव आचार्यलु
			913/2	शुष्क	निजी भूमि	0.47	पागिवाला, शिम्मापा पुत्र वेंकट स्वामी
			891/2	शुष्क	निजी भूमि	2.52	यू. वेंकटेश जंगमैया
			892/1बी	शुष्क	निजी भूमि	0.96	चकल्ली नागप्पा
			892/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.74	कोथपेटा वेंकट रामुडु
			953/1	शुष्क	निजी भूमि	0.13	पी.एस. वेंकटरमैया
			988/2	शुष्क	निजी भूमि	2.90	रामुडु पी. सुलोचनाम्मा पत्नी वेंकट नारायणा वनाप्पा पुत्र पुंजया
			887/2ए2	शुष्क	निजी भूमि	1.96	आंचिकांति लक्ष्मी देवी नगम्मा पुत्र पीडी. रंगप्पा बोरेडी बाला रामी रेड्डी
			871/2बी1	शुष्क	निजी भूमि	0.35	वाडुगुरु ज्याम्मा पत्नी बी. पुंजया
			871/1ए	शुष्क	निजी भूमि	0.22	वी. सुधाकर रेड्डी पुत्र वी. लक्ष्मी रेड्डी
			872/1	शुष्क	निजी भूमि	0.12	वी. सुधाकर रेड्डी पुत्र वी. लक्ष्मी रेड्डी
			879/2	शुष्क	निजी भूमि	1.00	निचेनामेटल सुबैया पुत्र रामी शेट्टी
			880/2	शुष्क	निजी भूमि	2.00	मन्नेयू. वेंकट लक्ष्मम्मा पुत्र रामी शेट्टी
			876/1	शुष्क	निजी भूमि	0.74	पयर्बम ओबीरेड्डी सुदर्शन रेड्डी पुत्र सूर्यनारायण रेड्डी
			882/2	शुष्क	निजी भूमि	2.00	येरुकल्ल, रंगन्नायकुलु पुत्र शंकराना वाई. हुसैनप्पा पुत्र सुनकन्ना
			869/2ए	शुष्क	निजी भूमि	0.40	वाडुगुरु बी. सर्वणा पुत्र पीडी. वीरप्पा के. अंजानाम्मा पुत्र हनुमांतु
			971	शुष्क	निजी भूमि	0.45	डी. तिरुपतम्मा पत्नी डी. वेंकट रमैया
			1086	शुष्क	सरकारी भूमि	1.78	यू.ए. डबल्यू

[फा. सं. भाराराप्रा/एनएस-2/एस-1/एलए/कुरनूल/2005]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th December, 2005

S.O. 1753(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1209(E), dated the 29th August, 2005, published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the public purpose of building (widening) of National Highway No. 7 from km 203.000 to km 293.000 (Hyderabad – Bangalore Section) in Kurnool District in the State of Andhra Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The New Indian Express" on the 9th October, 2005, and in "Eenadu" on the 8th October, 2005;

And whereas objections have been received from the persons interested in the land and the same have been disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Land to be acquired with or without structure falling on the stretch of land from Km 203.000 to Km 293.000 of National Highway No-7 (Hyderabad-Bangalore Section) in Kurnool District, in the State of Andhra Pradesh.

District: - Kurnool

Serial Number	Mandal	Name of village	Survey Number /Sub-division number	Classification	Type of land	Acquired area (Acres)	Name of the Owner/Other interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Krishnagiri	(1) Amakathadu	230/1B	Dry	Govt. Land	0.15	Koilakonda Laxmi Devi w/o. (late) Madanna
			230/2B	Dry	Govt. Land	0.14	Koilakonda Kistanna (Peesanna) S/O. Chinna Hanumanthu
			230/3B	Dry	Govt. Land	0.06	Talari Sheshanna S/n. Chinna Giddaiah
			230/4B	Dry	Govt. Land	0.05	Talari Yellappa S/o. Chinna Giddaiah
			231/1B	Dry	Govt. Land	0.06	Koilakonda Nagalaxmma W/o. (late) Kesanna
							Koilakonda Gopal S/o. Pedda Kistanna (Ural Ventrikallanna)

1	2	3	4	5	6	7	8
			231/2B	Dry	Govt. Land	0.07	Boya Appalaraju S/o Venkatesh
			231/3B	Dry	Govt. Land	0.11	Bodapati Srinivasulu S/o. Yellaiiah
			232/2	Dry	Govt. Land	0.60	Bodapati Hanumantha S/o. Yellaiiah Bodapati Brinivasulu S/o. Yellaiiah Bodapati Venkatesh S/o. Yellaiiah
			232/3	Dry	Govt. Land	0.02	Bodapati Hanumantha S/o. Yellaiiah Bodapati Brinivasulu S/o. Yellaiiah
			239/2	Dry	Govt. Land	11.34	Bodapati Venkatesh S/o. Yellaiiah Bodapati Hanumantha S/o. Yellaiiah Bodapati Brinivasulu S/o. Yellaiiah
			240/2	Dry	Govt. Land	0.04	Bodapati Hanumantha S/o. Yellaiiah Bodapati Brinivasulu S/o. Yellaiiah
			243/1	Dry	Govt. Land	0.06	Manikindi Sunkanna S/o V. Subbaiah
			244/1	Dry	Govt. Land	0.04	Manikindi Sunkanna S/o V. Subbaiah
			245/1	Dry	Govt. Land	1.02	Kollakonda Naidu S/o K. Gorantla Kollakonda Chalapathi S/o K. Gorantla Kollakonda Nagappa S/o K. Gorantla
			246/1	Dry	Govt. Land	0.62	Raja Sujatha W/o Raja Vijay Kumar
			247/1A	Dry	Govt. Land	0.27	Raja Sujatha W/o Raja Vijay Kumar
			247/2A	Dry	Govt. Land	0.51	Raja Sujatha W/o Raja Vijay Kumar
			249/1B	Dry	Govt. Land	0.25	J. Balaji S/o Vishwanatham J. Prasad S/o Padmanabhaiah Setty Manukindi Laxman S/o Sunkanna
			249/2B	Dry	Govt. Land	0.09	Manukindi Ramanjaneyulu S/o Sunkanna Manukindi Venkatesh Reddy S/o Sunkanna
			258A/1B	Dry	Govt. Land	0.15	Amakotla Road Boya Ranga S/o Pedda Jollanna
			258A/2B	Dry	Govt. Land	0.12	Boya Paparayudu S/o Chinna Jollanna Boya Thirupalu S/o Budda Venkatesh
			258A/3B	Dry	Govt. Land	0.13	Boya Paparayudu S/o Chinna Jollanna Karnati Anuradha W/o K. Srinivasulu (Dhone)
			258A/4B	Dry	Govt. Land	0.03	Karnati Anuradha W/o K. Srinivasulu (Dhone)
			258B/1B	Dry	Govt. Land	0.17	Karnati Anuradha W/o K. Srinivasulu (Dhone)
			258B/2B	Dry	Govt. Land	0.18	Raja Vijay Kumar S/o R. Subramanyam
			258B/3B	Dry	Govt. Land	0.19	Raja Vijay Kumar S/o R. Subramanyam
			259/2	Dry	Govt. Land	0.20	Manikindi Venkateshwarlu S/o Sunkanna Manikindi Laxman S/o Sunkanna Manikindi Sunkanna S/o Sunkanna
			261/1	Dry	Govt. Land	0.30	Amakotla Road Raja Sujatha W/o Raja Vijay Kumar
			262/1A	Dry	Govt. Land	2.37	Amakotla Road Raja Sujatha W/o Raja Vijay Kumar
			262/2A	Dry	Govt. Land	0.56	Amakotla Road Raja Sujatha W/o Raja Vijay Kumar
			263/1	Dry	Govt. Land	0.73	Amakotla Road Raja Sujatha W/o Raja Vijay Kumar
			265B/2	Dry	Govt. Land	0.37	Amakotla Road Raja Sujatha W/o Raja Vijay Kumar
			282/2	Dry	Private Land	0.63	Amakotla Road Raja Sujatha W/o Raja Vijay Kumar
			284/1A	Dry	Private Land	0.02	Amakotla Road Raja Sujatha W/o Raja Vijay Kumar
			284/2A	Dry	Private Land	0.02	Amakotla Road Raja Sujatha W/o Raja Vijay Kumar
			285/1A	Dry	Private Land	0.03	Amakotla Road Raja Sujatha W/o Raja Vijay Kumar
			285/2A	Dry	Private Land	0.03	Amakotla Road Raja Sujatha W/o Raja Vijay Kumar
			287/2	Dry	Private Land	0.44	Amakotla Road Raja Sujatha W/o Raja Vijay Kumar
			297B/2B	Dry	Private Land	0.60	Amakotla Road Raja Sujatha W/o Raja Vijay Kumar
			299/1A	Dry	Govt. Land	1.17	Amakotla Road Raja Sujatha W/o Raja Vijay Kumar

1	2	3	4	5	6	7	8
			71/1A1	Dry	Private Land	0.06	Inam
			71/1B1	Dry	Private Land	0.06	AP Carbide
			71/1C1	Dry	Private Land	0.24	Jaganatha Swamy
			72	Dry	Private Land	0.14	Sanjeeva Reddy
			74/1B	Dry	Private Land	0.06	AP Carbide
			74/2B	Dry	Private Land	2.24	Sanjeeva Reddy
			75/2	Dry	Private Land	1.08	Siva Reddy Nagar Plots Mane. Padmavathi Bai Mane. Shivaram Chandra Rao & Others
			106/2	Dry	Private Land	1.22	Ranga Reddy, Golla Lakshamma
			107/2	Dry	Private Land	1.32	Ranga Reddy
			109/2	Dry	Private Land	0.65	AP Ramaiah Yadav
			110/2	Dry	Private Land	0.76	K. Kantamma Sakina Bee Venu, Veeranjaneysulu Golla Sehamma Julekha Bee Krishna Veni Nageswaramma K. Thirupathaiah, Lakshmi, Puram Bhaskar Reddy, Subbaramaiah, Kuruva. Ayyanna, Chakali Ayyanna, Izrail, Nagesh, Rathaiah, Maddaiah, Ananthaiah
			111/2	Dry	Private Land	0.17	Golla. Achamma, Izrail
			113/2	Dry	Private Land	0.31	Devaputhra Madiga Gopal, Balaraju
			114/2	Dry	Govt. Land	0.96	Govt. Plots
			124/2	Dry	Private Land	0.18	Eswara Swamy Inam
			125/2	Dry	Govt. Land	0.07	Vaguporamboku
			126/A2	Dry	Private Land	0.42	Eswara Swamy Inam
			126/B2	Dry	Private Land	0.53	Eswara Swamy Inam
			131/2B	Dry	Govt. Land	0.54	Auto Mobile Training Centre
			133/2B	Dry	Govt. Land	0.92	Auto Mobile Training Centre
			137/1A2	Dry	Private Land	0.43	Kattamanchi Ramalinga Reddy School
			137/1B2	Dry	Private Land	0.40	S. B. Sankaraiah, Ganesh Granities
			138/2	Dry	Private Land	0.30	S. B. Sankaraiah, Ganesh Granities
			139/2	Dry	Private Land	0.73	Satya Prasad Reddy G. Krishna Reddy
			140/2	Dry	Private Land	0.71	Yellappa Janardhan Reddy Ranga Reddy Rajeswara Reddy
			153/2	Dry	Private Land	0.70	A. Venkateswarlu (Triveni Mineral Water) Subbarayudu Putur Venkateswarlu
			154/2	Dry	Private Land	0.48	Venkatanna, Jabbar, Rahiman, Srinivasa Rao
			155/2	Dry	Private Land	0.20	Gaddam Bushanna
			156A/2	Dry	Private Land	0.36	A. Venkateswarlu, Dr. Satyanarayana Pullaiah (Ravindra School) Ramudu, Pamanna
			157/2	Dry	Private Land	0.46	Maheswara Reddy, Zakir Hussain
			158/A2	Dry	Private Land	0.11	Venkateswara Reddy Granites
			158/B2	Dry	Private Land	0.11	Ramana Reddy Granites Kuruva Chinna Yellappa
			159/2	Dry	Private Land	0.17	Urukundu Granite Factory, Nadipenna Kalavathi, Varasidhi Granites Kuruva Chinna Ramudu, Kuruva Krishnudu, Sankar

1	2	3	4	5	6	7	8
			160/2	Dry	Private Land	0.15	Eswara Swamy Inam
			162/1A	Dry	Private Land	1.01	Eswara Swamy Inam
			165/1A	Dry	Private Land	0.51	Chinna Yellapa Krishna Reddy
			166/1	Dry	Private Land	0.51	Golla, Achamma & Others
			188/1A	Dry	Private Land	1.33	M. Shankar, G. Sitalaxmi, B. K. Achamma, Teacher Chennappa
			189/A1A	Dry	Private Land	1.26	Karunam Subba Rao, Laxmi Narasamma, Raghava Rao, Balaram Rao, Paramesh Rao, Shyam Rao, Ravinath Rao
			190/1A	Dry	Private Land	0.37	Khaja Mohiddin
			191/A1A	Dry	Private Land	0.63	Nabi Saheb, Chandravathamma, Chilikka Sesha Reddy, Ranga Reddy & Bhaskar
			192/1A	Dry	Private Land	0.18	Mareenna, Budda Giddaiah
			193/1	Dry	Govt. Land	0.14	Govt. Land
			205/1	Dry	Private Land	0.32	Chakali Yellappa
			206/1	Dry	Private Land	0.17	Krishna Reddy
			211/1A	Dry	Private Land	0.34	Ramachandra Reddy and Others
			212/1A	Dry	Private Land	0.40	Faizur Sulthana Subbarayudu Boya Sivaramudu
			281/A	Dry	Private Land	0.28	Nagaraju
			280/1A	Dry	Private Land	0.57	Sitarami Reddy Poultry Farm & Others Deudekula Khaja
			284/1A1	Dry	Private Land	0.03	Narayana Reddy
			284/1B1		Private Land	0.08	Chenna Reddy
			284/1C1	Red Soil	Private Land	0.31	P. Srinivasa Reddy & Others Mysoora Reddy Kranthi Transports (C. Venkateswara Rao) Nagaraju
			286/A1	Dry	Private Land	0.01	Dhana Reddy
			287/1A	Dry	Private Land	0.04	Ramakrishna Reddy
			293/1A	Dry	Private Land	0.12	Krishna Reddy
			294/1A	Dry	Private Land	0.06	Parvataneni Venkata Koteswara Rao (Navata Transport)
			295/1A	Dry	Private Land	0.03	Parvataneni Venkata Koteswara Rao (Navata Transport)
			296/1	Dry	Private Land	0.58	Parvataneni Venkata Koteswara Rao (Navata Transport) Nagamma Latha Suppliers Others
			305/1	Dry	Private Land	0.20	Plots
			306/1	Dry	Private Land	0.12	Plots
			307/1A1	Dry	Private Land	0.27	Sree Ramulu
3	Veldurthy	(1) Allugundu	290/1A	Dry	Private Land	0.23	B. Laxman Rao S/o. Venkatanna
			290/2A	Dry	Private Land	0.65	Thikkaiah Ramudu S/o. Thikkaiah Masum Saheb S/o. Divan Saheb
			289/1A	Dry	Private Land	0.81	A. Ramu S/o. Venkatanna Sarojamma W/o. Laxman Rao
			272/1A	Dry	Endowment	0.70	Venkateswara Swamy
			274/1	Dry	Private Land	0.65	B. Venkateswarlu S/o. Nadipi Sunkanna
			246/1A1	Dry	Private Land	0.32	Chakali Kesanna S/o. Dasthagiri Chakali Ramudu S/o. Sunkanna

2	3	4	5	6	7	8
		246/1B1	Dry	Private Land	0.30	Boggu Pullanna S/o. Yerranna
		249/1A1	Dry	Private Land	0.42	Thippanna S/o. Pd. Madanna
		249/1B1	Dry	Private Land	0.62	Burukala Maddaiah
		251/1A	Dry	Private Land	0.73	Laxmi Reddy S/o. Ranga Reddy
		253/1A	Dry	Private Land	0.27	Golla Nagamma W/o. Ramudu
		254/1A	Dry	Private Land	0.62	Golla Lingamma W/o. Linganna
		255/1A	Dry	Endowment	0.61	Peddamma Grama Devatha
		230/2	Dry	Endowment	1.06	Peddamma Grama Devatha
		232/2	Dry	Private Land	0.06	Avula Laxamma W/o. Kistanna
		233/2	Dry	Private Land	1.24	Avula Laxmi Devi W/o. Ramudu
		234/2	Dry	Private Land	0.68	Golla Yellamma D/o. Peddappa
		235/2	Dry	Private Land	1.28	Laxmi Reddy S/o. Ranga Reddy
		244/1B	Dry	Private Land	0.38	Madiga Dasthagiri S/o. Sayanna
		244/2B	Dry	Private Land	0.31	Madiga Dasthagiri S/o. Sayanna
		244/4B	Dry	Private Land	0.79	Thikkala Ramudu S/o. Thikkala
		243/1B	Dry	Private Land	0.66	Silakanti Yengamma W/o. Seelanna
		243/1B	Dry	Private Land	0.99	Venkata Reddy S/o. Venkata Rami Reddy
		242/2	Dry	Private Land	0.54	Veeraswaraiah
		277/2	Dry	Private Land	0.94	Gaji Madanna W/o. Naganna Gaji Yellappa S/o. Yellappa Gaji Madanna W/o. Ramudu
		276/2	Dry	Endowment	1.04	Venkatamma S/o. Venkatamma
		286/3B	Dry	Private Land	1.17	Laxman Rao S/o. Venkatamma A. Rama S/o. Venkatamma
		287/3B	Dry	Private Land	0.42	Boggu Ramanjaneyulu S/o. Yellappa Pd. Thimamma S/o. Yellappa
		287/2B	Dry	Private Land	0.47	Dasthagiri S/o. Usenappa Boggu Thimamma S/o. Pullanna
		287/1B	Dry	Private Land	1.02	Boya Bhaskar S/o. Saranath Boya Peddalaiah S/o. Saranath Gaji Venkata Ramudu S/o. Bugganna Dasarathudu S/o. Bugganna Gaji Govind S/o. Bugganna
		293/1A	Dry	Govt. Land	0.12	Vagu Poramboke
		251/1A	Dry	Govt. Land	0.16	Vagu Poramboke
		256/1A	Dry	Govt. Land	0.01	A. W.
		236/2	Dry	Govt. Land	0.14	Vagu Poramboke
		279/3B	Dry	Govt. Land	0.12	A. W.
	(2) Sudcpalli	15/2	Dry	Private Land	1.15	P. Raja Gopal S/o. Madanna V. Venkata Ramadu S/o. Madanna
		16/A/3B	Dry	Private Land	0.31	Pula Sunkulamma W/o. Ramudu
		16/B/3B	Dry	Private Land	0.27	Pula Sunkulamma W/o. Ramudu
		17/A2B	Dry	Private Land	0.11	Pinjari Bazaru
		17/A3B	Dry	Private Land	0.09	Dasthagiri S/o. Pakkeera
		17/B2	Dry	Private Land	0.44	V. Annamma W/o. Naganna
		18/2	Dry	Private Land	0.41	V. Annamma W/o. Naganna
		19/2	Dry	Private Land	0.34	Mohaboob Bee W/o. S. A. Rahman
		20/A2	Dry	Private Land	0.5	Pillikandla Mohammed
		20/B2	Dry	Private Land	0.29	Pillikandla Mohammed
		52/2	Dry	Wakf Land	1.29	Mazeed Inam
		53/2	Dry	Private Land	1.22	N. Janardhan S/o. Krishnamacharulu
		54/B2	Dry	Govt. Land	0.01	A. W.

1	2	3	4	5	6	7	8
			55/B1A2	Dry	Private Land	0.42	N. Padmavathi W/o. Janardhan
			55/B1B2	Dry	Private Land	0.31	Gampanethi Laxmanna S/o. Hanumanna
			55/B1B3	Dry	Private Land	0.01	Gampanethi Laxmanna S/o. Hanumanna
			55/B2B	Dry	Private Land	0.25	Gampanethi Laxmanna S/o. Hanumanna
			69/1B	Dry	Private Land	0.66	Mekala Madhava Krishna S/o. Sukanna
			69/2B	Dry	Private Land	0.28	Rama Laxmamma W/o. Laxmanna
			69/3B	Dry	Private Land	0.16	Yella Ramudu S/o. Yellaiah
							Koilakonda Boya Gopal
			67/2	Dry	Wakf Land	1.08	Masid Inam
			66/2	Dry	Private Land	0.34	Ramanjaneyulu S/o. Sri Ramulu
							Koilakonda Kistanna S/o. Gorantla
			65/2	Dry	Private Land	0.37	M. Ramanjaneyulu S/o. Sri Ramulu
							Vadde Bazar S/o. Yellappa
			126/1	Dry	Private Land	1.46	Idur Basha S/o. Bademiah
							B. Nagamma W/o. Naganna
			123/1	Dry	Private Land	2.26	M. Krishna Murthy S/o. Venkata Ramudu
							M. Ramaiah S/o. Naganna
							M. Maddaiah S/o. Ch. Yellappa
			121/1A	Dry	Private Land	0.88	Shaikshavali S/o. Babaiah
			129/2A/1A	Dry	Private Land	0.44	Bashu Saheb
			120/A/1A	Dry	Private Land	0.21	Boya Madanna S/o. Thimmanna
			120/A/2A	Dry	Private Land	0.19	Boya Madanna S/o. Thimmanna
			* 120/B/1A	Dry	Private Land	0.57	Veera Chari S/o. Nagaiah
			120/B/2A	Dry	Private Land	0.55	Pinjari Allemma W/o. Moulali
			119/1A	Dry	Private Land	1.01	Madiga Suwarthamma
			118/1	Dry	Private Land	0.85	Kuruva Sunkanna S/o. Bojjanna
			108/1	Dry	Masjid Inam	4.14	Masid Inam
			97/B1	Dry	Govt. Land	1.80	A. W.
			95/1	Dry	Govt. Land	0.48	A. W.
							Gampanethi Pd. Yellaiah S/o. Venkatanna
			82/A1	Dry	Private Land	1.12	Gampanethi Ch. Yellaiah S/o. Venkatanna
							Vadde Yellappa S/o. Bazaru
							Boya Talari Parasu Ramudu
			82/B1	Dry	Govt. Land	0.03	A. W.
			78/1	Dry	Masjid Inam	1.54	Masid Inam
							Boya Ramakka W/o. Venkatanna
			79/1	Dry	Private Land	1.69	Boya Ramudu S/o. Madanna
							Boya Ranganna S/o. Madanna
							Koilakonda Kistanna S/o. Hanumanthu
							Gampanethi Ramanjaneyulu
			71/1	Dry	Private Land	1.30	Bazarugari Ramudu S/o. Bazaru
			268/1	Dry	Govt. Land	0.13	Govt Bund Pamboke
			269/1	Dry	Private Land	1.00	Kattkali Bazaramma W/o. Bazar
			271/A1	Dry	Private Land	0.11	Gampanethi Hanumanthu alias Rogenna
		(3) Bommireddy Palli	246/2	Dry	Private Land	0.56	Chakrapaneswara Reddy S/o. Gidda Reddy
			247/2	Dry	Private Land	1.25	Chakrapaneswara Reddy S/o. Gidda Reddy
			248/3B	Dry	Private Land	1.22	Maresh S/o. Kuruva Pala Ch. Maddilety
			249/2	Dry	Private Land	0.45	N. Jagan Mohan Reddy S/o. Yella Reddy
			252/1B	Dry	Private Land	0.01	Revindra S/o. Naidu
							Ananthamma W/o. Rami Reddy
			253/2B	Dry	Private Land	0.50	Jaya Ramudu S/o. Narayana
			253/1B	Dry	Private Land	0.48	Jaya Ramudu S/o. Narayana

2	3	4	5	6	7	8
		254/2	Dry	Private Land	1.30	Naidu S/o. Ch. Sanjappa Nalla Hanumanna S/o. Yellappa Pd. Bazaru S/o. Yellappa Pd. Hanumanna S/o. Yellappa Boya Yerranna S/o. Pd. Hanumanna P. Nabi Saheb S/o. Dasthagiri Dabbari Naidu S/o. Laxmamma M. Giddaiah S/o. Krishnu Pinjari Maddileti S/o. Kamal Saheb
		265/2B	Dry	Private Land	0.91	M. Bhaskar S/o. Gurrappa M. Ramanjaneyulu S/o. Gurrappa M. Hanumanthu S/o. Gurrappa Subba Rayudu S/o. Gurrappa
		266/2B	Dry	Private Land	0.01	Nageswaramma W/o. Laxmi Reddy
		266/3B	Dry	Private Land	0.10	Nageswaramma W/o. Laxmi Reddy
		266/4B	Dry	Private Land	0.19	Rama Chandrudu S/o. Karrenna
		266/5B	Dry	Private Land	0.26	Murthamma W/o. Lalu
		266/6	Dry	Private Land	0.08	Naidu S/o. Ch. Sanjappa
		267/2	Dry	Private Land	0.91	Naidu S/o. Ch. Sanjappa
		279/2B	Dry	Private Land	1.11	Ananthamma W/o. Rami Reddy
		282/2A	Dry	Private Land	0.69	Kodandapani S/o. Ch. Lingaiah Adi Laxmamma W/o. Ramudu
		282/1A	Dry	Railway	0.02	Railway Quarters
		285/1C1	Dry	Private Land	0.29	G. Krishnu S/o. Yellappa G. Adi Laxmma W/o. Ramudu
		310/1A	Dry	Private Land	0.54	Hafeez Rehman S/o. Abdul Sathar
		310/2A1	Dry	Private Land	0.05	Madhu Sudhan goud S/o. Bhushanna Goud
		310/2F1	Dry	Private Land	0.05	Madhu Sudhan goud S/o. Bhushanna Goud
		310/2B1	Dry	Private Land	0.05	Nese Peddaiah S/o. Ramudu
		310/2D1	Dry	Private Land	0.05	Salauddin
		311/1	Dry	Private Land	0.26	Vishnu Varthan Reddy S/o. Nara Simha Reddy Pd. Pamaiah S/o. Madanna Ch. Ramudu S/o. Madanna Sathyamma W/o. Ch. Ramudu Pd. Pammaiah S/o. Madanna
		312/1	Dry	Private Land	0.19	Naidu S/o. Subbaiah Ramesh S/o. Hanumanthaiah
		319/2A	Dry	Private Land	0.69	Giddaiah S/o. Krishnu M. Gopal S/o. Krishnu Nagamma D/o. Chakali Hanumanthu Parvathamma W/o. Rami Reddy
		320/2A	Dry	Private Land	0.27	Parvathamma W/o. Rami Reddy
		321/1	Dry	Private Land	0.53	K. Kannaiah Rama Krishna Reddy
		322/1	Dry	Private Land	0.73	Maddilety (alias) Madhu S/o. Kuruva pala Ch. Maddilety
		323/1	Dry	Private Land	0.63	B. Koteswara Reddy S/o. Gidda Reddy
		324/1	Dry	Private Land	0.29	B. Koteswara Reddy S/o. Gidda Reddy
		255/2	Dry	Govt. Land	0.06	Rastha Poramboke
		278/2	Dry	Govt. Land	0.54	A. W.
		280/2	Dry	Govt. Land	0.50	A. W.
		309/1A	Dry	Govt. Land	0.11	Vagu Poramboke
		313/2A	Dry	Govt. Land	0.03	Rastha Poramboke

1	2	3	4	5	6	7	8
		A. Veldurthy	28/2B	Dry	Private Land	0.47	B. Madana Sekhar S/o. Krishna Murthy
			28/3B	Dry	Private Land	0.29	K. Rama Bhupal Reddy S/o. Venkata Reddy
			29/2	Dry	Govt. Land	0.12	Vagu
			30/1B	Dry	Private Land	0.19	B. Mallikarjuna S/o. Ch. Ramudu
			30/2B	Dry	Private Land	0.01	Pd. Raju
							B. Narayana S/o. Maddilety
							Vadla Maddaiah
							G. Venkata Ramanna S/o. Kesalu
							Rama Chandra Rao S/o. Ch. Ramaiah
							B. Giddaiah S/o. Hanumanthu
							B. Peddanna S/o. Ch. Ramaiah
							Ramudu S/o. Kistanna
							B. Raveendranath S/o. Maddilety
			31/2	Dry	Private Land	0.30	Rambhupal Reddy S/o. Venkata Reddy
							M. Ramaiah S/o. Nadipi Naganna
							Pala Raju S/o. Kistanna
							Karimma W/o. Somanna
							Sunkulamma W/o. Ramanna
							Pola Hanumanthu S/o. Ch. Rnaganna
							Boya Rama Chandrudu S/o. Ch. Pullanna
							Boya Pullanna S/o. Yerra Hanumanthu
							Bantroth Anjanamma W/o. Maddilety
							M. P. Ele. School
			34/2A2	Dry	Private Land	0.12	Madduru Gopi S/o. Krishna Murthy
			34/4B2	Dry	Private Land	0.13	M. Krishna Murthy S/o. Ramanna
			35/1B	Dry	Endowment	0.03	Rajeswari Devatha
			37/10B	Dry	Private Land	0.38	Bellam Laxmaiah
			37/11A2	Dry	Private Land	0.32	Boya Sunkulamma
			38/2	Dry	Govt. Land	0.16	A. W.
			39/2	Dry	Private Land	0.23	K. Rama Bhupal Reddy S/o. Venkata Reddy
			40/1B	Dry	Private Land	0.72	M. Ramudu S/o. Naganna
			40/2B	Dry	Private Land	0.74	Murali Krishna Naidu S/o. Venkata Rathnam Naidu
			42/2	Dry	Private Land	0.50	Katika Bademma W/o. Gokari
			41/1B	Dry	Private Land	0.41	Chakali Sunkanna
			41/3B	Dry	Private Land	0.68	M. B. Soma Raju
							Ramanjaneyulu
			103/8B	Dry	Private Land	0.48	K. Usman Basha S/o. Masum
			103/11B	Dry	Private Land	0.76	K. Khaja Hussain S/o. Masum
			104/3B	Dry	Private Land	1.90	Laxmi Narsaiah
			104/4B	Dry	Private Land	0.43	B. Venkatanars Naidu S/o. Rama Gopal Naidu
			104/5B	Dry	Private Land	0.55	B. Venkatanars Naidu S/o. Rama Gopal Naidu
			114/2	Dry	Govt. Land	0.14	Poramboke
			43/2	Dry	Endowment	0.86	Rajeswari Devatha
			102/3B	Dry	Private Land	1.72	Mangali Maddaiah S/o. Maddilety
							Mangali Thikkaiah
			379/1	Dry	Endowment	0.67	Ramaswamy devata
			706/1B1	Dry	Private Land	0.24	Narayana Reddy
			706/2A	Dry	Private Land	0.20	Narayana Reddy
			360/1B	Dry	Govt. Land	0.06	Vagu
			361/1B	Dry	Endowment	0.93	Ramaswamy devata
			362/A1B	Dry	Private Land	0.26	Golla Anjaneyulu

1	2	3	4	5	6	7	8
			362/A2B	Dry	Private Land	0.21	K. Madaga Mohan S/o. Pala Maddaiah
			362/A3B	Dry	Private Land	0.23	N. Jamma W/o. Badusha
			362/A4B	Dry	Private Land	0.16	Yellamma W/o. Pakirappa
			362/A6B	Dry	Private Land	0.44	Kolla Harshvardhan Reddy
			362/B2	Dry	Private Land	0.50	T. Ramiah S/o. Sivaiah
							T. Narayana S/o. Sivaiah
							T. Venkateswara
							E. Seshiah
							T. Hanumanth Reddy
			683/1A	Dry	Private Land	0.24	K. Prasad Reddy S/o. Veera Raghava Reddy
			687/1	Dry	Private Land	0.55	Krishna Venkata
			692/1A	Dry	Private Land	1.02	Ch. Anjanayulu, Mala Yellamma, Dasari Pd. Kesanna, Kolla Sharfiah, Vadia Ramudu, Jattenn.
			693/1A	Dry	Private Land	0.78	Badrunnisha
			696/1	Dry	Private Land	0.45	Mala Ch. Maddaiah
							Chakali Somanna
							Chakali Nadi
							Maddaiah
							Chakali Thirupal
			697/1	Dry	Private Land	0.62	Mulla Gafqormiah S/o. Ibrahim
			700/1A	Dry	Private Land	0.65	T. Siva Reddy S/o. Chinna Reddy
							Gangadhar Reddy
							Veera Reddy
							Bellam Rama Seshu
			701/1A	Dry	Private Land	1.03	Bellam Venkata Ramana S/o. Narayana
							B. Giddaiah
							B. Madanna S/o. Ch. Seshanna
							B. Laxmaiah
			707/1B1	Dry	Private Land	0.02	Narayana Reddy S/o. Thirupathi Reddy
			707/2B1	Dry	Private Land	0.04	Eeshwar Reddy S/o. Hanumanth Reddy
			707/3B1	Dry	Private Land	0.07	Seshi Reddy S/o. Venkata Reddy
			707/4B1	Dry	Private Land	0.03	Rambhupal Reddy
			709/1	Dry	Govt. Land	0.10	Peramboke
			710/1	Dry	Private	0.46	Narayana Reddy
							Eeshwar Reddy
							Venkata Ram Reddy
			718/1	Dry	Govt. Land	6.33	A.W.
			712/1	Dry	Private Land	0.89	Venkata Ramana
							Prasad Reddy S/o. Hasan
							Pullanna W/o. Madhulaty
							Venkata Ram S/o. Yellappa
							Prasad Reddy S/o. Kareem
							Rama Lakshmi S/o. Pd. Seshanna
							S. Anjanayulu S/o. Thimmappa
							Venkata Ram S/o. Sanjanna
							Prasad Reddy S/o. Krishnaphar
							Prasad Reddy S/o. Sivaiah
4	Dhone	(1) Udumalapedu	178/2	Dry	Govt. Land	1.11	Prasad Reddy S/o. Sivaiah
			185/2	Dry	Private Land	0.25	Prasad Reddy S/o. Chinna Piddanna
			189/1B	Dry	Private Land	0.89	S. V. Prasad Reddy S/o. Narayana Reddy
			189/2B	Dry	Private Land	0.12	Prasad Reddy S/o. Gopanna

1	2	3	4	5	6	7	8
			222/2	Dry	Govt. Land	0.99	Talari Sanjeevudu S/o. Anumanthu Gangaiah Goud S/o. Nagesham Goud Balapanuru Narayana Reddy S/o. Venkata Reddy Koyakonda Chinna Maddilety@Karennna S/o. Lakshmanna Koyalakonda Sudhakar S/o. Dubanna Uppari Lakshmanna S/o. Peddanna Uppari Thirupataiah S/o. Peddanna Rama Naidu S/o. Chinna Pakkira Krishna S/o. Pedda Pakkira Chinna Lakshminarayana S/o. Maddilety Pedda Lakshminarayana S/o. Maddilety Peramala Venkateshwari S/o. Maddilety Mala Kasanna S/o. Ranganna Kuna Srikanth S/o. Satyanarayana Mala Narayana S/o. Ranganna Mala Salamma W/o. Peddaiah Mala Nagaraju S/o. Peddanna Mala Shankar S/o. Peddanna Krishna Murthy S/o. Late Pakkira Dhara Lakshminarayana S/o. Late Rangaiah Subbaiah S/o. Ramasubbaiah Mangali Venkateshwari S/o. Late Naganna Koyalakonda Anjanamma W/o. Late Ramudu Mala Muni Swamy S/o. Narayana Balakondanna S/o. Chinna Naganna Yerramala S/o. Chinna Naganna Community Hall Maremma Temple Ayyanna S/o. Dasthagiri Maddilety S/o. China Ayyanna M. Krishnudu S/o. Late Ramudu Boya Ramanjaneyulu S/o. Chinna Pakkira M. Pulikonda Ayyanna S/o. Akkanna Ramudu S/o. Akkanna Maremma W/o. Akkanna Ayyanna S/o. Pedda Ayyanna
			225/B2B	Dry	Private Land	0.22	Madiga Pakkira S/o. Pedda Ayyanna M. Dastagiramma W/o. Ramanjaneyulu Devaraju S/o. Late Lakshmanna Ramanjaneyulu S/o. Lakshmanna Annamma W/o. Samelu Pedda Hanumanthu S/o. Kollari Yaramala S/o. Late Kollari Chinna Hanumanthu S/o. Kollari Uppari Venkataramudu S/o. Narayana U. Nagaraju S/o. Narayana
			225/B3B	Dry	Private Land	0.20	Salamma W/o. Late Venkateshwari U. Shekhar S/o. Narayana Pedda S/o. Narayana MPUP School Lakshminanth Reddy S/o. Venkata Reddy
							Talari Hanumanthu S/o. Gopanna Ramanjaneyulu S/o. Chinna Pakkira Achchanna S/o. Boya Chinna Pakkira

2	3	4	5	6	7	8
		238/2	Dry	Private Land	0.37	Chinna Achannagari Krishna Murthy S/o. Pedda Pakkara Maddilety Swamy S/o. Koyala Konda Dubbanna Koyalakonda Pedda Maddilety@Jadalanna S/o. Pedda Maddilety Govindula Mala Narayana and Hussain S/o. Ranganna
		239/2	Dry	Private Land	0.37	Shegu Anjaneyulu S/o. Narayana Setty Bachu Subbaiah S/o. Ramaiah Rajini Kumari W/o. Patalam Subbarao
		243/2	Dry	Private Land	0.21	Rajini Kumari W/o. Patalam Subbarao Patalam Chinna Subba Rao S/o. Venkateshwarlu
		244/2	Dry	Private Land	1.00	Uppari Nagendra S/o. Sunkanna U. Maddilety Swamy S/o. Sunkanna U. Ramanjaneyulu S/o. Sunkanna Jonnalagadda Viswanatham S/o. Padmanabaiah Makam Girijamani W/o. Krishna Anjanayulu Makam Anjaneyulu
		245/2	Dry	Private Land	0.73	J. V. Chalapathi S/o. Late Jayanthi Krishna Murthy Satyanarayana S/o. Late Jayanthi Krishna Murthy
		246/2	Dry	Private Land	0.96	L. Hassan Khan S/o. Reddy Mabhukhan
		247/2	Dry	Private Land	0.02	L. Hassan Khan S/o. Reddy Mabhukhan
		264/2	Dry	Private Land	0.32	L. Hassan Khan S/o. Reddy Mabhukhan
		265/2B	Dry	Private Land	0.88	D. Panduranga Reddy S/o. Pulla Reddy Venkatarami Reddy S/o. J. V. Subba Reddy Jamal Saheb S/o. Chinna Jamal Saheb Lavanya W/o. Chandra Shekhar Kalla Raja Reddy S/o. Madhava Reddy Gaikuada Hanumantha Rao S/o. Rangaiah A. C. Subbamma W/o. A. C. Venkatesh A. C. Venkatesh S/o. Ambati Pulanna Gangaiah Goud S/o. Nagesham Goud Sunkara Venkata Subbaiah Srinivasulu S/o. Maddaiah Gnyaana Jyothi W/o. Parthasaradhi D. Krishna Reddy S/o. Obula Reddy B. Lakshmi Devi W/o. Jaya Ramudu Ala Shailaja W/o. Murali Mohan Reddy Bachu Joshama Devi W/o. Jaya Shelanna Gaiqward Hanumantha Rao S/o. Rangaiah
		267/2	Dry	Private Land	0.72	Gunda Lalithamma W/o. Seetaramaiah
		268/2	Dry	Private Land	0.49	Gunda Lalithamma W/o. Seetaramaiah
		269/B1B	Dry	Private Land	0.09	Raja Vijaya Kumar S/o. Subramanyam
		269/B2A2	Dry	Private Land	0.13	B. Koteswara Reddy S/o. Sanjeeva Reddy
		269/B2B2	Dry	Private Land	0.94	B. Koteswara Reddy S/o. Sanjeeva Reddy
		270/1A2	Dry	Endowment	0.39	
		350/1A	Dry	Govt. Land	0.77	Gangaiah Goud S/o. Nagesham Goud Talari Maddilety S/o. Thimmaiah K. Srinivasulu S/o. Subbaraidu
		350/2A	Dry	Govt. Land	0.25	Koppurapu Ratnamaiah S/o. Subbaraidu
		349/1	Dry	Private Land	0.32	Mettupalli Ramakrishnaiah
		343/E1/A1A	Dry	Govt. Land	0.46	Gurvala Sheshanna S/o. Chennappa
		325/1	Dry	Private Land	0.18	Koppurapu Venkateshwarlu S/o. Subbaraidu
		324/1	Dry	Govt. Land	0.31	Bunai Ground
		323/1	Dry	Endowment	0.44	Eswar Swamy Temple
		322/1B1	Dry	Private Land	0.10	Venkateshwarlu S/o. Subbaraidu
		322/2B1	Dry	Private Land	0.04	Middepalli Balamma W/o. Peddanna
		322/3B1	Dry	Private Land	0.05	Ramanaidu S/o. Sheshanna

1	2	3	4	5	6	7	8
			322/6B1	Dry	Private Land	0.05	Peddanna@Nakkanna S/o. Sotta Peddanna
			322/7B1	Dry	Private Land	0.04	Ramanjaneyulu S/o. Late Bingi Rammanna
			322/8B1	Dry	Private Land	0.04	Boya Bangi Padmavathamma W/o. Bangi Pullaiah
			322/9B1	Dry	Private Land	0.05	Papaiahgari Boya Thimmakka W/o. Late Peddanna
			322/10B1	Dry	Private Land	0.05	Papalahgari Boya Thimmakka W/o. Late Peddanna
			322/11B1	Dry	Private Land	0.05	Papaiahgari Boya Narayana S/o. Late Papaiah
			322/12B	Dry	Private Land	0.07	Dadiyala Boya Venkata Lakshamma
			322/13B1	Dry	Private Land	0.12	Talari Boya Pedda Maddilety S/o. Late Thimmanna
			320/2B1	Dry	Private Land	0.10	Talari Pedda Maddilety S/o. Late Thimmanna
			313/A1A	Dry	Private Land	0.20	Pujari Nambi Rangaiah S/o. Thimmaiah
			313/A3A	Dry	Private Land	0.07	Boya Hanumanthu S/o. Gopanna
			313/A7A	Dry	Private Land	0.04	Boya Hanumanthu S/o. Gopanna
							Vedde Thirupalu S/o. Naganna
							G. Ramesh S/o. Maddaiah
							Boya Yellappagari Madaiah S/o. Madanna
							Madesu Ediga Eswaraiah S/o. Veeriah Gou
							Ediga Subbaiah S/o. Eswaraiah
							Papaiahgari Yellamada S/o. Nattayya
							Boya Thimmakka S/o. Peddanna
							Madaiah S/o. Jadalanna
							Papaiahgari Boya Narayana S/o. Late Papaiah
							Papaiahgari Boya Thirupalu S/o. Late Peddanna
							Ibannagari Pedda Obulesu S/o. Sunkanna
							Yellappagari Madaiah S/o. Rammanna
							Yellappagari Pedda Gorentla S/o. Rammanna
							Boya Yellapagari Gorentla S/o. Chinna Madaiah
							Obannagari Sunkanna S/o. Late Obenna
							Chinna Obulesu S/o. Sunkanna
							Uppari Nagendrudu S/o. Late Sunkanna
							Shivanarayana S/o. Balaiah
							Jangam chandra Sekharaiah S/o. Balaiah
							Joturi Krishna Murthy S/o. Late Madaiah
							Koyalakonda Pedda Maddilety@ Dubbanna S/o. Lakshmanna
							Bandula Doddi
							Aswarth Narayana Katta
							T.V. Devakar Reddy S/o. TR. Venkata Reddy
							T. V.A. Padmanabha Reddy S/o. T.V.R. Venkata Reddy
							Panchayat Office
							Gram Chavidi
							Bus Shelter
							Satram
			313/B3A	Dry	Govt. Land	0.01	Jangam Siddamma W/o. Jangam Balaiah
			313/B4A	Dry	Govt. Land	0.05	Uppari Ramanjaneyulu S/o. Narayana
							Obulannagari Sunkanna S/o. Obanna
			314/t	Dry	Private Land	0.03	T. V.A. Pedmanabha Reddy S/o. T.V.R. Venkata Reddy
							Mala Lakshmi Davi W/o. Mala Nagaraju
							Madiga Chinna Obulesu W/o. Obvaraju
							M. Yellamma W/o. Pottala Madanna
							M. Lakshamma W/o. Shankar
							M. Sanjamma W/o. Yerranna
			293/H41	Dry	Private Land	0.31	M. Lakshamma W/o. Chanti

1	2	3	4	5	6	7	8
							Lakshmi Devi W/o. Risha Naganna M. Sathyamma W/o. Pedda Madanna Kanthamma W/o. Hanumanthu M. Ramakka W/o. Ramudu Parvathamamma W/o. Pakkiraiah
			293/1B1	Dry	Private Land	0.45	Subramanyam S/o. Venkataramanaiah Raja Srinivasulu S/o. Venkataramanaiah Mallikarjuna Rao
			293/2A	Dry	Private Land	0.05	Kalla Pratap Reddy S/o. Hanumantha Reddy
			293/3A	Dry	Private Land	0.38	Chippagiri Prasad S/o. Subramanyam Patalam Subbarao S/o. Venkateshwarlu Munnaluru Ravi Kumar W/o. Venkataperaiiah Tavva Sujatha W/o. Venkateshwarlu Rachuri Asha Jyothi W/o. Nata Raju Raja Srinivasulu S/o. Venkataramanaiah
			292/1A1	Dry	Private Land	0.01	G. Gurupadaiah S/o. Suryanarayana Setty
			291/A2A	Dry	Govt. Land	0.28	Govt.
			291/A1A	Dry	Govt. Land	0.01	Govt.
			291/A2C	Dry	Govt. Land	0.04	Govt.
			290/1	Dry	Private Land	0.32	Raja Sheshphani Shetty S/o. Venkataramanaiah Subramanyam S/o. Venkataramanaiah Chinna Subramanyam S/o. Venkataramanaiah Venkata Subbanna S/o. Venkataramanaiah Srinivasulu S/o. Venkataramanaiah Maddilety and Satyarayana Rao S/o. Kondala Rao Lic. Thimmaiah S/o. Papaiah Kullayappa S/o. Hanumantha Reddy Gaiquada Hanumantha Rao S/o. Rangaiah N.V.S. Narasimhulu and Lakshmi Prasad S/o. Lakshminarasimhulu
			275/1A	Dry	Private Land	0.10	Raja Sheshphani Shetty S/o. Venkataramanaiah R. Srinivasulu S/o. Venkataramanaiah J. Mohana Guptha S/o. Venkataramanaiah
			275/2A1	Dry	Private Land	0.06	Vadde Anjanamma W/o. Pandurangaiah B. Jayaramudu S/o. Peddanna Vadde Giramma W/o. Yella Anjaneyulu V. Naga Raju S/o. Late Malla Ananayulu
			275/2B1	Dry	Private Land	0.05	Dattatreya Swamy Temple
			275/1C	Dry	Private Land	0.17	Raja Sheshphani Shetty S/o. Venkataramanaiah K.V. Krishna Murthy S/o. Late Venkata Setty
			274/1	Dry	Private Land	0.47	Kotrete Krishna Murthy Reddy and borthers S/o. Venkata Setty P. Shankarappa S/o. Papaiah 1. Dharmakkagari Yella Nagaiah S/o. Yellaiah 2. Dharmakkagari Krishnavenamma W/o. Yellanagaiah 1. Yerukala Dhudevi W/o. Rogenna 2. Kalamgiri Srinivasulu S/o. Kalamgiri 3. Venkataramudu S/o. Rogenna Bachu Subbaiah S/o. Venkataramaiah Shankarappa S/o. Papaiah 1. E. Maddaiah S/o. Anjaneya 2. Madhavi W/o. Maddaiah Shankarappa S/o. Papaiah Thirupathamma W/o. Jaya Chandra Babu 1. Venkataramudu S/o. Venkateshwarlu 2. Sriramulu S/o. Venkateshwarlu Gaiquada Hanumantha Rao S/o. Rangaiah Reddies Educational Socity, Kotla Bhavan Jayarami Reddy S/o. Battula Rangamuni Reddy

1	2	3	4	5	6	7	8
			273/1	Dry	Private Land	0.35	Bhaseera Begum W/o. Assan Khan P. Moulali S/o. Mohhiddin Sab K. Rama Krishna S/o. Boya Ramachandrudu B. Kullayappa S/o. Anumantha Reddy Yerukali T. Sriramulu S/o. Ramudu B. Maddaiah S/o. Ananthaiah K. Rama Krishna S/o. Boya Ramachandrudu B. Venkataramudu S/o. Naganna B. Kullayappa S/o. Anumantha Reddy B. Ramanjaneyulu S/o. Sriramulu B. Shaik Sha Vali S/o. B. Ramanjaneyulu D. Venkatesh S/o. Kullayappa Maddaiah S/o. Subbanna 2. K. Venkateshwari S/o. Subbanna P. Moulali S/o. Mohhiddin Sab D. Venkatesh and Vijay Kumar S/o. Kullayappa
	(2) Devarabanda		745/2	Dry	Private Land	0.48	G. Srinivasulu S/o. Rama Krishnaiah
			743/2B	Dry	Private Land	0.26	Singuppa Nageshwaramma W/o. Krishna Murthy
			738/2	Dry	Govt. Land	0.44	Ratnam Andalu W/o. Vijaya Kumar
			737/2B	Dry	Govt. Land	0.22	Ratnam Baby Bharathi W/o. Ratnam Babu Jayaram Krishna Prasad
			737/1B	Dry	Govt. Land	0.10	Ratnam Andalu W/o. Vijaya Kumar
			734/2B2B	Dry	Govt. Land	0.10	Marri Ratnam Andalu W/o. Vijaya Kumar Bus Shelter-01
			734/2B1B	Dry	Govt. Land	0.01	Government Land
			713/1B	Dry	Govt. Land	0.36	Belom Chennamma D/o. Late Narayana Reddy
			713/2B	Dry	Govt. Land	0.65	Belom Raghava Reddy S/o. B. Chenna Reddy
			712/2	Dry	Endowment	0.38	Endowment
			709/2	Dry	Endowment	0.35	Endowment
			705/2	Dry	Private Land	0.84	Madiga Batina Mallikarjuna S/o. Late Thimmanna Batina Balanna S/o. Thimmanna Batina Nagaraju S/o. Late Thimmanna Telugu Nasani Naidipi Sunkanna S/o. Pedda Sunkanna
			704/2	Dry	Private Land	0.51	Nasani Naidipi Sunkanna S/o. Pedda Sunkanna K. Siddamma W/o. Kotharama Subbaiah S. Naidipi Sunkanna S/o. Thippaiah
			703/2	Dry	Govt. Land	0.60	Ramulamma W/o. Late Giddaiah Yerukala Chinna Sunkanna S/o. Thimmaiah
			701/2	Dry	Private Land	0.50	Srinivasulu S/o. S. Naidipi Sunkanna
			700/1B	Dry	Private Land	0.20	Penugonda Naidipi Sunkanna S/o. Buddanna
			237/2	Dry	Private Land	0.17	Already Acquired for NH-7
			236/2	Dry	Private Land	0.77	Already Acquired for NH-7
			235/B	Dry	Private Land	0.41	Already Acquired for NH-7
			231/B/2B	Dry	Govt. Land	0.42	Government Land
			235/A	Dry	Private Land	0.54	Already Acquired for NH-7
			232/2	Dry	Govt. Land	0.08	Already Acquired for NH-7
			233/2B	Dry	Private Land	0.23	G. Sarojamma W/o. Gowdappa gari Satyanarayana Reddy
			209/2	Dry	Private Land	0.16	G. Sarojamma W/o. Gowdappa gari Satyanarayana Reddy
			208/1B	Dry	Govt. Land	0.17	Raja Subramanyam S/o. Raja Venkataramanaiah
			207/2	Dry	Govt. Land	0.41	Yerrapati Suseelamma W/o. Venkateshwara Reddy
			206/1B	Dry	Govt. Land	0.26	Government Land

1	2	3	4	5	6	7	8
			206/2B	Dry	Govt. Land	0.12	Tamatom Parvathamamma W/o. Late Narayana Goud
			196/2	Dry	Private Land	1.11	Hassan Khan S/o. Reddy Mabukian Maheswara Reddy S/o. Satyanarayana Reddy
			185/1B	Dry	Private Land	0.04	R.E. Sarala Devi W/o. R.E. Ravi Kumar R.E. Eswaramma W/o. Ram Murthy R.E. Ragamma W/o. Lakshmana swamy
			185/2B	Dry	Private Land	0.22	R.E. Sarala Devi W/o. R.E. Ravi Kumar R.E. Eswaramma W/o. Ram Murthy R.E. Ragamma W/o. Lakshmana swamy
			107/1	Dry	Private Land	1.28	Suryanarayana Goud S/o. Lakshmananna Padmavathi W/o. Late Chalapathi
			108/1A	Dry	Private Land	0.44	Malleswara Reddy S/o. Late Konda Reddy Mula Venkataramana Goud S/o. Pedda Pullanna
			108/2A	Dry	Private Land	0.93	Venkateswarlu S/o. Chalapathi
			109/1	Dry	Private Land	1.20	Malleshwara Reddy S/o. Late Konda Reddy Mula Venkataramana Goud S/o. Pedda Pullanna
			112/1	Dry	Govt. Land	0.93	Government Land
			114/1	Dry	Govt. Land	0.42	Government Land
			115/1A1	Dry	Govt. Land	0.58	N. Chandra Sekhar Reddy S/o. Venkata Reddy
			115/1B1	Dry	Govt. Land	1.38	N. Chandra Sekhar Reddy S/o. Venkata Reddy Ediga Chandramma Belom Chenna Reddy S/o. Nagi Reddy
			115/2A	Dry	Govt. Land	0.10	Belom Chenna Reddy S/o. Nagi Reddy
			118/1	Dry	Endowment	1.00	Sai Anjaneya Swami Manyam
			119/1A	Dry	Govt. Land	0.62	Vagu Poramboke
			120/1	Dry	Private Land	0.14	Kanigiri Krishna Murthy S/o. Late Nese Nagappa
			126/1A	Dry	Private Land	1.42	Moola Srinivasulu S/o. Pedda Pullanna
			128/1	Dry	Private Land	0.85	R. Mudda Venkataalakshmi W/o. Satyanarayana Sott
			129/1	Dry	Private Land	0.31	Cehchanchala Narasimhudu S/o. Pedda Thimmaiah
			130/1	Dry	Private Land	0.67	Cehchanchala Narasimhudu S/o. Pedda Thimmaiah
			131/1	Dry	Private Land	0.67	Cehchanchala Narasimhudu S/o. Pedda Thimmaiah
			134/1	Dry	Private Land	0.88	Already Acquired for NH-7
			154/1	Dry	Govt. Land	0.96	Already Acquired for NH-7
			155/1	Dry	Govt. Land	0.01	Government Land
			157/2A	Dry	Private Land	0.09	Kursheed Begum W/o. Late Giya Banu
			161/2A	Dry	Govt. Land	0.79	Already Acquired for NH-7
			162/1	Dry	Private Land	0.74	Tamatom Parvathamamma W/o. Late Narayana Goud
			164/1	Dry	Private Land	0.08	Sungarapu Bose S/o. Venkataramanaiah
			166/1	Dry	Govt. Land	0.59	Sungarapu Bose S/o. Venkataramanaiah
			169/2A	Dry	Private Land	1.20	Baliya Serojamma W/o. B. Ranganayakulu Baliya Nagaraju S/o. Peddaiah
			170/2A1	Dry	Private Land	1.10	D. Saleendra Maddaiah S/o. Venkatanna Ala Venkataramana S/o. Narayana Swamy Ala Nagaraju S/o. Lakshmaiah Ala Rama Kumar S/o. Ala Ramaiah
			172/1	Dry	Private Land	0.80	Chakali Ramudu Gosanipalli Basanna Son
			179/1	Dry	Private Land	1.21	Nagabhushana Reddy S/o. Pedda Narayana Reddy Shishi Reddy S/o. Thambi Reddy Kalyani W/o. Mallikarjuna Reddy

1	2	3	4	5	6	7	8
			180	Dry	Govt. Land	0.71	Shishi Reddy S/o. Thambi Reddy
			181/1	Dry	Govt. Land	0.12	Government Land
			183/1	Dry	Govt. Land	1.22	Government Land
		(3) Kothakota	316/2B	Dry	Private Land	0.43	Koli Sujatha
			317/2	Dry	Private Land	0.50	K. Nagesh Gupta S/o. Seshiah Setty
			318/2	Dry	Private Land	0.45	K. Nagesh Gupta S/o. Narasimulu
			319/2	Dry	Private Land	0.41	K. Nagesh Gupta S/o. Lal Reddy
			322/2	Dry	Private Land	0.88	K. Nagesh Gupta S/o. Chandanna
			324/2	Dry	Private Land	0.03	K. Nagesh Gupta S/o. Muddaly Reddy
			370/2	Dry	Private Land	0.10	V. Subbanna W/o. V. Ramana Reddy
			371/2	Dry	Govt. Land	0.31	Government Land
			364/2	Dry	Private Land	0.54	B. Thimma Reddy S/o. Ranga Reddy
			363/2	Dry	Private Land	0.75	D. Shukoor S/o. Nabi Sahab
			362/2	Dry	Private Land	0.10	Vyaparam Kesavulu S/o. Kesanna
			360/2	Dry	Private Land	0.79	M. Narayana S/o. Ramanaiah
			359/2	Dry	Endowment	0.36	Pushpagiri Swamy Manyam
			356/4B	Dry	Private Land	0.90	Y. Sanjanna S/o. Karanna
			355/2A2	Dry	Private Land	0.82	S. Thimmaiah S/o. Yellappa
			355/2B2	Dry	Private Land	0.39	S. Venkateswara S/o. Thimanna
			355/1A2	Dry	Private Land	0.34	Chakali Chinnaraj S/o. Pedda Chennaiah
			355/1B2	Dry	Private Land	0.42	Chakali Ramudu S/o. Pedda Chennaiah
			120/1B	Dry	Private Land	0.35	Chakali Pedda Sanjeevaraidu S/o. Pedda Chennaiah
			120/2B	Dry	Private Land	0.41	Chakali Pedda Sanjeevaraidu S/o. Pedda Chennaiah
			119/2	Dry	Private Land	0.59	Rajendra Goud S/o. Narayana Goud
			117/2	Dry	Private Land	1.15	Metupalle Sunkanna S/o. Obulesu
			115/1B	Dry	Private Land	0.37	Boya Venkataramudu S/o. Laxanna
			115/2B	Dry	Private Land	1.01	Narayana Goud S/o. Ramaiah
			113/1B	Dry	Private Land	0.07	Rangaratnam Goud S/o. Hanumappa
			374/1	Dry	Private Land	0.64	Narayana Goud S/o. Ramaiah
			373/1	Dry	Private Land	0.69	Shenappa Yellappa S/o. Yellappa
			374/1A	Dry	Private Land	0.54	K. Nagesh Gupta S/o. Late Kesavaranga Reddy
			377/1	Dry	Private Land	0.43	K. Nagesh Gupta S/o. Late Venu Gopal
			404/1A	Dry	Private Land	0.40	D. Shukoor S/o. Nabi Sahab
			404/2A	Dry	Private Land	0.07	D. Shukoor S/o. Nabi Sahab
			404/2C	Dry	Private Land	0.06	M. Narayana S/o. Ramanaiah
			405/1	Dry	Private Land	0.73	M. Narayana S/o. Ramanaiah
			407/1	Dry	Private Land	0.73	M. Narayana S/o. Ramanaiah
			408/1	Dry	Private Land	0.89	M. Narayana S/o. Ramanaiah
			422/1	Dry	Private Land	0.85	M. Narayana S/o. Ramanaiah
			423/1	Dry	Govt. Land	0.39	Government Land
			423/3	Dry	Govt. Land	0.03	Government Land

1	2	3	4	5	6	7	8
			424/1	Dry	Private Land	1.73	Mettupalli Kondaiiah S/o. Sunkanna Mettupalli Sunkanna S/o. Obulesu Mettupalli Venkataramudu S/o. Obulesu Boya Lakshmana S/o. Nallanna Boya Hanumanna S/o. Nallanna Boya Venkatanna S/o. Nallanna
			431/1	Dry	Private Land	0.03	Golla Chenchu Narayana S/o. Pedda Hanumanthu
			425/2	Dry	Private Land	0.35	Basireddygaru Gurupada Reddy S/o. Venkata Reddy Ramakrishna Reddy S/o. Thimma Reddy
			425/1A1	Dry	Private Land	0.01	Gurumohana Reddy S/o. Thimma Reddy
			425/1B1	Dry	Private Land	0.07	Gurupada Reddy S/o. Thimma Reddy
			425/1C1	Dry	Private Land	0.17	Golla Narayana S/o. Ramaiah
			426/1A	Dry	Private Land	0.35	Golla Ramanjaneyulu S/o. Kadirappa
			426/2A	Dry	Private Land	0.27	Thimma Reddy S/o. Maddilety Reddy
			426/3A	Dry	Private Land	0.06	Kesavulu S/o. Kadirappa
			428/1B	Dry	Private Land	0.01	Ediga Giddaiah S/o. Narayana
			427/1A	Dry	Govt. Land	0.46	Golla Kesavulu S/o. Kadirappa
			427/2A	Dry	Govt. Land	0.04	G. Kesavulu S/o. Kadirappa
	(4) Jagadurthy		25/A1A	Dry	Govt. Land	1.00	Mala Kambagiri S/o. M. Kambaiah Madiga Naganna S/o. Jambanna
			25/A2A	Dry	Govt. Land	0.43	Madiga Marena S/o. Chinna Hussain
			25/A3	Dry	Govt. Land	0.07	Chinna Madanna S/o. Jambanna
			25/B1C1	Dry	Govt. Land	0.05	Madiga Chinna Madanna S/o. Jambanna
			25/B2A	Dry	Govt. Land	0.22	Madiga Chinna Madanna S/o. Jambanna Madiga Chinna Yellappa S/o. Jambanna
			33/1	Dry	Private Land	1.46	Madiga Naganna S/o. Jambanna E. Chinna Yella Goud S/o. Venkatakesham
			34/1	Dry	Govt. Land	0.32	Shabbir Ali Khan S/o. Hussain Khan
			35/B1A1	Dry	Private Land	1.09	Kalla Pratap Reddy S/o. Hanumantha Reddy K.V. Prakash Rao S/o. Venkata Setty
			35/A1	Dry	Private Land	0.02	Boya Nagaraju S/o. Hanumanna
			38/1A	Dry	Govt. Land	1.11	Harijana Srinivasulu S/o. H. Pedda Ramudu Harijana Lakshmana S/o. Pedda Ramudu
			38/2A	Dry	Govt. Land	1.37	Reddyboini Veerupakshamma W/o. Bugga Rama Swamy
			39/B1A	Dry	Govt. Land	0.38	Mala Chinna Venkatanna S/o. Saluvadi Narasimhulu
			40/1A	Dry	Govt. Land	0.05	Mala Saluvadi Venkataramana S/o. Pedda Venkataramana
			40/2A	Dry	Govt. Land	0.42	Mala Saluvadi Venkataramana S/o. Pedda Venkataramana
			40/3A	Dry	Govt. Land	0.61	Mala Saluvadi Kesavulu S/o. Kesanna
			41/1A	Dry	Govt. Land	0.41	Yerukala Avula Maddilety S/o. Maddilety
			41/2A	Dry	Govt. Land	0.67	Dr. Rajashekhar
			42/1A	Dry	Govt. Land	0.72	Dalvai Varalakshmi W/o. Kullaiah Talari Rama Naidu S/o. Madaiah
			42/2A	Dry	Govt. Land	0.78	Talari Ranganayakulu S/o. Madaiah Talari Ranganna S/o. Madaiah
			43/1	Dry	Govt. Land	0.34	Uppari Ramanjaneyulu S/o. Sunkanna Uppari Maddilety Swamy S/o. Sunkanna
			122/1	Dry	Govt. Land	1.81	Uppari Nagendra S/o. Sunkanna Uppari Ramanjaneyulu S/o. Sunkanna
			123/C1A	Dry	Govt. Land	0.45	Talari Nadipi Maddilety S/o. Thimmanna
			123/C2A	Dry	Govt. Land	0.26	Jonnagadda Balaji S/o. Viswanadham

1.	2	3	4	5	6	7	8
			123/B1A	Dry	Govt. Land	0.18	Jonnagadda Balaji S/o. Viswanadham
			123/B/2B1	Dry	Govt. Land	0.36	Bangi Jayaramudu S/o. Ramanna Bangi Ramesh S/o. Ramanna
			123/B/3B1	Dry	Govt. Land	0.26	Pinjari Hussain S/o. P. Malki Sab B. Ramesh S/o. Ramanna
			123/A/1B1	Dry	Govt. Land	0.11	Pinjari Moulali S/o. Malki Sab
			123/A/2B1	Dry	Govt. Land	0.33	Pinjari Moulali S/o. Malki Sab
			124/B/1B1	Dry	Govt. Land	0.17	Gavvala Sheshanna S/o. Chennappa Katika shiva Kumar
			124/B/2B1	Dry	Govt. Land	0.02	Chitala Krishna Murthy S/o. Chintala Setty
			125/B1A2A	Dry	Govt. Land	0.03	Chitala Krishna Murthy S/o. Chintala Setty
			125/B1B2A	Dry	Govt. Land	0.38	Chippagiri Prasad S/o. Subramanyam
			131/C1B	Dry	Govt. Land	0.14	Gangaiah Goud S/o. Nagesham Goud
			131/C3B	Dry	Govt. Land	0.02	Bangi Shekhar S/o. Peddanna
			132/A12	Dry	Govt. Land	0.01	Bangi Padmavathamma W/o. Pullaiah
			132/B1B	Dry	Govt. Land	0.16	Chakali Naganna S/o. Sheshanna
			132/B2B	Dry	Govt. Land	0.19	Bapaladoddi Narayana Reddy Bangi Padmavathamma W/o. Pullaiah
			133/B2B	Dry	Govt. Land	0.39	Venkatachalam S/o. Venkatappa
			133/B4B	Dry	Govt. Land	0.33	M. Murali Krishna S/o. Venkataramaiah
			157/2	Dry	Govt. Land	0.15	Kamatham Venkatamma W/o. Sunkanna
			158/2B	Dry	Private Land	0.01	D. Kullaiah S/o. Hanumantha Reddy
			158/3B	Dry	Private Land	0.42	D. Kullaiah S/o. Hanumantha Reddy Kamatham Sunkanna S/o. K. Kammaiah Kamatham Lakshmaiah S/o. K. Kamaiah Kamatham Venkatamma W/o. Sunkanna
			159/A2B	Dry	Govt. Land	0.43	Dalavai Kullaiah S/o. D. Hanumantha Reddy
			159/B1B	Dry	Govt. Land	0.14	Vadde Naganna S/o. Pullanna
			159/B2B	Dry	Govt. Land	0.12	Vadde Naganna S/o. Pullanna
			160/1B	Dry	Govt. Land	0.20	Madiga Chinna Peddaiah S/o. M. Sayadanna
			160/2B	Dry	Govt. Land	0.22	Madiga Chinna Peddaiah S/o. M. Sayadanna
			160/3B	Dry	Govt. Land	0.23	Mala Saluvadi Maddilety S/o. Kesanna
			161/2	Dry	Private Land	0.86	Konakanti Ramana Reddy S/o. Ranga Reddy Reliance info Communication compound
			147/C2	Dry	Govt. Land	0.07	Malle Venkataramanamma W/o. Govindu
			163/3B	Dry	Govt. Land	0.32	House Sites, Bus Shelter, Hotel, Hut
			164/3	Dry	Private Land	0.08	Assam Vali Tata Darga Road
			165/1B	Dry	Private Land	0.29	Ala Sai Shiva Kumar S/o. Shiva Nagi Reddy
			165/2B	Dry	Private Land	0.13	Shivanarayana Raju S/o. Ramaraju
			165/3B	Dry	Private Land	0.07	Harijana Lakshamma W/o. Ranganna
			165/4B	Dry	Private Land	0.12	Makama Badrinarayana S/o. Satyanarayana
			165/5B	Dry	Private Land	0.18	Perevala Pedda Ranga Reddy S/o. Sunki Reddy
			165/6B	Dry	Private Land	0.11	Jangam Parvathamma W/o. J. Balaiah
			167/A2	Dry	Govt. Land	0.34	Vankadari Lakshmi Narasamma W/o. Sriramulu Boya Maddilety Naidu S/o. Maddilety
			167/B2	Dry	Govt. Land	0.57	Jonnagadda Balaji S/o. Viswanadham K. Obul Reddy S/o. Nagi Reddy
	(5) Ungaranigundla	457/1	Dry	Private Land	0.83	1. M. Ravi Kumar S/o. Chinna Rajulu 2. Chinna Rajulu Naidu S/o. Venkanna 3. M. Shekar Slaps Granites Chakali Lakshmi Devi W/o. Pakirappa	
		456/1A2	Dry	Private Land	0.03	Chakali Lakshmi Devi W/o. Pakirappa	
		456/1B2	Dry	Private Land	0.28	M.V. Ramana S/o. M. Venkaiah	

1	2	3	4	5	6	7	8
			456/1C2	Dry	Private Land	0.30	Kaadipe Reddy Nageswar Reddy S/o. Subba Reddy
			454/2	Dry	Private Land	0.46	Janardhan Goud S/o. Nagesam Goud Chinna Sunkanna S/o. Valenna Lakshmi Devi W/o. Venkatramudu Jubera Ahmed Khan Mechanic Basha Saheb
			453/1	Dry	Private Land	0.39	Ratnamma W/o. Janardhan Goud
			451/1A	Dry	Private Land	0.30	K. Nagabushnam Sheety S/o. Narayana Shety
			451/2A	Dry	Private Land	0.26	Marri Venkatramana S/o. M. Muniswamy
			449/A/1A	Dry	Govt. Land	0.20	M. Rama Devi W/o. Srinivasulu
			459/1B	Dry	Private Land	1.31	Shaik Kareemulla S/o. T. Shaik Mahamad Allugundu Hussain Bashu S/o. Madar Saheb
			434/2	Dry	Private Land	0.30	R. Madappa S/o. R. Hanumanthu Shaik Neefar Ahmed S/o. Akbal Ahmed Rs. Ramakrishna S/o. Snajeeva Reddy
			435/A1B	Dry	Private Land	0.51	Adi Narayan Goud S/o. Pervalaiah Goud
			438/1B	Dry	Private Land	0.12	Dastagiri Goud S/o. Naganna Goud
			439/1A2	Dry	Govt. Land	0.91	R.S. Ramakrishna Reddy S/o. R.S. Sanjeeva Reddy
			440/B1	Dry	Private Land	1.00	Chippagiri Prasad S/o. Subramanyam Basheer S/o. Abdul Sattar
			440/A2	Dry	Private Land	1.87	Chippagiri Prasad S/o. Subramanyam Ala Venkatramana S/o. Ramaiah A. Sulthana W/o. L. Abdul Waheb Khan
			441/2	Dry	Private Land	1.79	P. Shekar Rao S/o. Lalu Rao P. Janakir Bai W/o. Shekar Rao S. Surya Kalabai W/o. Maheswara Rao Ediga Kalavathamma W/o. Bala ram Goud
			370/2	Dry	Private Land	0.64	S. Surya Kalabai W/o. Maheswara Rao Ediga Kalavathamma W/o. Bala ram Goud
			442/1	Dry	Private Land	0.10	Sangala Ramaniah S/o. Rangaiah Bati Padbanabaiah
			366/1	Dry	Private Land	0.11	Sangala Ramaniah S/o. Rangaiah Bati Padbanabaiah
			369/1B	Dry	Private Land	3.06	Nala gulla Prabhakar S/o. Pedda rami reddy Nala gulla Siva Shankar S/o. Pedda rami reddy
			369/2B	Dry	Private Land	0.29	N. Madan Mohan Ramachandra Prasad S/o. Venkata nagi reddy
			369/3E	Dry	Private Land	0.32	N. Venkat Rami Reddy S/o. Rama linga reddy
			369/4B	Dry	Private Land	0.31	Pala Narayanamma W/o. Pala Chinna malliah
			384/1B	Dry	Private Land	1.30	Vadla Ranga Swamy S/o. Nagappa Vadla Ranganna S/o. Nagappa Road
			384/2B	Dry	Private Land	1.34	Vadla Pedda Sunkaiah S/o. Chinnana Vadla Sunkachari S/o. Chinnana
			385/1	Dry	Private Land	0.70	C. Ratnamaiah Sheety S/o. Obaiah
			386/B2	Dry	Private Land	0.56	C. Ratnamaiah Sheety S/o. Obaiah

1	2	3	4	5	6	7	8
			386/A2	Dry	Govt. Land	1.27	Chand bi W/o. Japhar Saiad Mabuni W/o. Minnalia Ranga Valli W/o. Maddilty Vadde Lakshmi Devi W/o. Jaya Ramudu Lakshmi Devi W/o. Ramachandrudu Rameswaramma W/o. Kuntanna Shankaramma W/o. Shankaraiah Shaik rasul S/o. Nabisa Kurva Sanjamma W/o. Pedda Hanumanthu Anumakka W/o. Anumanthu Savithri W/o. Sanjeevudu
			388/B2B	Dry	Govt. Land	0.83	Harijana Madhu S/o. Naganna
			388/A2	Dry	Private Land	2.79	Harijana Nagamma W/o. Sanjanna Golla Erramma W/o. B. Ramanna Seshpani S/o. Thimmaiah Ranga swamy S/o. Thimmaiah C. Ratnamaiah S/o. Obaiah Salemmbai W/o. Dastagiri
			129/2	Dry	Private Land	2.18	Alam Konda Shaik Nabi Saheb S/o. Kashim Shaed
			324/B1	Dry	Private Land	0.02	Ediga Ramanjeneyulu S/o. Anumanna
			323/1	Dry	Private Land	0.51	Kurva Hanumanthu S/o. Pedda Sunkanna Harijana Chinna Naganna S/o. Madanna Chinna Sunkanna S/o. Pedda Madanna Pedda Gorantla S/o. Bodenna
			322/1A	Dry	Endowment	0.30	C. Ratnamaiah S/o. Obaiah C. Maddaiah S/o. Obaiah
			320/1A	Dry	Private Land	0.60	Maarshat Goud S/o. Soma Shekar Goud Krishna Venamma W/o. Kulla swamy Satya narayana S/o. Srinivasula Sheety B. Ramakrishna S/o. Gidanna Madanna Goud S/o. Venkat swamy Naga Munedra goud S/o. Anyalu E. Venkateswarlu S/o. Chinna Venkataiah Ediga Sanjeeva Rayani S/o. Shekar Goud Golla Gaddanna S/o. Ramanna Mahaboob Peera Basha Satya narayana S/o. Venkat Srinivasulu Ameer basha
			319/1	Dry	Private Land	0.41	M. Jaya ram Naidu S/o. Chinna naidu
			316/1A	Dry	Private Land	0.26	M. Jaya ram Naidu S/o. Chinna naidu
			316/2A	Dry	Private Land	0.69	Kuruva Anumanthu S/o. Sanjanna
			314/1	Dry	Private Land	1.05	Kuruva Ramanjeneyulu S/o. K. Chinna Pullaiah
			313/1	Dry	Private Land	0.27	Bangi Anjannamma W/o. Sanjappa
			308/2A1A	Dry	Govt. Land	0.78	S. Sattar Bangi Anjannamma W/o. Sanjappa
			307/1	Dry	Wakf Land	0.29	Kuruva Pulliah S/o. Sanjanna
			298/1	Dry	Wakf Land	0.30	Kuruva Pulliah S/o. Sanjanna
			297/1A	Dry	Private Land	0.10	Kuruva Pulliah S/o. Sanjanna
			296/1	Dry	Private Land	1.52	Eswarappa S/o. Erappa
			267/A1A	Dry	Govt. Land	0.05	Chinna Abdul S/o. Pedda Nabi Saheb
			267/A2A	Dry	Govt. Land	0.89	Chinna Abdul S/o. Pedda Nabi Saheb Kahsim Hussain S/o. Rendava Makuth Saheb
			266/1	Dry	Private Land	0.96	Reliance

3577 GI/05-9

1	2	3	4	5	6	7	8
			265/1A	Dry	Private Land	0.11	Reliance petrol bunk
			251/A2A	Dry	Govt. Land	0.67	Harjana Ramudu S/o. M. Sunkanna
			250/1B2	Dry	Govt. Land	0.25	Sunkulaiah S/o. Mareenna
			250/2B2	Dry	Govt. Land	0.14	Sunkulaiah S/o. Mareenna
			252/2A	Dry	Govt. Land	0.59	Kunta poram buku
			254/2A	Dry	Private Land	0.02	Chakali Naganna S/o. Gurappa
			258/1B1	Dry	Govt. Land	0.39	C. Eranna S/o. Gurappa
			258/2A1	Dry	Govt. Land	0.62	Madiga Pedda Gorantla S/o. Bedenna
			127/2	Dry	Private Land	0.96	Sheshi Shetty S/o. Thimaiah
			132/2	Dry	Private Land	0.01	Bangi Anjanamma W/o. Sanjappa
			131/2	Dry	Endowment	1.09	Bangi Anjanamma W/o. Sanjappa
			140/A2	Dry	Private Land	0.10	Bangi Anjanamma W/o. Sanjappa
			140/B2	Dry	Private Land	0.94	R. Vijay Kumar S/o. Subramanyam
			141/1B	Dry	Private Land	0.40	R. Vijay Kumar S/o. Subramanyam
			141/2B	Dry	Private Land	0.46	N. Mallikarjuna Nagalingam Reddy R. Vijay Kumar S/o. Subramanyam Road
			146/2B	Dry	Private Land	0.15	R. Vijay Kumar S/o. Subramanyam
			146/4B	Dry	Private Land	0.10	R. Vijay Kumar S/o. Subramanyam
			148/2	Dry	Private Land	0.91	B. Sanjappa S/o. Anjaneya
			149/2B	Dry	Private Land	0.27	B. Sanjappa S/o. Anjaneya
			154/B/2B2	Dry	Govt. Land	0.46	Talari Sunkulamma W/o. Pedda Rangarina Bangi Anjanamma W/o. Sanjappa
			154/B/1B	Dry	Govt. Land	0.23	Ravi Kiran Prasad S/o. Surya Narayana
			154/B/2A2/C2	Dry	Govt. Land	0.22	Poul Raj
			293/2	Dry	Private Land	0.21	Chinna Maddilety S/o. Metta Sunkanna
			294/2	Dry	Private Land	0.62	Chandra Palli Nageswararao S/o. Kulayappa
			292/B2	Dry	Govt. Land	0.07	Chandra Palli Nageswararao S/o. Kulayappa
			292/A1B	Dry	Govt. Land	0.08	Chandra Palli Nageswararao S/o. Kulayappa
			292/A2B	Dry	Govt. Land	0.11	Chandra Palli Nageswararao S/o. Kulayappa
			269/2	Dry	Govt. Land	0.89	Shaik Pedda Masoom S/o. Kale Saheb
			272/2	Dry	Govt. Land	0.90	Vadde Chinnana S/o. Pedda Sunkanna Noor Basha S/o. Reddi Mabu Khan
			273/2	Dry	Private Land	0.18	Noor Basha S/o. Reddi Mabu Khan
			274/2B	Dry	Private Land	0.47	Mettu Ramanjani S/o. Chinna Sunkulaiah Mettu Lakshmi Narayana S/o. Chinna Sunkulaiah
			256/2	Dry	Govt. Land	0.66	Govt Land
5	Kallur	(1) Lakshimpuram	680/1	GD	Private Land	0.27	Bhaskara Reddy (Granite Factory) Abhijith Jain S/o. Laxman Jain
			682/1	GD	Private Land	0.79	M. Dayamani W/o. M. Gopal and others
			732/2	ID	Private Land	0.15	Nagi Reddy (Tungabhadra Seeds)
			733/2	GP	Government	0.01	Rastha Poramboke
			739/2	GD	Private Land	0.36	Dr. Kantha Reddy (Santhikethan Hospital) and others
			740/2	GD	Private Land	0.36	1) Gadiga Pedda Samulu S/o. G.C. Polaiah 2) Byreddy Raja Sekhara Reddy (NDK)
			742/1	GD	Private Land	0.97	1) Bharatsena Educational Society and others
			744/1	GD	Private Land	1.04	Mazbul Hussain S/o. Gulam Hussain and others
			756/1A	Road	Government	0.05	Poramboke
			770/1	ID	Private Land	0.76	Pothulapadu Rama Krishna Reddy S/o. Somanna Pothulapadu Bhupal Reddy S/o. Somanna Pothulapadu Radha Krishna Reddy S/o. Somanna

1	2	3	4	5	6	7	8
			771/1	ID	Private Land	0.18	Pothulapadu Rama Krishna Reddy S/o. Somanna
							Pothulapadu Bhupal Reddy S/o. Somanna
							Pothulapadu Radha Krishna Reddy S/o. Somanna
			772/1	ID	Private Land	1.24	1) D. Nagendramma W/o. D. Venkata Rao
							2) D. Venkata Rao S/o. Appaiah
							3) D. Ramesh S/o. Venkata Rao
							4) D. Ramya W/o. Ramesh
			774/1A	ID	Private Land	2.60	T. Arayamma W/o. Late Tangavelu and others
			775/1	GD	Private Land	0.98	M. Narasimha S/o. Rama Krishna and others
			776/1A	GD	Private Land	1.45	Dr. Jareena Jaheer W/o. Jaheer Ahmed Khan Sult
			777/1A	GP	Government	0.12	Vanika Poramboke
	(2) Dupadu		44/2	GP	Government	0.01	Rastha Poramboke
			53/2	GP	Government	0.01	Rastha Poramboke
			57/2	GD	Private Land	0.25	G. Sukanya W/o. Venkataramana
			58/1B	GD	Private Land	0.06	G. Sukanya W/o. Venkataramana
			58/2B	GD	Private Land	0.07	G. Sukanya W/o. Venkataramana
			60/2	ID	Endowment	0.42	Assistant Commissioner Endowments, Madras
			61/2	GD	Private Land	0.80	G. Ramappa Reddy S/o. Venkata Reddy and etc.
			63/2	GD	Private Land	0.54	N. Pulla Reddy S/o. Venkata Reddy and others
			64/2	GD	Private Land	0.20	Anemotu Venkateswara
			65/2	GP	Government	0.01	Rastha Poramboke
			66/2	GD	Private Land	0.17	Parameswaraiah S/o. Malleshetty and others
			69/2	ID	Wakf Board	0.24	Wakf Board
			70/A2	GD	Private Land	0.17	Pedda Sumi Reddy
			70/B2	GD	Private Land	0.15	1) Vemula Venkata Swamy S/o. Chinna Seshanna
							2) A. Laxmi Reddy S/o. A.P. Veera Reddy
			72/1A1	GP	Government	0.11	Poramboke
			72/1B1A	GD	Private Land	0.35	Dr. Swaroopa Rani W/o. Dr. Sankara Sharma
			72/1B2A	GD	Private Land	0.40	N. Ramadevi W/o. Dr. Brahma Reddy
			73/2	ID	Wakf Board	0.67	Wakf Board
			74/1A	GD	Private Land	0.29	Dr. Rama Chandra Rao
			74/2A	GP	Government	0.05	Poramboke
			74/3A	GD	Private Land	0.59	Dr. Rama Chandra Rao
			94/1	GD	Private Land	1.65	1) Siddareddy Purushotham Reddy S/o. S.V. Krishna Reddy and others
			95/1A	GD	Private Land	1.28	B. Subba Laxmi W/o. Nagi Reddy and others
			96/1	ID	Endowment	0.78	Endowment Land
			111/1	GP	Government	0.09	Poramboke
			112/1A	GD	Private Land	1.30	Krishna Goud S/o. Sasikiran Goud and others
			113/1A	GD	Private Land	0.78	Kuruva Chinna Narayana (Peddatekur)
	(3) Peddatekur		39/1	GD	Private Land	0.29	G. Jyothi W/o. M. Veerabhadraiah
			40/1	GD	Private Land	1.17	G. Ananda Reddy S/o. G. K. Reddy and others
			41/1	GP	Government	0.05	Road Poramboke
			42/1	GD	Private Land	1.38	Sri Yeddula Chandra Reddy S/o. Seshi Reddy and others
			49/1	GD	Private Land	0.32	A. Maheswara Reddy S/o. Subba Reddy
			48/1	GD	Private Land	0.78	A. Maheswara Reddy S/o. Subba Reddy & others
			183/1	GD	Private Land	0.34	Neela Reddy S/o. Subba Reddy
			185	GD	Private Land	1.54	Boya Vyatalawada Venkata Swamy S/o. Seshanna
			179/A1A	GD	Private Land	0.47	Telugu Sivaramudu S/o. Narayana and others
			179/A2A	GD	Private Land	0.43	B. Rama Chandra Reddy S/o. B. Pulla Reddy

1	2	3	4	5	6	7	8
			179/B1A	GD	Private Land	0.38	B. Rama Chandra Reddy S/o. B. Pulla Reddy
			179/B2A	GD	Private Land	0.43	B. Rama Chandra Reddy S/o. B. Pulla Reddy
			178/A1	GD	Private Land	0.63	Alvala Chinna Narayana Reddy S/o. Pedda Nagi Reddy and others
			37/2	GD	Private Land	0.15	1. Malleswara Reddy S/o. Nagi Reddy 2. Thimma Reddy S/o. Subba Reddy
			36/2	GD	Private Land	0.08	Sanjeeva Reddy S/o. Yella Reddy
			34/2	GD	Private Land	0.08	G. Ananda Reddy S/o. G. K. Reddy
			33/2	GD	Private Land	0.92	G. Ananda Reddy S/o. G. K. Reddy and others
			32/2	GD	Private Land	0.08	1. Mohiddin Saheb S/o. Masum Saheb 2. Pittala Maddilety S/o. Venkatanna
			28/2	GP	Government	0.04	Road
			44/1B	GP	Private Land	0.36	1. K. Naganna S/o. Yerramala 2. Dr. Swaroopa Rani W/o. Sankara Sarma
			44/2B	GD	Private Land	0.23	1. G. Sankar S/o. Sunkanna 2. Daneswari W/o. Pedda Peddaiah
			45/2B	GD	Private Land	0.15	Dr. Swaroopa Rani W/o. Dr. Sankara Sharma
			46/2	GD	Private Land	1.26	Maheswara Reddy S/o. Subba Reddy & others
			190/2	GD	Private Land	0.23	Md. Musakhan and others
			189/2	GD	Private Land	0.65	Yalluru Subba Reddy Thungabhadra Nagi Reddy
			187/2	GD	Private Land	0.23	V. Rama Chandra Reddy S/o. Seshi Reddy and others
			197/2	GD	Private Land	0.55	B. Rama Chandra Reddy S/o. Pulla Reddy & others
			199/2	GD	Private Land	0.26	Md. Yousuf S/o. Mahaboob Basha
			201/2	GP	Govt. Land	0.01	Poramboke
			202/2	GD	Govt. Land	0.01	A. W. Land
		(4) Bastipadu	336/2	SID	Private Land	8.99	Kukkala Kistanna S/o. Chinna Ramanna & others
			337/2	ID	Private Land	3.45	Sister Stansillas Educational Society, Kurnool
			322/2	ID	Private Land	0.43	G. Nagi Reddy S/o. Rami Reddy
			339/1	GD	Private Land	0.23	Boya Bajar S/o. Morrenna
			341/1B	ID	Private Land	1.35	K. Atchanna S/o. Budda Giddaiah
			343/2	ID	Private Land	4.07	Pedda Seshanna and others
			399/2	ID	Private Land	0.88	B. Sailaja W/o. Natraj
			396/2	GD	Private Land	1.97	B. Sailaja W/o. Natraj
			397/2	GD	Private Land	1.05	Kuruva Seshanna S/o. Naganna
			394/2	GD	Private Land	2.74	B. Natraj S/o. Thulasiah
			403/3	GP	Govt. Land	0.9	Rastha
			404/2	ID	Private Land	0.13	Harijana Pedda Naganna S/o. Maddilety
			391/1	GD	Private Land	0.02	Chinna Naganna S/o. Maddilety
			390/2	GD	Private Land	3.55	Samulaiah S/o. Marenn and others
			377/2	GD	Private Land	1.35	Anjaneyulu S/o. Laxmanna
			378/2	GD	Private Land	0.02	Santhamma W/o. Sunkanna
			375/2	GD	Private Land	2.60	Laxmi Reddy S/o. Krishna Reddy Narasimha Reddy
			405/2	GD	Private Land	0.02	Madhava Swamy S/o. Sunkanna
			380/2B	---	Private Land	0.37	Laxmi Reddy S/o. Krishna Reddy Narasimha Reddy
		(5) Chinnatekur	68/2	GP	Govt. Land	0.18	Vagu Poramboke
			73/2	GD	Private Land	0.53	S.M. Ismail S/o. Mahaboob Saheb
			72/2	GD	Govt. Land	0.95	S.M. Ismail S/o. Mahaboob Saheb A. W. Land
			71/2	GD	Govt. Land	0.88	Vacant Land
			75/2	GP	Govt. Land	0.41	Burial Ground

1	2	3	4	5	6	7	8
			76/2	GP	Govt. Land	0.06	Burial Ground
			77/2	GD	Private Land	0.83	S. Md. Yousuf S/o. Ismail and others House sites Plots, Houses, Hotal etc
			56/2	GD	Private Land	0.11	Harijana Midda Hanumanthu and others
			78	GD	Private Land	0.27	Yerra Ayyanna S/o. Sunkanna and other Hotel Mubarak etc.
			55/2	GD	Private Land	0.21	Yella Reddy S/o. Pampa Reddy
			79	GD	Private Land	0.27	Yella Reddy S/o. Pampa Reddy
			54/2	GD	Private Land	0.09	Yella Reddy S/o. Pampa Reddy
			53	GD	Private Land	0.01	Yella Reddy S/o. Pampa Reddy
			80	GD	Private Land	0.04	Yella Reddy S/o. Pampa Reddy
			81	GD	Private Land	0.12	Yella Reddy S/o. Pampa Reddy
			82	GD	Private Land	0.02	1. Malleswara Reddy S/o. Siva Reddy 2. Venkateswara Reddy S/o. Thippa Reddu
			49/2	GD	Private Land	0.25	N. Bhagyamma W/o. Subba Rayudu and others (Houses, House Sites etc)
			52/2	GD	Private Land	0.13	Yella Reddy S/o. Pampa Reddy and others
			48/2	GD	Govt. Land	0.17	Poramboke
			47/2	GD	Private Land	0.41	Dhanunjaya S/o. Chinna Anjaneyulu and others House Site Plots, Huts. Buildings etc.
			45/2	GP	Govt. Land	0.24	Poramboke
			44/2	GP	Govt. Land	0.04	Rastha
			290/2	GD	Private Land	0.26	Prathapa Reddy, Janardhan Reddy
			291/2	GD	Private Land	0.02	Lakshmidewi W/o. Narasimhulu
			292/2	GD	Private Land	0.35	1) Lakshmidewi W/o. Narasimhulu 2) T. Venkateswarlu S/o. Narayana
			318/2	ID	Private Land	0.56	T. Jayaramudu S/o. Narayana
			332/2	ID	Private Land	0.20	T. Jayaramudu S/o. Narayana
			333/2	GD	Private Land	0.22	Tangavelu
			334/2	ID	Private Land	0.60	1) T. Venkateswarlu S/o. Narayana 2) M. Sailaja Devi W/o. Dr. S. Nagesh
			335/2	GD	Private Land	1.36	1) M. Sailaja Devi W/o. Dr. S. Nagesh 2) B. Nataraj S/o. Thulasaiah
			349/2	ID	Wakf Land	3.52	Wakf Board Land
			343/2	ID	Wakf Land	0.9	Wakf Board Land
			110/1A	GP	Govt. Land	0.30	Vagu
			109/1A	GD	Private Land	0.24	Chiranjeevi Kumar
			109/2A	GP	Govt. Land	0.10	Road to Thadakanapalli
			109/3A	GD	Private Land	0.25	1) Abdul Rahim S/o. Moula Saheb 2) Rahim Basha S/o. Moula Saheb
			108/A1	GD	Private Land	0.16	1) Abdul Rahim S/o. Moula Saheb 2) Rahim Basha S/o. Moula Saheb
			101/1A	GD	Private Land	0.27	K. Bhaskar S/o. Late Sunkanna
			101/1C	GD	Private Land	0.45	Remesh Varma S/o. Venkaiah
			101/2A	GD	Govt. Land	0.22	Police Quarters
			102/1A	GD	Private Land	0.34	Dastagiri S/o. Shali Saheb
			100/1	GD	Private Land	0.66	B.C. Rajeswaramma W/o. B.C. Somappa
			99/1	SID	Private Land	0.60	Venkateswaramma W/o. anjaneyulu and others (House Sites & Houses)
			91/1	SD	Private Land	0.87	Padmavathamma W/o. Prakasam and others Houses, House sites etc.
			92/1	GD	Govt. Land	0.04	Ramthota Poramboke
			90/1	GD	Govt. Land	1.40	Ramthota Poramboke
			85/1	SID	Private Land	0.25	G. Jyothi W/o. M. Veerabhadraiah
			288	SID	Private Land	0.03	Anjanappa S/o. Gowrappa
			287/1A	SID	Private Land	0.28	1) G. Jyothi W/o. M. Veerabhadraiah and others

1	2	3	4	5	6	7	8
			295/1	GP	Govt. Land	0.19	Donka Poramboke
			294/1	GD	Govt. Land	0.77	A. W. Land
			315/1	GD	Private Land	0.48	1) K.P. Revanthi Kumari 2) K.P. Murali Mohan 3) K.P. Madhu Sudhan
			316/1	ID	Private Land	0.60	Vaggu Somakka W/o. Hanumanthu
			314/1	ID	Private Land	0.47	Rampulla Reddy S/o. Hari & Chandra Reddy, Kurnool and others
			312/1	GD	Private Land	0.49	Dasari Peddiah S/o. Maddilety, Kurnool
			312/1	ID	Private Land	1.70	1) K. dhanunjayudu S/o. Chinna Anjaneyulu 2) Adinarayana Reddy
			311/1	GD	Private Land	1.07	Bangi Anjaneyulu S/o. Yerra Narayana & others
		(6) Nayakallu	136/2B2		Private Land	1.22	Mangali Shankaraiah S/o. Daiva Yathanam
			136/2C2		Private Land	1.40	1) Vadde Thimmulu 2) Vadde Pedda Ayyanna 3) Vadde Chinna Ayyanna 4) Vadde Venkateswarlu
			138/2		Private Land	1.25	Pinjari Giddamma
			139/1A2B2		Private Land	0.01	Vadde Thimmulu
			158/1A		Private Land	0.20	Pinjari Giddamma W/o. Moulali
			158/2A		Private Land	0.54	Pinjari Peddaiah S/o. Badaraiah
			158/3A		Private Land	0.16	Pinjari Allemma W/o. Peeraiah
			158/4A		Private Land	0.20	Pinjari Maddaiah S/o. Yerranna
			156/2B2B		Private Land	2.48	Venkat Laxmamma W/o. Maddilety
			157/2B		Private Land	0.22	Venkat Laxmamma W/o. Maddilety
			163/4B		Private Land	2.02	Polukal Maddamma W/o. Papanna
			161/1		Govt. Land	0.19	Vanka Poramboke
			162/1B		Private Land	1.18	Kallubandi Masum S/o. Hussain Saheb
			162/2B		Private Land	1.00	Vadde Chinna Sunkanna S/o. Gurappa
			162/3B		Private Land	0.63	Boya Talari Papanna S/o. Buddanna
			162/4B		Private Land	0.56	Talari Madamma W/o. Papanna
6 Peapully		(1) Vengalampalli	157/1B	Dry	Private Land	0.14	1. Boyapathi. Gangadharam 2. Sesha Phani
			157/2b	Dry	Private Land	0.04	1. Boyapathi. Gangadharam 2. Sesha Phani
			156/2	Dry	Private Land	0.36	1. Boyapathi. Gangadharam 2. Sesha Phani
			155/2	Dry	Private Land	0.44	1. Ala Hanumaiah
			152/2	Dry	Private Land	0.05	1. Guddi Sanjanna
			151/2	Dry	Private Land	0.34	Anjaney Swami Manyam
			150/2	Dry	Private Land	0.32	1. Seshaphani
			165/2	Dry	Private Land	0.03	Korivi. Ramanjaneyulu
			164/1b	Dry	Govt. Land	0.15	Vagu
			163/2	Dry	Private Land	0.63	K. Jaya Prakash Babu
			162/2	Dry	Govt. Land	0.35	U. A. W
			161/2	Dry	Private Land	0.79	Prasad
			160/2	Dry	Private Land	0.34	Prasad
			214/2	Dry	Private Land	0.30	S.K.T. Factory
			215/2	Dry	Private Land	0.10	S.K.T. Factory
			216/2	Dry	Private Land	0.33	S.K.T. Factory
			217/2	Dry	Private Land	0.71	S.K.T. Factory
			246/1a	Dry	Private Land	1.27	Telugu Subbamma
			246/3a	Dry	Private Land	0.09	Mettu Ramaiah
			247/1a	Dry	Private Land	0.31	Mettu Ganganna
			247/2a	Dry	Private Land	0.72	Nookala Ravi Krishna S/o. N.R. Prabhakar
			248/1	Dry	Private Land	0.43	Mettu Maddaiah
			250/1	Dry	Private Land	1.30	CH. Shemsheeruddin S/o. Beeran saheb Prasad

1	2	3	4	5	6	7	8
			253/1	Dry	Private Land	0.89	Prasad
			252/2a	Dry	Private Land	0.00	Prasad
			265/1a	Dry	Private Land	0.10	K. Jaya Prakash Babu S/o. Sesha Acharyulu
			265/2a	Dry	Government	0.11	Vanka
			266/1	Dry	Government	0.75	Kanta, Sanjanna (Vagu)
			267/1	Dry	Private Land	1.58	J. Gangasatam, 2. Seshu Phani
			276/1	Dry	Private Land	0.54	Madhavi, Obulesu S/o. Bojanna
			279/1	Dry	Private Land	0.15	Shankar, Raju W/o. Gangi Reddy
			281/1	Dry	Government	0.14	U. A. W.
			282/1	Dry	Government	0.37	Vagu
			596/1a	Dry	Private Land	0.21	Mallesha S/o. Mallappa
			596/2a	Dry	Private Land	0.03	Mallesha S/o. Mallappa
			596/8a	Dry	Private Land	0.02	Mallesha S/o. Mallappa
			596/9	Dry	Private Land	0.20	Mallesha S/o. Mallappa
			596/10a	Dry	Private Land	0.31	Mallesha S/o. Mallappa
			596/12a	Dry	Private Land	0.01	Mallesha S/o. Mallappa
			596/13a	Dry	Private Land	0.02	Mallesha S/o. Mallappa
			596/14a	Dry	Private Land	0.06	Mallesha S/o. Mallappa
			597/1	Dry	Private Land	0.65	Ala Laxmaiah
			598/1	Dry	Private Land	1.28	Kotah toka Timma Reddi
			59/2	Dry	Private Land	2.27	D. Basheer Sab S/o. Mab Sab
			61/2	Dry	Govt. Land	0.08	Road
			236/1a2	Dry	Private Land	3.86	L. Basu Babu W/o. Nanne Sab
			236/1b1	Dry	Govt. Land	0.03	Road
			234/2	Dry	Govt. Land	0.27	U. A. W.
			233/1b1	Dry	Private Land	0.54	Toppala, Sunkanna
			230/5b	Dry	Private Land	0.78	Toppala, Sunkanna
			232/1	Dry	Private Land	0.94	Golla, Siddaramaiah, Toppala Balanna
			231/1b	Dry	Private Land	0.57	Golla Siddaramaiah S/o. K. Golla-Poleiah
			245/4a	Dry	Private Land	0.20	Patta Land
	(2) Enugumanni		688/1A	Dry	Private Land	0.42	Nese Krishna Murthy
			688/2A	Dry	Private Land	0.72	K. Jayanna
			675/1	Dry	Endowment	0.18	Endowment Land
			674/1A	Dry	Private Land	1.06	T. Venkata Ramudu, T. Ramudu
			674/2A	Dry	Private Land	0.4	T. Venkata Ramudu, T. Ramudu
			673/1	Dry	Private Land	0.29	T. Venkata Ramudu, T. Ramudu
			672/1	Dry	Private Land	0.44	T. Venkata Ramudu, T. Ramudu
			671/2A	Dry	Private Land	0.52	P. Naganna
			670/1A	Dry	Govt. Land	0.79	Road
			670/2A	Dry	Private Land	0.29	P. Naganna
			671/1	Dry	Govt. Land	0.05	Road
			690/2	Dry	Private Land	0.51	Pat. Hanu Reddy
			694	Dry	Private Land	0.25	
			693/1B	Dry	Private Land	0.44	Krishna Murthy
			693/2B	Dry	Private Land	0.14	Krishna Murthy
			695/2	Dry	Private Land	1.02	Krishna Murthy
			696/2B	Dry	Private Land	0.45	Krishna Murthy
			708/2	Dry	Private Land	0.29	K. Lakshmi Devi W/o. Venkatesh
			709/2	Dry	Private Land	1.15	K. Lakshmi Devi W/o. Venkatesh
			799/1A2	Dry	Private Land	2.42	A. Hanumanth
			799/2B	Dry	Private Land	0.95	A. Hanumanth
			798/2	Dry	Private Land	1.44	Krishna
			840/1	Dry	Endowment	1.46	Endowment Land

1	2	3	4	5	6	7	8
			835/1	Dry	Private Land	0.89	A. Sunkanna
			821/1	Dry	Private Land	0.47	D. Basha, D. Kullaiappa
			820/1	Dry	Private Land	0.20	A. Hanumakka
			808/2A	Dry	Private Land	0.65	A. Hanumakka
			712/2	Dry	Private Land	2.77	Bangimalla, Narayana S/o. Balaiah
			713/2	Dry	Endowment	1.2	Peerla Devata
			746/1b	Dry	Private Land	0.21	Turaka, Moulali
			746/2b	Dry	Govt. Land	0.44	Vagu
			746/3a	Dry	Govt. Land	0.44	Vagu
			746/4b	Dry	Private Land	0.23	Rama Pullaiah S/o. Madanappa
			747/1B	Dry	Govt. Land	0.01	Vagu
			747/2b	Dry	Private Land	1.37	Rama Pullaiah S/o. Madanappa
			748/1a	Dry	Private Land	0.06	Rama Pullaiah S/o. Madanappa
			748/1c	Dry	Private Land	0.02	Rama Pullaiah S/o. Madanappa
			752/5b	Dry	Govt. Land	0.80	Vagu
			754/1a	Dry	Govt. Land	0.08	Vagu
			754/2a	Dry	Private Land	0.03	Pd. Moulali S/o. Pakirappa
			753	Dry	Private Land	0.14	Arigela Sunkanna S/o. Venkatesh
			755/1	Dry	Private Land	2.15	Chintamban. S/o. Sunkanna Mopuri. Subbarayudu S/o. Sunkanna
			756/1B	Dry	Private Land	0.33	Sri Ramulu
			756/2b	Dry	Private Land	0.16	Raja Venkata Subbaiah, Siddiramaiah, Chintambaraiah
			757/2	Dry	Private Land	0.41	Ch. Giddiah S/o. Ramaiah
			758/2	Dry	Private Land	0.28	Karanam Sunkanna S/o. Venkatappa
			759/2	Dry	Private Land	0.49	Karanam Sunkanna S/o. Venkatappa Narayana Swami
			760/2	Dry	Endowment	0.11	Endowment Land
			761/2	Dry	Private Land	0.01	Giddamm Kalappa W/o. Narayana
			803/1b	Dry	Private Land	3.91	M. Venkata Swami A. Krishna Murthi K. Sunkanna K. Narayana Swami
			799/1a2	Dry	Private Land	1.84	Hanumakka W/o. Venkatesh
			799/2b	Dry	Private Land	0.16	A. Sunkanna
	(3) Peapully		39/1b	Dry	Govt. Land	1.07	Rachuri. Venkata Ramaiah (Cheruvu)
			38/1b	Dry	Endowment	1.14	Subranya Swami Manyam
			38/2b	Dry	Endowment	2.84	Subranya Swami Manyam
			37/1b2b	Dry	Private Land	0.04	Shaik Munthaj bi W/o. Allahbakash
			37/2b2	Dry	Endowment	0.48	Subranya Swami Manyam
			28/2a	Dry	Endowment	0.34	Subranya Swami Manyam
			27/2	Dry	Endowment	4.65	Subranya Swami Manyam
			26/2	Dry	Private Land	2.55	Boreddi. Jagannatha Reddy Sri Ramulu Reddi
			46/1b	Dry	Govt. Land	3.05	G. Bhuvaneswara Reddy Govt
			46/2b	Dry	Govt. Land	1.14	G. Giddaiah, Govt
			49/2	Dry	Private Land	0.69	Koppula Shanthamma
			61/1a	Dry	Private Land	0.50	Guduru Bala Rangaiah W/o. Venkanna
			57/2	Dry	Private Land	4.67	Guneti. Balanna S/o. Narayana Vaka. Suranna S/o. Pd. Narayana
			58/1	Dry	Private Land	0.07	Guduru Nagaratnamma
			59/1	Dry	Private Land	0.92	Guduru Nagaratnamma
			106/2	Dry	Private Land	1.98	Lingam Venkata Subbaiah
			104/2c2	Dry	Private Land	2.00	Alamuri Chennaiah

1	2	3	4	5	6	7	8
			103/1	Dry	Govt. Land	0.68	J.C. Salappa S/o. Kullaiappa
			102/1	Dry	Private Land	0.76	Pamidi Kullaiappa
			111/3b	Dry	Private Land	2.31	Gujjaboina Venkata Ramudu S/o. Ch. Peddanna Gujjaboina Venkatappa S/o. Pd. Peddanna
			291/1b2	Dry	Private Land	0.27	Jakkula Lingamma W/o. Pullanna
			291/1c2	Dry	Private Land	0.32	Jakkula Lingamma W/o. Pullanna
			291/1d2	Dry	Private Land	0.32	Jakkula Lingamma W/o. Pullanna
			291/1e	Dry	Private Land	0.40	Jakkula Lingamma W/o. Pullanna
			291/1a2	Dry	Private Land	0.07	Jakkula Lingamma W/o. Pullanna
			291/2a	Dry	Private Land	0.26	G. Ch. Peddanna
			291/4c	Dry	Private Land	1.79	Jakkula Naganna S/o. Ranganna
			291/4b	Dry	Private Land	0.03	J. Naganna
			292/2	Dry	Private Land	1.54	S. Chandra Sekhar Babu S/o. Venkata Chalam
			302/1b	Dry	Private Land	2.30	Laxmi Devamma W/o. Prabhakar
			302/2a	Dry	Private Land	1.07	Prabhakar S/o. Rama Chandraiah
			305/a2	Dry	Private Land	0.58	Vaka Kondanna
			305/b2	Dry	Private Land	0.53	Vaka Kondanna
			305/c2	Dry	Private Land	0.05	Vaka Kondanna
			304/1	Dry	Private Land	1.39	Kadiki Kondanna
			307/1b	Dry	Private Land	2.66	Kumhari Aswathamma
			307/2a1	Dry	Private Land	0.03	Kuragayala. Ch. Hanumanthu
			307/2b2	Dry	Private Land	0.75	Rachuri. Seshiah
			307/2c1	Dry	Private Land	0.60	Kuragayala. Ch. Hanumanthu
			308/1b	Dry	Private Land	1.53	K. Hanumanthu
			932/2b	Dry	Private Land	4.92	Veeranjaneyulu S/o. Laxman
			931/1a1	Dry	Private Land	1.15	Veeranjaneyulu S/o. Laxman
			931/1a3	Dry	Private Land	0.04	Veeranjaneyulu
			931/1b1	Dry	Private Land	0.05	P.V. Laxmann
			931/2b	Dry	Private Land	0.81	P.V. Laxmann
			918/4a	Dry	Private Land	0.18	Valigeri Sri Ramulu Anjaneyulu, Srinivasulu
			918/4c	Dry	Private Land	1.10	Valigeri Sri Ramulu Anjaneyulu, Srinivasulu
			917/1c	Dry	Private Land	1.37	Golla Rama Mohan S/o. Ananthaiah, Subba Laxamma
			917/2a	Dry	Private Land	0.41	Golla. Veerananarayana
			915/2b	Dry	Private Land	0.88	Chakali Nagappa Swami Rangadu Y. Srinivasulu
			912/1b2b	Dry	Private Land	0.47	Venkata Ramudu
			912/1b3b	Dry	Private Land	0.64	Venkata Ramudu
			912/2b	Dry	Private Land	0.06	Venkata Ramudu
			911/1	Dry	Private Land	0.12	Harathi. Raghava Acharyulu
			913/2	Dry	Private Land	0.47	Pagidala. Timappa S/o. Venkata Swami
			891/2	Dry	Private Land	2.52	U. Venkatesh Jangamaiah
			892/1b	Dry	Private Land	0.96	Chakali. Nagappa
			892/2a	Dry	Private Land	0.74	Kothapeta Venkata Ramudu
			953/1	Dry	Private Land	0.13	P.S. Venkataramaiah
			888/2	Dry	Private Land	2.90	Ramudu P. Sulochanamma W/o. Venkata Narayana Vanappa S/o. Pullaiah

1	2	3	4	5	6	7	8
			887/2a2	Dry	Private Land	1.96	Anchikanti, Laxmi Devi Nagappa S/o. Pd. Rangappa Boreddy, Bala Rami Reddy
			871/2b1	Dry	Private Land	0.35	Vaduguru Jayamma W/o. Ch. Pullaiah
			871/1a	Dry	Private Land	0.22	V. Sudhakar Reddy S/o. V. Laxmi Reddy
			872/1	Dry	Private Land	0.12	V. Sudhakar Reddy S/o. V. Laxmi Reddy
			879/2	Dry	Private Land	1.00	Nichenametai, Subbatah S/o. Rami Setti
			880/2	Dry	Private Land	2.00	Mannepu, Venkata Laxmamma S/o. Rami Setty
			876/1	Dry	Private Land	0.74	Parvatham Obireddy Sudarshan Reddi S/o. Suryanarayana Reddi
			882/2	Dry	Private Land	2.00	Yerukala, Ranganaikulu, S/o. Sunkanna Y. Huseenappa S/o. Sunkanna
			869/2a	Dry	Private Land	0.40	Veduguru Ch. Saravanna S/o. Pd. Veerappa, K. Anjanamma S/o. Hanumanthu
			971	Dry	Private Land	0.45	D. Tirupalanima W/o. D. Venkata Ramaiah
			1086	Dry	Govt. Land	1.78	U.A.W.

[F. No. NHA/NS-2/S-1/LA/Kurnool/2005]

PRABHAKAR, Dy. Secy.